



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 32] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 11—अगस्त 17, 2012 (श्रावण 20, 1934)

No. 32] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 11—AUGUST 17, 2012 (SRAVANA 20, 1934)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

(मानव संसाधन प्रबन्ध विभाग)

सं. एचआरएमडी-सीओ. 249/07.06.01/2012-13--संशोधनों के साथ पठित भारतीय रिज़र्व बैंक सामान्य विनियमावली, 1949 के विनियम 18 के अनुसरण में और 6 फरवरी 1999 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित 11 सितम्बर 1998 की अधिसूचना संख्या 1 के अधिक्रमण में बैंक के केन्द्रीय बोर्ड की समिति इसके द्वारा बैंक में निम्नलिखित पदों पर कार्यरत अधिकारियों को बैंक की ओर से निम्नानुसार हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत करती है :

- I. (i) केन्द्रीय कार्यालय में मानव संसाधन प्रबन्ध विभाग के प्रधान मुख्य महाप्रबन्धक, मानव संसाधन प्रबन्ध विभाग, व्यय और बजट नियंत्रण विभाग, सरकारी और बैंक लेखा विभाग, बाह्य निवेश और परिचालन विभाग, मुद्रा प्रबन्ध विभाग, निरीक्षण विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, विदेशी मुद्रा विभाग, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, शहरी बैंक विभाग, ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग, सचिव विभाग, आंतरिक ऋण प्रबन्ध विभाग, भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, वित्तीय बाजार विभाग, ग्राहक सेवा विभाग, संचार विभाग और वित्तीय स्थिरता यूनिट के प्रभारी मुख्य महाप्रबन्धक, मुख्य महाप्रबन्धक, महाप्रबन्धक, उप महाप्रबन्धक और सहायक महाप्रबन्धक (प्रशासन);

केन्द्रीय कार्यालय में आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग और सांख्यिकी और सूचना प्रबन्ध विभाग में महाप्रबन्धक (प्रशासन) और सहायक महाप्रबन्धक (प्रशासन);

बैंक के किसी भी कार्यालय या शाखा में क्षेत्रीय निदेशक, मुख्य महाप्रबन्धक; महाप्रबन्धक (प्रभारी अधिकारी), महाप्रबन्धक (प्रशासन), उप महाप्रबन्धक (प्रशासन) और सहायक महाप्रबन्धक (प्रशासन) और बैंक के किसी भी कार्यालय या शाखा के निर्गम विभाग में महाप्रबन्धक, उप महाप्रबन्धक और सहायक महाप्रबन्धक (प्रशासन);

अचल सम्पत्ति में या के अधिकारों से संबंधित या इसे प्रभावित करने से संबंधित पट्टा विलेखों, अंतरण और हस्तांतरण पत्रों, प्रभारों और अन्य विलेखों को निष्पादित करना, बैंक के नाम से या बैंक द्वारा धारित वचनपत्रों, स्टॉक रसीदों, स्टॉक ऋणपत्रों, शेयरों, प्रतिभूतियों और सम्पत्ति की हकदारी के दस्तावेजों का बेचान और अंतरण करने तथा बैंक के वर्तमान और प्राधिकृत कारोबार से संबंधित ड्राफ्टों, चेकों का आहरण, चेकों और बिलों का बेचान और विनिमय बिलों तथा अन्य लिखतों के आहरण करने, स्वीकार करने और बेचान करने और इस कारोबार के संबंध में सभी अन्य लेखों, रसीदों और प्रलेखों पर हस्ताक्षर करने और अपने-अपने विभागों के सभी पत्रों और ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने के लिए।

- (ii) बैंक के किसी भी कार्यालय या शाखा के किसी भी विभाग में महाप्रबन्धक, उप महाप्रबन्धक और सहायक महाप्रबन्धक

बैंक के वर्तमान और प्राधिकृत कारोबार से संबंधित रसीदों और प्रलेखों पर हस्ताक्षर और अपने-अपने विभागों के सभी पत्रों और ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने के लिए।

उपर्युक्त के अलावा :

(iii) केन्द्रीय कार्यालय में सरकारी और बैंक लेखा विभाग में प्रभारी मुख्य महाप्रबन्धक, मुख्य महाप्रबन्धक, महाप्रबन्धक, उप महाप्रबन्धक को निम्नलिखित कार्यों के लिए भी अधिकृत किया जाता है :

क) संबद्ध सरकारों के बारे में बैंक की भूमिका को प्रभावित करने वाले मामलों में राज्य/संघ राज्य/केन्द्र सरकार के साथ करार पर हस्ताक्षर करने के लिए;

ख) यदि सरकारी कारोबार के संचालन और/अथवा लोक ऋण के प्रबन्धन के लिए रिज़र्व बैंक के एजेंट के रूप में बैंकों की सेवाएं सूचीबद्ध हों तो संबंधित बैंकों के साथ करार पर हस्ताक्षर करने के लिए।

(iv) केन्द्रीय कार्यालय में मुद्रा प्रबन्ध विभाग के मुख्य महाप्रबन्धक, महाप्रबन्धक, उप महाप्रबन्धक को करेंसी चेस्ट खोलने के संबंध में बैंकों के साथ करार पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया जाता है।

II. केन्द्रीय कार्यालय में आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग के प्रधान परामर्शदाता या प्रभारी अधिकारी, जैसा भी मामला हो, तथा परामर्शदाता;

केन्द्रीय कार्यालय में सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग के प्रधान परामर्शदाता या प्रभारी अधिकारी, जैसा भी मामला हो, तथा परामर्शदाता और निदेशक;

केन्द्रीय कार्यालय में आंतरिक ऋण प्रबन्ध विभाग के सहायक परामर्शदाता, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग के वित्तीय संस्थान प्रभाग में निदेशक और मौद्रिक नीति विभाग के प्रभारी परामर्शदाता, परामर्शदाता, निदेशक, उप महाप्रबन्धक, सहायक महाप्रबन्धक और सहायक परामर्शदाता;

केन्द्रीय कार्यालय में विधि विभाग के प्रधान विधि परामर्शदाता/प्रभारी विधि परामर्शदाता, विधि परामर्शदाता, संयुक्त विधि परामर्शदाता, उप विधि परामर्शदाता, सहायक विधि परामर्शदाता, उप महाप्रबन्धक और सहायक महाप्रबन्धक और बैंक के किसी भी कार्यालय या शाखा के विधि कक्ष में उप विधि-परामर्शदाता और सहायक विधि-परामर्शदाता, बैंक के किसी भी कार्यालय या शाखा के निर्गम और बैंकिंग विभागों के प्रबन्धक (ग्रेड 'बी'), बैंक के किसी भी कार्यालय या शाखा के नकदी विभाग में कोषपाल, केन्द्रीय कार्यालय में सचिव विभाग में गवर्नर के प्रधान निजी सचिव, कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे और रिज़र्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय, चेन्नई के प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य और सहायक महाप्रबन्धक:

अचल सम्पत्ति में या के अधिकारों से संबंधित या इसे प्रभावित करने से संबंधित पट्टा विलेखों, अंतरण और हस्तांतरण पत्रों, प्रभारों और अन्य विलेखों को निष्पादित करने, रिज़र्व बैंक के वर्तमान और प्राधिकृत कारोबार से संबंधित रसीदों और प्रलेखों पर हस्ताक्षर करने और अपने-अपने विभागों के सभी पत्रों और ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने के लिए।

- III. (i) केन्द्रीय कार्यालय में आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग और सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग के सहायक परामर्शदाता, सहायक महाप्रबन्धक, प्रबन्धक, अनुसंधान अधिकारी और सहायक प्रबन्धक, वित्तीय बाजार विभाग के सहायक परामर्शदाता, सहायक महाप्रबन्धक, प्रबंधक, अनुसंधान अधिकारी;

केन्द्रीय कार्यालय में मौद्रिक नीति विभाग और आंतरिक ऋण प्रबन्ध विभाग के सहायक परामर्शदाता और अनुसंधान अधिकारी; केन्द्रीय कार्यालय में विधि विभाग के विधि अधिकारी, प्रबन्धक और सहायक प्रबन्धक और रिज़र्व बैंक के किसी भी कार्यालय या शाखा में विधि अधिकारी, बैंक के किसी भी कार्यालय या शाखा में ग्रेड 'ए', 'बी' और 'सी' में निजी सचिव, रिज़र्व बैंक के किसी भी कार्यालय या शाखा के नकदी विभाग में उप कोषपाल और सहायक कोषपाल, केन्द्रीय कार्यालय के किसी भी विभाग में या रिज़र्व बैंक के किसी भी कार्यालय या शाखा में प्रबन्धक (ग्रेड 'बी') और सहायक प्रबंधक (ग्रेड 'ए'):

बैंक के वर्तमान और प्राधिकृत कारोबार से संबंधित रसीदों और प्रलेखों पर हस्ताक्षर और अपने-अपने विभागों के सभी पत्रों और ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने के लिए।

- (ii) मुंबई में भारतीय रिज़र्व बैंक सर्विसेज बोर्ड के महाप्रबन्धक, उप महाप्रबन्धक और सहायक महाप्रबन्धक:

ड्राफ्टों, चेकों, और भुगतान आदेशों को जारी करना और इनका बेचान करना तथा बोर्ड/ रिज़र्व बैंक के वर्तमान और प्राधिकृत कारोबार से संबंधित प्राप्तियों और लिखतों पर हस्ताक्षर करने और ऐसे कारोबार से संबंधित अन्य लेखों, प्राप्तियों, प्रलेखों और करारों पर हस्ताक्षर करने और बोर्ड के कार्यालय से जारी होने वाले सभी पत्रों और ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने के लिए।

- (iii) मुंबई में भारतीय रिज़र्व बैंक सर्विसेज बोर्ड के प्रबन्धक और सहायक प्रबन्धक:

बोर्ड के वर्तमान और प्राधिकृत व्यवसाय से संबंधित प्राप्तियों पर हस्ताक्षर करने और बोर्ड के कार्यालय से जारी होने वाले सभी पत्रों और ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने के लिए।

- (iv) केन्द्रीय कार्यालय में राजभाषा विभाग के महाप्रबन्धक, उप महाप्रबन्धक, सहायक महाप्रबन्धक, प्रबंधक और सहायक प्रबंधक:

रिज़र्व बैंक के वर्तमान और प्राधिकृत व्यवसाय से संबंधित प्राप्तियों पर हस्ताक्षर करने और राजभाषा विभाग के कार्यालय से जारी होने वाले सभी पत्रों और ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने के लिए।

उपर्युक्त के अलावा :

- (v) रिज़र्व बैंक के किसी भी कार्यालय या शाखा में लोक ऋण कार्यालय और जमा लेखा विभाग से संबद्ध सहायक महाप्रबन्धक और प्रबन्धक रिज़र्व बैंक के वर्तमान और अधिकृत कारोबार में वचनपत्रों, स्टॉक रसीदों और स्टॉक ऋणपत्रों के बेचान और अंतरण और ड्राफ्टों की मंजूरी, चेकों और बिलों का बेचान करने और भुगतान आदेशों/भुगतान करने के आदेशों/धनवापसी आदेशों पर भी हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हैं।
- (vi) यदि स्क्रिप के रूप में जारी किए जा रहे हों तो रिज़र्व बैंक के किसी भी कार्यालय या शाखा में लोक लेखा विभाग/लोक ऋण कार्यालय से संबद्ध सहायक महाप्रबन्धक/प्रबन्धक ट्रेजरी बिलों पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हैं।
- (vii) रिज़र्व बैंक के किसी भी कार्यालय या शाखा में लोक ऋण कार्यालय से संबद्ध सहायक प्रबन्धक निम्नलिखित पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हैं :
 - (i) लोक ऋण कार्यालय द्वारा जारी सरकारी कागजात पर;
 - (ii) सरकारी प्रतिभूतियों पर देय ब्याज के भुगतान के लिए वारंट पर ;
 - (iii) लोक ऋण कार्यालय से जारी किए जाने वाले पत्रों, सूचनापत्रों और प्रति रसीदों पर।
- (viii) केन्द्रीय कार्यालय में आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग और सांख्यिकी और सूचना प्रबन्ध विभाग में यथा स्थिति अनुसार प्रधान परामर्शदाता, परामर्शदाता या प्रभारी अधिकारी; केन्द्रीय कार्यालय में मौद्रिक नीति विभाग में प्रभारी परामर्शदाता, उप महाप्रबन्धक और सहायक महाप्रबन्धक; केन्द्रीय कार्यालय में विधि विभाग में प्रधान विधि परामर्शदाता/प्रभारी विधि परामर्शदाता, उप महाप्रबन्धक और सहायक महाप्रबन्धक; बैंक के किसी भी कार्यालय या शाखा में निर्गम विभाग में प्रबन्धक (ग्रेड बी); बैंक के किसी भी कार्यालय या शाखा में नगदी विभाग में कोषपाल; केन्द्रीय कार्यालय में सचिव विभाग में गवर्नर के प्रधान निजी सचिव; कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे और रिज़र्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय, चेन्नई में प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य और सहायक महाप्रबन्धक; रिज़र्व बैंक के किसी भी कार्यालय या शाखा में प्रबन्धक और सहायक प्रबन्धक, रिज़र्व बैंक के नकदी विभाग से संबद्ध प्रबन्धकों और सहायक प्रबन्धकों के अलावा; केन्द्रीय कार्यालय में आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग और सांख्यिकी और सूचना प्रबन्ध विभाग में प्रबन्धक (प्रशासन) और सहायक प्रबन्धक (प्रशासन) को रिज़र्व बैंक के वर्तमान और अधिकृत कारोबार में ड्राफ्टों, चेकों, भुगतान आदेशों के आहरण और चेकों के पृष्ठांकन के लिए भी प्राधिकृत किया जाता है।

- IV (i) परिसर विभाग में मुख्य महाप्रबन्धक, मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक (तकनीकी), उप महाप्रबन्धक (तकनीकी) और सहायक महाप्रबन्धक (तकनीकी) (केन्द्रीय कार्यालय में परिसर विभाग से संबद्ध क्षेत्रों में) और रिज़र्व बैंक के किसी भी कार्यालय या शाखा जहां तकनीकी संवर्ग में सहायक महाप्रबन्धक इससे उच्च स्तर के पद उपलब्ध/भरे हुए नहीं हैं, वहां परिसर/सम्पदा विभाग से संबद्ध/के कार्यचालन की देखरेख करने के लिए नियुक्त सामान्य संवर्ग के सहायक महाप्रबन्धक और उच्च स्तर के अधिकारी :

अचल सम्पत्ति के अधिकारों से सम्बन्धित या अधिकारों को प्रभावित करने वाले निविदा प्रलेखों, पट्टा विलेखों, अंतरण और हस्तांतरणपत्रों, रेहन और अन्य विलेखों के निष्पादन, बैंक के नाम में प्रस्थापित या धारित वचनपत्रों, स्टॉक रसीदों, स्टॉक ऋणपत्रों, शेयरों, प्रतिभूतियों और सम्पत्तियों के हकदारी दस्तावेजों का बेचान और अंतरण करने, और बैंक के वर्तमान और अधिकृत कारोबार में विनिमय बिलों और अन्य लिखतों का आहरण करने, स्वीकार करने और बेचान करने और ऐसे कारोबार से संबंधित अन्य सभी लेखों, रसीदों और प्रलेखों तथा परिसर विभाग से जारी होने वाले सभी पत्रों और ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत हैं।

- (ii) परिसर विभाग में मुख्य महाप्रबन्धक, मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक (तकनीकी), उप महाप्रबन्धक (तकनीकी) और सहायक महाप्रबन्धक (तकनीकी) (केन्द्रीय कार्यालय में परिसर विभाग से संबद्ध क्षेत्रों में) और रिज़र्व बैंक के किसी भी कार्यालय या शाखा जहां तकनीकी संवर्ग में सहायक महाप्रबन्धक इससे उच्च स्तर के पद उपलब्ध/भरे हुए नहीं हैं, वहां परिसर/सम्पदा विभाग से संबद्ध/के कार्यचालन की देखरेख करने के लिए नियुक्त सामान्य संवर्ग के सहायक महाप्रबन्धक उच्च स्तर के अधिकारी :

अचल सम्पत्ति के अधिकारों से सम्बन्धित या अधिकारों को प्रभावित करने वाले निविदा प्रलेखों, पट्टा विलेखों, अंतरण और हस्तांतरणपत्रों, रेहन और अन्य विलेखों के निष्पादन करने, और बैंक के वर्तमान और अधिकृत कारोबार से संबद्ध अन्य संविदाओं और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत हैं।

- (iii) रिज़र्व बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में परिसर विभाग और इसके किसी भी कार्यालय और शाखा में महाप्रबन्धक (तकनीकी), उप महाप्रबन्धक (तकनीकी), सहायक महाप्रबन्धक (तकनीकी), प्रबन्धक (तकनीकी) और सहायक प्रबन्धक (तकनीकी) :

रिज़र्व बैंक के वर्तमान और अधिकृत कारोबार में प्राप्तियों पर हस्ताक्षर करने और अपने-अपने विभागों से जारी होने वाले सभी पत्रों और ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत हैं।

- (iv) रिज़र्व बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में मुद्रा प्रबन्ध विभाग में मुख्य महाप्रबन्धक, महाप्रबन्धक, उप महाप्रबन्धक और सहायक महाप्रबन्धक और इसके किसी भी कार्यालय और शाखा के निर्गम विभाग में महाप्रबन्धक, उप महाप्रबन्धक:

निविदा दस्तावेजों का निष्पादन करने के लिए।

- (v) केन्द्रीय कार्यालय में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में महाप्रबन्धक, उप महाप्रबन्धक, सहायक महाप्रबन्धक और प्रबन्धक (परिचालन) :

निविदा प्रलेखों का निष्पादन करने और वार्षिक अनुरक्षण करार पर हस्ताक्षर करने के लिए।

- V. उपर्युक्त पैराग्राफ I और II के तहत प्रदत्त शक्ति/ शक्तियों के अलावा निम्नलिखित नियुक्तियों पर विद्यमान अधिकारियों को हस्ताक्षर करने की निम्नलिखित शक्तियों के प्रयोग के लिए भी प्राधिकृत किया जाता है:

- (i) रिजर्व बैंक के केन्द्रीय कार्यालय के विदेशी मुद्रा विभाग के या इसके किसी भी कार्यालय या शाखा से संबद्ध प्रभारी मुख्य महाप्रबन्धक, मुख्य महाप्रबन्धक, महाप्रबन्धक, उप महाप्रबन्धक और सहायक महाप्रबन्धक और बैंक के कार्यालयों और शाखाओं के क्षेत्रीय निदेशक/ महाप्रबन्धक (प्रभारी अधिकारी) जो विदेशी मुद्रा विभाग के पदेन मुख्य महाप्रबन्धक/ महाप्रबन्धक/ उप महाप्रबन्धक होते हैं:

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) या इसके पुनः अधिनियमन द्वारा या इसके प्रावधानों के तहत या इसके द्वारा रिजर्व बैंक को सौंपे गए कार्यों या प्रदत्त शक्तियों के संबंध में और इस अधिनियम के तहत किसी भी नियम, विनियम, अधिसूचना, निर्देश या आदेश पर हस्ताक्षर करने के सम्पूर्ण अधिकार

- (ii) रिजर्व बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग या इसके किसी भी कार्यालय या शाखा से संबद्ध प्रभारी मुख्य महाप्रबन्धक, मुख्य महाप्रबन्धक, क्षेत्रीय निदेशक, महाप्रबन्धक, उप महाप्रबन्धक और सहायक महाप्रबन्धक

बैंकिंग विनियमनकारी अधिनियम 1949 में यथा परिभाषित बैंकिंग कारोबार करनेवाली और इसी अधिनियम के भाग-I और IV के उपबंधों द्वारा नियंत्रित किसी भी संस्था के संबंध में विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 11(3) या इसके किसी पुनः अधिनियमन से जुड़े सभी मामलों और कानूनी कार्रवाइयों के संबंध में हस्ताक्षर करने के सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं।

- (iii) केन्द्रीय कार्यालय में विदेशी मुद्रा विभाग में प्रभारी मुख्य महाप्रबन्धक, मुख्य महाप्रबन्धक, और रिजर्व बैंक के किसी भी कार्यालय या शाखा में क्षेत्रीय निदेशक, महाप्रबन्धक, उप महाप्रबन्धक, सहायक महाप्रबन्धक

दिनांक 3 मई 2000 के विदेशी मुद्रा (सुलहकारी कार्रवाई) नियमावली, 2000 के नियम 4 के प्रावधानों के तहत सुलहकारी आदेश जारी करना।

- (iv) केन्द्रीय कार्यालय और रिज़र्व बैंक के किसी भी कार्यालय या शाखा में विदेशी मुद्रा विभाग में प्रबन्धक और सहायक प्रबन्धक

निम्नलिखित पर हस्ताक्षर करने के लिए -

- (क) निर्यात लाइसेन्स
- (ख) फार्म
- (ग) परमिट/अनुमोदन और
- (घ) विदेशी मुद्रा विभाग से जारी किए जाने वाले पत्रों और ज्ञापनों पर

- (v) केन्द्रीय कार्यालय में ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग में प्रभारी मुख्य महाप्रबन्धक, मुख्य महाप्रबन्धक, महाप्रबन्धक, उप महाप्रबन्धक, सहायक महाप्रबन्धक और प्रबन्धक;

केन्द्रीय कार्यालय में बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, और गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग में प्रभारी मुख्य महाप्रबन्धक, मुख्य महाप्रबन्धक, महाप्रबन्धक, उप महाप्रबन्धक, सहायक महाप्रबन्धक और प्रबन्धक तथा रिज़र्व बैंक के कार्यालयों और शाखाओं के क्षेत्रीय निदेशक/ महाप्रबन्धक (प्रभारी अधिकारी) :

- (क) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 17(2)(क), 17(3क), 17(3ख), 17(4)(क), 17(4) (ग), 17(11क)(ख), 18क, 42, 45क से 45ड तक के उपबन्धों और उसके तहत बनाए गए किन्हीं नियमों, आलेखों अथवा अधिसूचनाओं के अन्तर्गत बैंक को सौंपे गए कार्यों या प्रदत्त अधिकारों के सम्बन्ध में हस्ताक्षर करने के सम्पूर्ण अधिकार तथा समस्त कागजात तथा प्रलेखों पर हस्ताक्षर करना तथा सामान्यतया उक्त धाराओं से संबंधित समस्त मामलों में बैंक की ओर से कार्य करने के लिए।

- (ख) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) के भाग-I से IV तक के उपबन्धों और इनके तहत बनाए गए नियमों, आदेशों, अधिसूचनाओं के तहत बैंक को सौंपे गए कार्यों या प्रदत्त अधिकारों के संबंध में हस्ताक्षर करने के सम्पूर्ण अधिकार तथा उक्त अधिनियम की धारा 46 के तहत शिकायतों पर हस्ताक्षर करने और ऐसी शिकायतों के संबंधित या इनके कारण होने वाली समस्त कार्रवाइयों में सामान्यतया रिज़र्व बैंक की ओर से कार्य करने के लिए।

- (vi) केन्द्रीय कार्यालय में भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग में प्रभारी मुख्य महाप्रबन्धक, मुख्य महाप्रबन्धक, महाप्रबन्धक, उप महाप्रबन्धक, सहायक महाप्रबन्धक और प्रबन्धक और रिज़र्व बैंक के कार्यालयों और शाखाओं में क्षेत्रीय निदेशक/महाप्रबन्धक (प्रभारी अधिकारी)/महाप्रबन्धक :

भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का 51) के अध्याय I से VIII तक के उपबन्धों और इसके तहत जारी किसी भी विनियम, आदेश, निर्देश, दिशानिर्देश और

अधिसूचना द्वारा रिज़र्व बैंक को सौंपे गए कार्यों और प्रदत्त शक्तियों के संबंध में हस्ताक्षर करने की सम्पूर्ण शक्तियां और इस अधिनियम में उल्लिखित अपराधों के संबंध में शिकायतों पर हस्ताक्षर करने और इन शिकायतों के संबंध में या इनके कारण होने वाली सभी कार्रवाइयों में बैंक की ओर से कार्य करना और सभी कागजात या दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

- (vii) केन्द्रीय कार्यालय में बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग और ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग के प्रभारी मुख्य महाप्रबन्धक, मुख्य महाप्रबन्धक, महाप्रबन्धक, उप महाप्रबन्धक और सहायक महाप्रबन्धक और केन्द्रीय कार्यालय में बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग और बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग में प्रबन्धक :

रिज़र्व बैंक के केन्द्रीय कार्यालय और इसके किसी भी कार्यालय या शाखा में शहरी बैंक विभाग में प्रभारी मुख्य महाप्रबन्धक, मुख्य महाप्रबन्धक, महाप्रबन्धक, उप महाप्रबन्धक और सहायक महाप्रबन्धक:

बैंककारी अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 47ए की उपधारा (3) के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और जांच करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति के पत्रों और पत्राचार पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किए जाते हैं।

- (viii) केन्द्रीय कार्यालय में बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग और ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग में उप महाप्रबन्धक, सहायक महाप्रबन्धक और केन्द्रीय कार्यालय में बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग के वित्तीय संस्था प्रभाग में सहायक परामर्शदाता:

बैंककारी अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 46 के तहत शिकायतों पर हस्ताक्षर करना तथा समस्त कागजात अथवा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और ऐसी शिकायतों से संबंधित या उनके कारण होने वाली समस्त कार्रवाइयों में सामान्यतया बैंक की ओर से कार्य करने के लिए।

- (ix) केन्द्रीय कार्यालय में भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग में उप महाप्रबन्धक, सहायक महाप्रबन्धक और प्रबन्धक :

भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का 51) की धारा 28 के तहत शिकायतों पर हस्ताक्षर करना, इन शिकायतों के संबंध में या इनके कारण सभी कार्रवाइयों में सभी कागजात और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और ऐसी कार्रवाइयों में बैंक की ओर से सामान्यतया कार्य करने के लिए।

- (x) केन्द्रीय कार्यालय में बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग और शहरी बैंक विभाग के प्रभारी मुख्य महाप्रबन्धक, मुख्य महाप्रबन्धक, महाप्रबन्धक, उप महाप्रबन्धक, सहायक महाप्रबन्धक और प्रबन्धक :

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 43 में उल्लिखित अनुसूचित बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, प्राथमिक सहकारी बैंकों और राज्य सहकारी समितियों सहित) की स्थिति दर्शाने वाले समेकित विवरण पर हस्ताक्षर करने के लिए।

- (xi) केन्द्रीय कार्यालय में बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग और ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग के प्रभारी मुख्य महाप्रबन्धक, मुख्य महाप्रबन्धक, महाप्रबन्धक, उप महाप्रबन्धक, सहायक महाप्रबन्धक और प्रबन्धक :

रिज़र्व बैंक के केन्द्रीय कार्यालय और इसके कार्यालयों और शाखाओं में प्रभारी मुख्य महाप्रबन्धक, मुख्य महाप्रबन्धक, महाप्रबन्धक, उप महाप्रबन्धक, सहायक महाप्रबन्धक और प्रबन्धक.:

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 17(2)(क), 17(3क), 17(3ख), 17(4)(क) और 17(4) (ग) के तहत बैंकों को सीमाओं की स्वीकृति की सूचना देने वाले पत्रों, पत्राचारों, इसी अधिनियम की धारा 42(5)(क) के तहत दंडात्मक ब्याज की मांग करने वाले नोटिसों पर हस्ताक्षर करने और इस अधिनियम की धारा 45क से 45ड तक दिए गए उपबन्धों के तहत ऋण सूचना एकत्र करना/प्रस्तुत करना तथा इससे संबंधित मामले।

- (xii) केन्द्रीय कार्यालय में ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग में प्रभारी मुख्य महाप्रबन्धक, मुख्य महाप्रबन्धक, महाप्रबन्धक, उप महाप्रबन्धक और सहायक महाप्रबन्धक :

रिज़र्व बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में शहरी बैंक विभाग में प्रभारी मुख्य महाप्रबन्धक, मुख्य महाप्रबन्धक, महाप्रबन्धक, उप महाप्रबन्धक और सहायक महाप्रबन्धक और इसके कार्यालयों और शाखाओं में क्षेत्रीय निदेशक, महाप्रबन्धक (प्रभारी अधिकारी) को :

बैंककारी अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 46 के तहत सहकारी समितियों पर लागू या इस अधिनियम के भाग V के तहत इनके संबंध में और इनके तहत बनाए गए किसी भी नियम, आदेश या अधिसूचना के माध्यम से रिज़र्व बैंक को सौंपी गई या प्रदत्त शक्तियों के बारे में हस्ताक्षर करने की सम्पूर्ण शक्तियां।

उक्त अधिनियम के भाग V के तहत सहकारी समितियों पर लागू या उनके संबंधित उक्त अधिनियम की धारा 46 के तहत शिकायतों पर हस्ताक्षर करना, और ऐसी शिकायतों के संबंध में या उनके कारण हाने वाली समस्त कार्रवाइयों में बैंक की ओर से कार्य करने के लिए।

- (xiii) रिज़र्व बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में शहरी बैंक विभाग के प्रभारी मुख्य महाप्रबन्धक, मुख्य महाप्रबन्धक, महाप्रबन्धक, उप महाप्रबन्धक और सहायक महाप्रबन्धक और इसके कार्यालयों और शाखाओं में क्षेत्रीय निदेशक, महाप्रबन्धक (प्रभारी अधिकारी) :

बैंककारी अधिनियम, 1949 की धारा 47क की उपधारा (2) के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पत्रों, पत्राचारों और कारण बताओ नोटिसों पर हस्ताक्षर करने के लिए।

(xiv) केन्द्रीय कार्यालय में ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग में प्रबन्धक :

रिज़र्व बैंक के केन्द्रीय कार्यालय और इसके कार्यालयों और शाखाओं में शहरी बैंक विभाग में प्रबन्धक:

बैंककारी अधिनियम, 1949 (1949 का 10) के भाग V में उल्लिखित सहकारी सोसायटियों के संबंध में या इस अधिनियम की यथालागू धारा 46 के तहत दायर की जाने वाली शिकायतों पर हस्ताक्षर करने और इस प्रकार दायर शिकायतों के संबंध में या इनके कारण होने वाली सभी अदालती कार्रवाइयों में सभी कागजात या दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और इन अदालती कार्रवाइयों में रिज़र्व बैंक की ओर से सामान्यतया कार्य करने के लिए।

(xv) केन्द्रीय कार्यालय में ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग में प्रभारी मुख्य महाप्रबन्धक, मुख्य महाप्रबन्धक, महाप्रबन्धक, उप महाप्रबन्धक और सहायक महाप्रबन्धक :

रिज़र्व बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में शहरी बैंक विभाग में प्रभारी मुख्य महाप्रबन्धक, मुख्य महाप्रबन्धक, महाप्रबन्धक, उप महाप्रबन्धक और सहायक महाप्रबन्धक और इसके कार्यालयों और शाखाओं में क्षेत्रीय निदेशक, महाप्रबन्धक (प्रभारी अधिकारी) :

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धाराओं, जैसा भी मामला हो, धारा 17(2)(क), 17(2)(ख), 17(2)(खख), 17(3क), 17(4)(क), 17(4)(ग), 17(4)(घ), 17(4ड.), 18 और 46क के साथ पठित 17(4कक) के उपबंधों के द्वारा या उनके तहत बनाए गए किसी नियम, आदेश या अधिसूचना के तहत रिज़र्व बैंक को सौंपे गए कार्यों या प्रदत्त शक्तियों के संबंध में हस्ताक्षर करने की सम्पूर्ण शक्तियां तथा समस्त कागजात या दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और इन धाराओं के तहत आने वाले सभी मामलों में सामान्यतया रिज़र्व बैंक की ओर से कार्य करना।

(xvi) केन्द्रीय कार्यालय में ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग में महाप्रबन्धक, उप महाप्रबन्धक और सहायक महाप्रबन्धक :

रिज़र्व बैंक के केन्द्रीय कार्यालय और इसके कार्यालयों और शाखाओं में शहरी बैंक विभाग में महाप्रबन्धक, उप महाप्रबन्धक और सहायक महाप्रबन्धक :

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) के किसी भी उपबन्ध के तहत सीमाओं की मंजूरी संबंधी सूचना देने वाले पत्रों और पत्राचारों पर, इसी अधिनियम की धारा 42(5)(क) के तहत दंडात्मक ब्याज की मांग करने और इससे सम्बद्ध अन्य मामलों से संबंधित नोटिसों पर हस्ताक्षर करने के लिए।

- (xvii) केन्द्रीय कार्यालय में आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग में अन्तरराष्ट्रीय वित्त प्रभाग में प्रधान परामर्शदाता, प्रभारी अधिकारी, परामर्शदाता और निदेशक;

अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और बैंक अधिनियम, 1945 के उपबन्धों और इसके तहत किसी भी आर्डर ऑफ रिक्वीजिशन द्वारा या इनके तहत रिज़र्व बैंक को सौंपे गए कार्यों या प्रदत्त शक्तियों के संबंध में हस्ताक्षर करने की सम्पूर्ण शक्तियां ;

भारतीय दंड संहिता की धारा 176 और 177 के संबंध में अभियोगों पर हस्ताक्षर करने और उक्त अधिनियम की धारा 4 के तहत अपेक्षित किसी भी सूचना के संबंध में और सभी कागजात या दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और इन अभियोगों के संबंध में या इनके कारण होने वाली सभी कानूनी कार्रवाइयों में सामान्यतया रिज़र्व बैंक की ओर से कार्य करने के लिए।

- (xviii) रिज़र्व बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग में प्रभारी मुख्य महाप्रबन्धक, मुख्य महाप्रबन्धक, महाप्रबन्धक, उप महाप्रबन्धक और सहायक महाप्रबन्धक और इसके कार्यालयों और शाखाओं में क्षेत्रीय निदेशक/महाप्रबन्धक (प्रभारी अधिकारी) :

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) के अध्याय IIIख के उपबन्धों और इसके तहत निर्मित सामान्य या विशेष आदेशों या अधिसूचनाओं या दिए गए निर्देशों के तहत या इनके द्वारा रिज़र्व बैंक को सौंपे गए कार्यों या प्रदत्त शक्तियों के संबंध में हस्ताक्षर करने की सम्पूर्ण शक्तियां।

- (xix) रिज़र्व बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग में प्रभारी मुख्य महाप्रबन्धक, मुख्य महाप्रबन्धक, महाप्रबन्धक, उप महाप्रबन्धक और सहायक महाप्रबन्धक और इसके कार्यालयों और शाखाओं में क्षेत्रीय निदेशक/महाप्रबन्धक (प्रभारी अधिकारी) :

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 58ड. के तहत अभियोगों पर हस्ताक्षर करना, इन अभियोगों के संबंध में या इनके कारण होने वाली सभी कानूनी कार्रवाइयों में सभी कागजात या दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना और इन कानूनी कार्रवाइयों में सामान्यतया रिज़र्व बैंक की ओर से कार्य करना।

- (xx) केन्द्रीय कार्यालय में बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग में प्रभारी मुख्य महाप्रबन्धक, मुख्य महाप्रबन्धक, महाप्रबन्धक, उप महाप्रबन्धक, और रिज़र्व बैंक के कार्यालयों और शाखाओं में क्षेत्रीय निदेशक/महाप्रबन्धक (प्रभारी अधिकारी) :

(क) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 17(2)(खख), 17(3ख), 17(4)(क),(ख) और (ग), 17(4क), 17(4ख), 17(4खख), 17(4छ), 17(4ज) और 17(8क) के उपबन्धों और उसके तहत बनाए गए किन्हीं नियमों, आदेशों अथवा अधिसूचनाओं के अन्तर्गत बैंक को सौंपे गए कार्यों या प्रदत्त अधिकारों के सम्बन्ध में हस्ताक्षर करने के सम्पूर्ण अधिकार तथा समस्त कागजात तथ प्रलेखों पर हस्ताक्षर करना तथा सामान्यतया उक्त धाराओं से संबंधित समस्त मामलों में बैंक की ओर से कार्य करने के लिए;

- (ख) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 और राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 के उपबन्धों और इनके तहत बनाए गए नियमों, आदेशों, अधिसूचनाओं के तहत रिज़र्व बैंक को सौंपे गए कार्यों या प्रदत्त शक्तियों के संबंध में हस्ताक्षर करने के सम्पूर्ण अधिकार।
- (xxi) केन्द्रीय कार्यालय में मौद्रिक नीति विभाग में प्रभारी परामर्शदाता, परामर्शदाता, निदेशक, उप महाप्रबन्धक, सहायक महाप्रबन्धक
- अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को पुनः वित्तीयन और रीडिस्काउंटिंग सीमाओं की स्वीकृति देने के संबंध में और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 17(2)(क), 17(3क), 17(3ख), 17(4)(क), 17(4) (ग), 17(11क)(ख), और 42 के उपबन्धों और इसके तहत बनाए गए किन्हीं नियमों, आदेशों अथवा अधिसूचनाओं के अन्तर्गत बैंक को सौंपे गए कार्यों या प्रदत्त अधिकारों के सम्बन्ध में हस्ताक्षर करने के सम्पूर्ण अधिकार तथा समस्त कागजात तथ प्रलेखों पर हस्ताक्षर करने के लिए।
- (xxii) रिज़र्व बैंक के केन्द्रीय कार्यालय और इसके कार्यालयों और शाखाओं में शहरी बैंक विभाग में महाप्रबन्धक, उप महाप्रबन्धक और सहायक महाप्रबन्धक:
- भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42(5)(क) के तहत दंडात्मक ब्याज की मांग करने और इसी अधिनियम की धारा 45क से 45च तक के तहत ऋण सूचना के संग्रहण/प्रस्तुति और इससे संबंधित अन्य मामलों में पत्रों, नोटिसों पर हस्ताक्षर करने के लिए।
- (xxiii) केन्द्रीय कार्यालय में आंतरिक ऋण प्रबन्ध विभाग में मुख्य महाप्रबन्धक, महाप्रबन्धक, निदेशक, उप महाप्रबन्धक, सहायक परामर्शदाता, प्रबन्धक, अनुसंधान अधिकारी।
- आंतरिक ऋण प्रबन्ध के संबंध में रिज़र्व बैंक को सौंपे गए कार्यों के सन्दर्भ में हस्ताक्षर करने की सम्पूर्ण शक्तियां।
- (xxiv) केन्द्रीय कार्यालय में बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग और गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग में प्रभारी मुख्य महाप्रबन्धक, मुख्य महाप्रबन्धक, महाप्रबन्धक।
- भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45ट, 45ठ, 45ड और अन्य संबंधित धाराओं के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने/अनुदेश जारी करने के लिए।
- (xxv) केन्द्रीय कार्यालय में वित्तीय बाजार विभाग में मुख्य महाप्रबन्धक, महाप्रबन्धक, निदेशक, उप महाप्रबन्धक, सहायक महाप्रबन्धक, सहायक परामर्शदाता, प्रबन्धक, अनुसंधान अधिकारी।
- वित्तीय बाजार विभाग के संबंध में बैंक को सौंपे गए कार्यों के बारे में हस्ताक्षर करने की सम्पूर्ण शक्तियां।
- (xxvi) केन्द्रीय कार्यालय में ग्राहक सेवा विभाग में मुख्य महाप्रबन्धक, महाप्रबन्धक (प्रशासन), उप महाप्रबन्धक, सहायक महाप्रबन्धक, प्रबन्धक, सहायक प्रबन्धक।

शिकायतों के संबंध में या इनके कारण हुई सभी कार्रवाइयों में सामान्यतया रिज़र्व बैंक की तरफ से कार्य करना और सभी कागजात या दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

(xxvii) केन्द्रीय कार्यालय में जोखिम प्रबंध विभाग में मुख्य महाप्रबन्धक, महाप्रबन्धक (प्रशासन), उप महाप्रबन्धक, सहायक महाप्रबन्धक, प्रबन्धक और रिज़र्व बैंक के कार्यालयों और शाखाओं में क्षेत्रीय निदेशक/महाप्रबन्धक (प्रभारी अधिकारी), सहायक महाप्रबन्धक, प्रबन्धक।

जोखिम प्रबंध विभाग के संबंध में बैंक को सौंपे गए कार्यों के बारे में हस्ताक्षर करने की सम्पूर्ण शक्तियां।

VI. इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए जहां भी आवश्यक हुआ तो एकवचन में प्रयुक्त अभिव्यक्तियों में बहुवचन और बहुवचन अभिव्यक्तियों में एकवचन भी शामिल होंगे, तथा उपर्युक्त किसी भी पद पर कार्यरत व्यक्ति को संदर्भित मामले में यह माना जाएगा कि वह उन अधिकारियों को भी संदर्भित है, जिन्हें उस समय ऐसे पद के वर्तमान कार्य सौंपे गए हैं।

आर. गांधी
कार्यपालक निदेशक

भारतीय स्टेट बैंक

मुंबई, दिनांक 13 जून 2012

सं. ए एण्ड एस क्र. 01/2012-13--भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 25, उप-धारा (1) के अनुच्छेद (ग) के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक श्री रमेश बाबू के स्थान पर श्री प्रदीप कुमार सन्याल, उप महाप्रबंधक (सहयोगी एवं अनुषंगी), भारतीय स्टेट बैंक, सहयोगी एवं समनुषंगी समूह, मुंबई को तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित सहयोगी बैंकों के निदेशक के रूप में नामित करता है।

1. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर
2. स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर

प्रतीप चौधरी
अध्यक्ष

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

मुंबई-400009, दिनांक 23 जुलाई 2012

सं. जी एस आर/3/4/45/12--राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 61) की धारा 48(5) के अनुसरण में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का 31 मार्च 2012 का तुलनपत्र, 31 मार्च 2012 (अप्रैल 2011--मार्च 2012) को समाप्त वर्ष के लिए बैंक का लाभ और हानि लेखा तथा वर्ष की लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट नीचे प्रकाशित है।

पी सतीश
मुख्य महा प्रबंधक एवं सचिव

पी पारिख एण्ड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

हमने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (बैंक) की 31 मार्च 2012 के संलग्न तुलन-पत्र और उसके साथ संलग्न उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि लेखों और नकदी प्रवाह विवरण की लेखापरीक्षा की है, जिसमें उन 11 क्षेत्रीय कार्यालयों और 1 प्रशिक्षण केन्द्र की विवरणियाँ भी शामिल हैं जिनकी हमने लेखापरीक्षा की है। इन कार्यालयों / प्रशिक्षण केन्द्रों का चयन हमने बैंक के परामर्श से वित्त मंत्रालय, बैंकिंग सेवाएं विभाग द्वारा जारी अधिसूचना सं. 1/14/2004 - बीओए दिनांक 23 जनवरी 2012 के अनुसार किया है। तुलन-पत्र एवं लाभ-हानि लेख में उन 18 क्षेत्रीय कार्यालयों तथा 2 प्रशिक्षण केन्द्रों की विवरणियाँ भी शामिल हैं जिनकी लेखापरीक्षा नहीं की गई है। लेखापरीक्षा न किए गए कार्यालयों का हिस्सा अग्रिमों में 26.18%, (अनुसूची 18 के नोट बी-14(सी) के अनुसार डीमड अग्रिमों सहित) जमाराशियों और सावधि नकदी उधारों में 0.38%, ब्याज आय में 24.85% (अनुसूची 18 के नोट बी-14(बी) के अनुसार डीमड अग्रिमों पर ब्याज सहित) और ब्याज व्यय में 0.34% है। ये वित्तीय विवरण बैंक के प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं। हमारी जिम्मेदारी, अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है।

हमने अपना लेखापरीक्षा कार्य भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किया है। इन मानकों से यह अपेक्षित है कि हम लेखापरीक्षा की योजना और कार्य इस प्रकार करें जिससे समुचित रूप में यह आश्वासन प्राप्त हो जाए कि क्या दिए गए वित्तीय विवरण किसी भी महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति से मुक्त हैं। वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों और किए गए प्रकटीकरण के समर्थन में दिए गए साक्ष्य की जाँच, परीक्षण के आधार पर करना, लेखापरीक्षा में सम्मिलित होती है। प्रबंधन द्वारा अपनाए गए लेखांकन सिद्धांतों और किए गए महत्वपूर्ण आकलनों और साथ ही समग्र रूप से वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी लेखापरीक्षा में शामिल होता है। हमारा विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा से हमारी राय को उचित आधार प्राप्त होता है।

ऊपर पैरा 1 में उल्लिखित लेखापरीक्षा की सीमाओं के तहत हम रिपोर्ट करते हैं कि :

- क. हमने वे सभी सूचनाएं और व्याख्याएं प्राप्त कीं जो हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन से आवश्यक थीं और वे संतोषजनक पाई गईं;
- ख. बैंक के जिन लेन-देनों की जानकारी हमें प्राप्त हुई। हमारी राय में, वे सभी बैंक की शक्तियों के अंतर्गत थे।
- ग. बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रशिक्षण केन्द्रों से प्राप्त विवरणियों को हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन से पर्याप्त पाया गया है;
- घ. तुलन-पत्र एवं लाभ-हानि लेख को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (अतिरिक्त) सामान्य विनियमावली, 1984 के अध्याय IV की अनुसूची 'अ' और अनुसूची 'आ' के अनुसार तैयार किया गया है;
- ङ. हमारी राय में और हमारी अधिकतम जानकारी तथा हमें प्रस्तुत की गई व्याख्याओं तथा बैंक की लेखा बहियों के अनुसार :
 - i. महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और उनसे संबंधित टिप्पणियों के साथ पठित तुलन-पत्र, सभी आवश्यक विवरणों से युक्त, पूर्ण और स्पष्ट तुलन-पत्र है तथा उसे भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही ढंग से तैयार किया गया है ताकि 31 मार्च 2012 को बैंक के कार्यों की सही और स्पष्ट स्थिति की जानकारी मिल सके; और
 - ii. महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और उनसे संबंधित टिप्पणियों के साथ पठित लाभ और हानि लेखा, उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ का सही शेष दर्शाता है; और भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप है और;
 - iii. नकदी प्रवाह विवरण उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह को सही और उचित रूप से दर्शाता है।

स्थान : मुंबई

दिनांक : 26 मई 2012

पी. पारिख एण्ड एसोसिएट्स

की ओर से और उनके लिए

सनदी लेखाकार

फर्म रजिस्ट्रेशन 107564 डब्ल्यू

अशोक राजगिरी

साझेदार

सदस्यता सं. (एफ-046070)

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
तुलन पत्र - 31 मार्च 2012 की स्थिति

(₹ '000 में)

क्रम सं.	निधियां और देयताएं	अनुसूची	31.03.2012 को	31.03.2011 को
1	पूंजी		3000,00,00	2000,00,00
2	प्रारक्षित निधि और अन्य प्रारक्षित निधियां	1	13407,68,56	11862,72,33
3	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण निधि	2	16058,00,00	16045,00,00
4	अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से प्राप्त अनुदानों से सृजित निधियां	3	139,20,78	138,89,56
5	उपहार, अनुदान, दान और उपकृतियां	4	657,92,20	2601,89,23
6	अन्य निधियां	5	4157,12,25	3431,47,40
7	जमाराशियां	6	95397,75,23	82776,67,53
8	बॉण्ड और डिबेंचर	7	38583,86,29	26788,21,49
9	उधार	8	4328,48,40	7681,29,10
10	चालू देयताएं और प्रावधान	9	6345,16,85	5546,09,80
	कुल		182075,20,56	158872,26,44
	विदेशी मुद्रा वायदा संविदाएं (हेजिंग) कॉण्ट्रा के अनुसार		632,33,09	592,09,63

(₹ '000 में)

क्रम सं.	संपत्ति और आस्तियां	अनुसूची	31.03.2012 को	31.03.2011 को
1	नकदी और बैंक शेष	10	8544,37,38	10765,26,79
2	निवेश	11	18209,82,72	19329,50,93
3	अग्रिम	12	152625,95,23	126027,99,95
4	अचल आस्तियां	13	225,05,62	229,48,63
5	अन्य आस्तियां	14	2469,99,61	2520,00,14
	कुल		182075,20,56	158872,26,44
	विदेशी मुद्रा वायदा संविदाएं (हेजिंग) कॉण्ट्रा के अनुसार		632,33,09	592,09,63
	वायदा और आकस्मिक देयताएं	17		
	लेखों पर महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां एवं टिप्पणियां	18		

उक्त संदर्भित अनुसूचियां लेखों का अभिन्न अंग हैं।

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

पी. पारिख एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन. 107564डब्ल्यू

अशोक राजागिरी
साझेदार
एम सं. 045070
मुंबई
दिनांक : 26 मई 2012

प्रकाश बक्षी
अध्यक्ष

एच आर खान
निदेशक

दीपांकर गुप्ता
निदेशक

के. एस. पयनाभन
मुख्य महाप्रबंधक
लेखा विभाग
मुंबई : 26 मई 2012

एम एल शर्मा
निदेशक

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा

(र '000 में)

क्रम सं.	व्यय	अनुसूची	2011-12	2010-11
1	ऋण और अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज		9511,97,11	8189,13,99
2	निवेश परिचालनों/अमाराशियों से आय (अनुसूची 18 का नोट आ-4 देखें)		1346,02,32	943,23,85
3	अन्य प्राप्तियाँ (अनुसूची 18 का नोट आ-6 देखें)		120,50,51	89,63,23
	कुल "अ"		10978,49,94	9202,01,07

(र '000 में)

क्रम सं.	व्यय	अनुसूची	2011-12	2010-11
1	ब्याज और वित्तीय प्रभार (अनुसूची 18 का नोट आ-5 देखें)	15	7534,01,97	6193,88,85
2	स्थापना और अन्य व्यय	16 अ	1027,10,81	1128,09,88
3	प्रावधान	16 आ	144,18,23	35,60,34
4	मूल्यहास		21,22,00	22,67,98
	जोड़ "आ"		8726,53,01	7378,15,05
5	कर पूर्व लाभ (अ - आ)		2251,96,93	1823,86,02
6	निम्नलिखित हेतु प्रावधान			
	(क) आयकर		455,00,00	460,00,00
	(ख) आस्थगित कर - आस्ति के लिए प्रावधान (अनुसूची 18 का नोट आ-13 देखें)		162,00,00	84,65,00
7	कर परचात लाभ		1634,96,93	1279,21,02
	लेखों पर महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं टिप्पणियाँ	18		

उक्त संदर्भित अनुसूचियाँ लेखों का अभिन्न अंग हैं.

लाभ और हानि विनियोजन खाता

(र '000 में)

क्रम सं.	विनियोजन / आहरण	2011-12	2010-11
1.	वर्ष का लाभ नीचे लाया गया	1634,96,93	1279,21,02
2.	जोड़ :		
	लाभ और हानि खाते को नामे किए गए व्यय के समक्ष निधियों से आहरण		
	क) सहकारिता विकास निधि (अनुसूची 1 देखें)	5,35,40	6,05,32
	ख) अनुसंधान और विकास निधि (अनुसूची 1 देखें)	20,65,30	17,67,49
	ग) वाटरशेड विकास निधि (अनुसूची 5 देखें)	0	1,01,14
	घ) सूक्ष्म वित्त विकास और इक्विटी निधि (अनुसूची 5 देखें)	10,61,32	11,40,75
	ङ) निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि (अनुसूची 1 देखें)	29,94,42	2,07,65
	च) कृषि नवोन्मेष एवं संवर्धन निधि	2,73,85	2,39,20
2.1	बंद की गई निधियों से आहरण		
	i) विदेशी मुद्रा जोखिम निधि	0	147,06,04
	ii) मार्जिन चार्ज हेतु सुलभ ऋण सहायता निधि	0	10,00,00
	iii) कृषि और ग्रामीण उद्यम उद्भवित निधि	0	5,00,00
3	विनियोजन हेतु उपलब्ध लाभ	1704,27,22	1481,88,61
	घटाई : निम्नलिखित में अंतर्भूत किया गया :		
	क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(I) (viii) के अंतर्गत विशेष प्रारक्षित निधियाँ	310,00,00	360,00,00
	ख) राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	10,00,00	50,00,00
	ग) राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि	1,00,00	10,00,00
	घ) सहकारी विकास निधि	5,35,40	6,05,32
	ङ) अनुसंधान और विकास निधि	20,65,30	17,67,49
	च) निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि (अनुसूची 1 देखें)	27,15,42	116,07,65
	छ) कृषि प्रौद्योगिकी अंतरण निधि	44,56,36	33,55,54
	ज) कृषि नवोन्मेष संवर्धन निधि (अनुसूची 1 देखें)	2,73,85	2,34,20
	झ) उत्पादक संगठन विकास निधि	0	50,00,00
	ञ) ग्रामीण आधारभूत संवर्धन निधि	0	25,00,00
	ट) वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि	45,00,00	10,00,00
	ड) प्रारक्षित निधि	1237,80,89	801,18,41
	कुल	1704,27,22	1481,88,61

लेखों पर महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं टिप्पणियों के लिए अनुसूची 18 देखें

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

पी.पारिख एड एसोसिएट्स

सहकारी लेखाकार

एफआरएन: 107564डब्ल्यू

अशोक राजागिरी

साझेदार

एम सं: 046070, मुंबई

दिनांक: 26 मई 2012

प्रकाश बक्षी

अध्यक्ष

एच आर खान

निदेशक

दीर्पाकर गुप्ता

निदेशक

के.एस. पद्मनाभन

मुख्य महाप्रबंधक

लेखा विभाग

मुंबई: 26 मई 2012

एम एल शर्मा

निदेशक

पी सतीश

मुख्य महाप्रबंधक एवं सचिव

तुलन पत्र की अनुसूचियां
अनुसूची 1 - प्रारक्षित निधि और अन्य प्रारक्षित निधियां

(₹ '000 में)

क्रम सं.	विवरण	01.04.2011 को प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान व्यय/परिवर्धन/समायोजन	लाभ-हानि विनियोजन से अंतरित	लाभ-हानि विनियोजन से अंतरित	31.03.2012 को शेष
1	प्रारक्षित निधि	6703,91,80	0	1237,80,89	0	7941,72,69
2	अनुसंधान और विकास निधि	50,00,00	0	20,65,30	20,65,30	50,00,00
3	प्रारक्षित पूंजी	74,80,53	0	0	0	74,80,53
4	निवेश उत्तर-चक्राव प्रारक्षित निधि	259,00,00	0	27,15,42	29,94,42	256,21,00
5	सहकारिता विकास निधि	125,00,00	0	5,35,40	5,35,40	125,00,00
6	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(I) (VIII) के अंतर्गत सृजित और अनुरक्षित विशेष प्रारक्षित निधि	4445,00,00	0	310,00,00	0	4755,00,00
7	उत्पादक संगठन विकास निधि	50,00,00	-1,64	0	0	49,98,36
8	ग्रामीण आधारभूत सुविधा संवर्द्धन निधि	25,00,00	-4,01	0	0	24,95,99
9	एमएफडीईएफ - प्रारक्षित निधि	80,00,00	0	0	0	80,00,00
10	कृषि नवोन्मेष और संवर्धन निधि	50,00,00	0	2,73,85	2,73,85	50,00,00
	कुल	11862,72,33	-5,65	1603,70,86	58,68,97	13407,68,57
	गत वर्ष	10674,59,96	5,00	1378,33,07	190,25,70	11862,72,33

अनुसूची 2 - राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण निधियां

(₹ '000 में)

क्रम सं.	विवरण	प्रारम्भिक शेष 01.04.2011 को	भा.रि.बैंक का अंशदान	लाभ-हानि विनियोजन से अंतरित	31.03.2012 को शेष
1	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	14468,00,00	1,00,00	10,00,00	14479,00,00
2	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि	1577,00,00	1,00,00	1,00,00	1579,00,00
	कुल	16045,00,00	2,00,00	11,00,00	16058,00,00
	गत वर्ष	15983,00,00	2,00,00	60,00,00	16045,00,00

अनुसूची 3 - अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों से प्राप्त अनुदान से सृजित निधियां

(₹ '000 में)

क्रम सं.	विवरण	01.04.2011 को प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त/समायोजित अनुदान	निधि में जमा व्याज	वर्ष के दौरान व्यय/संवितरण/समायोजन	31.03.2012 को शेष
1	राष्ट्रीय बैंक - स्विस विकास सहयोग परियोजना	55,61,77	0	0	0	55,61,77
2	ग्रामीण नवोन्मेष निधि (आइआईएफ) (अनुसूची 18 का नोट आ-2 और 10 देखें)	73,16,38	0	4,66,84	10,24,81	67,58,41
3	ग्रामीण संवर्द्धन निधि (आरपीएफ) (अनुसूची 18 का नोट आ-2 और 10 देखें)	9,19,49	63,10	5,45	0	9,88,05
4	जनजाति कार्यक्रम हेतु कंप्यूटर - नाबार्ड V निधि	91,92	5,23,64	0	3,00	6,12,55
	कुल	138,89,56	5,86,74	4,72,29	10,27,81	139,20,78
	गत वर्ष	149,87,64	16,39,37	4,15,31	31,52,76	138,89,56

अनुसूची 4 - उपहार, अनुदान, दान और उपकृतियों

(₹ '000 में)

क्रम सं.	विवरण	01.04.2011 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	निधि में जमा ब्याज	व्यय के समग्र समायोजित	31.03.2012 को शेष
अ.	अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से प्राप्त अनुदान					
1	केएफडबल्यू - नाबार्ड - IX जनजाति विकास कार्यक्रम -महाराष्ट्र (अनुसूची 18 का नोट आ-10 (क) देखें)	78.42	4.41.18	8.72	3,52.00	1,76.33
2	केएफडबल्यू-यूपीएनआरएम - जुड़े आयाम	16.88	3,28.48	1.00	3,16.21	30.15
3	केएफडबल्यू -नाबार्ड-यूपीएनआरएम -वित्तीय अंशदान	81.00	28.29	0	16.09	93.19
4	केएफडबल्यू-यूपीएनआरएम -जोरिम राहत निधि	11.74	1,24.17	0	0	1,35.91
5	कृषि विकास हेतु अंतरराष्ट्रीय निधि (आईएफएडी) प्रियदर्शिनी (अनुसूची 18 का नोट आ-11 देखें)	4,66.44	0	0	4,66.44	0
6	जीटीजेड-उत्तराखण्ड क्षेत्रीय आर्थिक विकास	86.39	0	0	86.39	0
7	केएफडबल्यू -नाबार्ड-इंडो जर्मन वाटरशेड विकास कार्यक्रम - चरण III - महाराष्ट्र (अनुसूची 18 का नोट आ-11 देखें)	2.32	18,79.53	4.81	18,86.67	0
8	इंडो जर्मन वाटरशेड विकास कार्यक्रम -आंध्र प्रदेश (अनुसूची 18 का नोट आ-11 देखें)	73	7,86.68	25	7,87.67	0
9	इंडो जर्मन वाटरशेड विकास कार्यक्रम -गुजरात (अनुसूची 18 का नोट आ-8 देखें)	15	5,53.18	2.94	5,56.25	0
10	इंडो जर्मन वाटरशेड विकास कार्यक्रम -राजस्थान (अनुसूची 18 का नोट आ-11 देखें)	0	3,23.66	67	3,24.33	0
11	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पर केएफडबल्यू अन्वेषण कार्यक्रम (अनुसूची 18 का नोट आ-3 देखें)	9,20.51	2,73.36	0	2,16.46	9,77.42
12	नाबार्ड-एसडीसी मानव और संस्थागत विकास परियोजना के तहत अचल संपत्ति हेतु नाबार्ड अनुदान	6.60	0	0	6.60	0
13	जीटीजेड-नाबार्ड आरएफपी - वित्तीय घटक	1.00	0	0	1.00	0
14	विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पूर्वोत्तर परिषद निधि (अनुसूची 18 का नोट आ-11 देखें)	1.79	0	0	1.79	0
15	केएफडबल्यू-नाबार्ड-सेवा बैंक - ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं (आरएफआई) का पूंजीकरण	2.66	2,94.83	0	2,97.49	0
16	जीटीजेड-ग्रामीण वित्तीय संस्था कार्यक्रम (आरएफआईपी)	58.00	76.86	0	36.56	98.31
17	जीआईजेड यूपीएनआरएम तकनीकी सहयोग	39.21	51.40	0	63.50	27.11
18	संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)- नाबार्ड - वित्तीय समावेशन निधि	-1,09.74	1,56.48	0	46.74	0
आ.	सरकारी सस्तिडी योजनाएं					
1	शीत गृह परियोजनाओं के लिए पूंजी निवेश अनुदान - एनएचबी	19,18.67	11,35.46	0	26,63.82	3,90.32
2	शीतगृहों के लिए पूंजी सस्तिडी - एनएचएम	9.66	0	0	0	9.66
3	शीतगृहों के लिए पूंजी सस्तिडी दोष - पूर्वोत्तर	4,37.96	1,65.03	0	6,02.99	0
4	लघु उद्योगों के प्राथमिकी अध्ययन हेतु ऋण युक्त पूंजी सस्तिडी	6.23	4,89.64	0	4,95.87	0
5	ग्रामीण गोदामों के लिए पूंजी निवेश सस्तिडी	39,38.94	121,00.00	0	148,68.54	11,70.39
6	मिलियन उथले नलकूप कार्यक्रम - बिहार	2,63.15	0	0	2,63.15	0
7	बिहार भू-जल सिंचाई योजना (बीआईजीडबल्यूआईएस)	182,89.03	2,39.65	0	34,78.22	150,50.47
8	पशुधन विकास कार्यक्रम - उत्तर प्रदेश (अनुसूची 18 का नोट आ-10 देखें)	26.61	0	1.68	26.60	1.69
9	पशुधन विकास कार्यक्रम - बिहार (अनुसूची 18 का नोट आ-10 देखें)	99.46	1,71.40	6.19	99.46	1,77.59
10	जैविक खेती संबंधी राष्ट्रीय परियोजना	6.22	1,50.00	0	1,08.52	47.71
11	समन्वित वाटरशेड विकास कार्यक्रम - राष्ट्रीय सम विकास योजना	14,22.55	10,58.00	0	17,74.18	7,06.37

अनुसूची 4 - उपहार, अनुदान, दान और उपकृतियाँ

(₹ '000 में)

क्रम सं.	विवरण	01.04.2011 को प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	निधि में जमा व्यय	व्यय के समक समायोजित	31.03.2012 को शेष
12	रोमन्थक और खरगोशों के समन्वित विकास की केन्द्रीय प्रायोजित योजना	3,44.55	4,00.00	0	7,14.53	30.02
13	वर्षा जल संग्रहण योजना	89.93	-89.93	0	0	0
14	कच्छ सुखा रोकथाम परियोजना	39.35	0	0	17.38	21.96
15	डेयरी और पोल्ड्री वेंचर पूंजी निधि	12,27.65	0	0	-5,00.36	17,28.00
16	पोल्ड्री उद्यम पूंजी निधि	5,61.71	0	0	3,79.11	1,82.60
17	पोल्ड्री उद्यम पूंजी निधि (समिती)	0	5,00.00	0	4,14.73	85.27
18	कृषि विपणन, आधारभूत सुविधा, प्रेडिंग और मानकीकरण हेतु पूंजी समिती	20,65.63	149,25.88	0	166,79.31	3,12.19
19	पोल्ड्री इस्टेट की स्थापना हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजना	5,97.03	2,28.12	0	0	8,25.15
20	लाइवलीहूड एडवन्समेंट बिजनेस स्कूल - सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश	2.16	48.73	0	50.90	0
21	लाइवलीहूड एडवन्समेंट बिजनेस स्कूल - रायबरेली, उत्तर प्रदेश	54.47	0	0	54.47	0
22	गरीबी उन्मूलन हेतु बहु-गतिविधि दृष्टिकोण - सुल्तानपुर - उत्तर प्रदेश (अनुसूची 18 का नोट आ-10 देखें)	51.14	0	3.36	0	54.49
23	गरीबी उन्मूलन हेतु बहु-गतिविधि दृष्टिकोण - बायफ - रायबरेली - उत्तर प्रदेश (अनुसूची 18 का नोट आ-10 देखें)	1,37.01	0	2.86	1,25.93	13.95
24	पूँजी अनुदान योजना - सुआर पालन	1.58	6,37.00	0	5,81.75	56.83
25	डेयरी उद्यमिता विकास योजना	10,45.52	110,00.00	0	100,75.18	19,70.34
26	पूँजी अनुदान योजना - कटड़ा (मैस का नर बछड़ा) बचाने व पालने की योजना	1,92.00	0	0	1,92.00	0
27	पूँजी अनुदान योजना - जेएनएस सोलर मिशन	31,39.19	29,60.00	0	41,69.88	19,29.30
28	पूँजी अनुदान योजना - जेएनएसएसएम सोलर मिशन	0	46,80.00	0	0	46,80.00
29	सीएसएस - ग्रामीण बूचड़खाना	9.92	0	0	0	9.92
30	पूँजी अनुदान योजना - कृषि क्लिनिक, कृषि व्यवसाय केंद्र	1,59.61	6,00.00	0	5,69.82	1,89.79
31	कठोर चट्टान वाले क्षेत्र में भूजल का कृत्रिम रिचार्ज	1256,04.04	0	0	1232,17.58	23,86.46
32	कृषि ऋण माफ़े और ऋण राहत योजना (एडीडबल्यूडीआर) 2008	419,85.25	35,69.00	0	263,64.41	191,89.84
33	महिला स्वयं सहायता समूह (एसएसजी) विकास निधि	0	100,00.00	0	0	100,00.00
इ	व्याज राहत / सहायता					
1	व्याज सहायता (चीनी मीयादी ऋण)	19.64	30,00.00	0	30,08.33	11.31
2	चीनी उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना - 2007 (एसईएफएसयू-2007)	134,82.85	0	0	134,37.52	45.33
ई	अल्पबढ़ि सहकारी ऋण संरचना के लिए पुनरुद्धार पैकेज					
1	विशेष लेखापरीक्षा की लागत	10,49.15	0	0	10,49.15	0
2	सहकारी समितियों को पुनःपूँजीकरण सहायता	340,64.24	88.78	0	341,53.03	0
3	तकनीकी सहायता	13,90.73	0	0	13,30.17	60.57
4	मानव संसाधन विकास	9,10.27	1,59.00	0	10,68.71	56
5	कार्यान्वयन लागत	18,82.00	15,21.22	0	34,15.83	-12.62
उ	दीर्घावधि सहकारी ऋण संरचना के लिए पुनरुद्धार पैकेज	20,00.00	0	0	0	20,00.00
ऊ	हथकरघा क्षेत्र का पुनरुद्धार, सुधार और पुनर्संरचना (एलटीसीसीएस)					
1	कार्यान्वयन लागत (आरआरआर) - हथकरघा पैकेज	0	5,00.00	0	66.58	4,33.42
2	हाति निर्धारण पर न्यय (आरआरआर) - हथकरघा पैकेज	0	5,00.00	0	5.10	4,94.90
	कुल	2601,89.22	760,55.08	32.48	2704,84.58	657,92.20
	गत वर्ष	4706,78.57	2988,77.26	68.91	5094,34.52	2601,89.22

अनुसूची 5 - अन्य निधियां

(₹ '000 में)

क्रम सं.	विवरण	01.04.2011 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान वृद्धि/समायोजन	लाभ-हानि विनियोजन से अंतरित	जमा ब्याज	वर्ष के दौरान व्यय संवितरण	लाभ-हानि विनियोजन से अंतरित	31.03.2012 को शेष
1	वाटरशेड विकास निधि	1897,68,75	0	0	109,46,03	201,12,19	0	1806,02,59
2	सूक्ष्म वित्त विकास और इक्विटी निधि (अनुसूची 18 का नोट आ-10 देखें)	139,11,97	0	0	8,34,03	18,07,11	10,61,32	118,77,57
3	ब्याज विभेदक निधि - (फ्लैरेक्स जोखिम)	157,69,73	12,56,28	0	0	0	0	170,26,01
4	ब्याज विभेदक निधि-(ताबा)	10,00	0	0	0	0	0	10,00
5	आदिवासी विकास निधि	5,30,31	32,86	0	0	5	0	5,63,12
6	जनजाति विकास निधि	1054,50,93	1003,84,89	0	0	157,11,49	0	1901,24,33
7	वित्तीय समावेशन निधि (अनुसूची 18 का नोट आ-10 देखें)	53,10,64	16,27,02	0	3,44,96	18,89,93	0	53,92,69
8	वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि (अनुसूची 18 का नोट आ-10 और	22,95,08	60,07,76	45,00,00	52,36	128,39,26	0	15,94
9	कृषक प्रौद्योगिकी अंतरण निधि	101,00,00	0	44,56,36	0	44,56,36	0	101,00,00
	कुल	3431,47,41	1093,08,81	89,56,36	121,77,38	568,16,39	10,61,32	4157,12,25
	गत वर्ष	2735,06,35	930,89,69	43,55,54	101,05,25	366,67,55	12,41,88	3431,47,41

अनुसूची 6 - जमाराशियां

(₹ '000 में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2012 को	31.03.2011 को
1	केन्द्र सरकार	0	0
2	राज्य सरकारों	0	0
3	अन्य		
	(क) चाय/रबड़/कॉफी जमाराशियां	284,04,01	228,29,61
	(ख) मीयादी जमाराशियां	7,00,00	48,46,15
	(ग) वाणिज्य बैंक (आरआईडीएफ के अंतर्गत जमाराशियां)	75106,71,22	67877,63,52
	(घ) अल्पावधि मीयादी सहकारी ग्रामीण ऋण निधि	20000,00,00	14622,28,25
	कुल	95397,75,23	82776,67,53

अनुसूची 7 - बॉण्ड और डिबेंचर

(₹ '000 में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2012 को	31.03.2011 को
1	एसएलआर बॉण्ड	0	98,99,70
2	गैर-प्राथमिकता क्षेत्र बॉण्ड	33577,90,00	21682,50,00
3	पूंजी अभिलाष बॉण्ड	6,77,20	7,52,70
4	भविष्य निर्माण बॉण्ड	4975,19,52	4975,19,52
5	नाबार्ड सरल बॉण्ड	23,99,57	23,99,57
	कुल	38583,86,29	26788,21,49

अनुसूची 8 - उधार

		(₹ '000 में)	
क्रम सं.	विवरण	31.03.2012 को	31.03.2011 को
1	केन्द्र सरकार	84,80,09	123,97,71
2	जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन	32,82,00	0
3	अन्य :		
	(क) भारत में		
	(i) जमा राशि प्रमाणपत्र	1281,00,69	136,86,14
	(ii) वाणिज्यिक पत्र	2245,26,97	6447,64,81
	(iii) मीयादी मुद्रा उधार	181,81,00	110,16,00
	(iv) अल्पावधि जमा राशियों के समक्ष उधार	0	360,00,00
	(ख) भारत से बाहर		
	(i) अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से	502,77,65	502,64,44
	कुल	4328,48,40	7681,29,10

अनुसूची 9 - चालू देयताएं और प्रावधान

		(₹ '000 में)	
क्रम सं.	विवरण	31.03.2012 को	31.03.2011 को
1	उपचित ब्याज / डिस्कॉन्ट	4905,56,26	3527,97,31
2	विविध लेनदार	370,76,97	401,73,28
3	प्रारक्षित अनुदान (सह-वित्त, शीतगृह)	1,15,23	93,89
4	प्रारक्षित अनुदान - आरआईडीएफ के अंतर्गत सीएसएमआई	2,27,06	1,45,00
5	प्रेच्युटी के लिए प्रावधान (अनुसूची 18 का नोट आ-21 देखें)	0	17,44,81
6	पेंशन के लिए प्रावधान (अनुसूची 18 का नोट आ-21 देखें)	245,62,63	934,44,01
7	साधारण अवकाश नकदीकरण हेतु प्रावधान (अनुसूची 18 का नोट आ-21 देखें)	15,89,20	5,07,12
8	बॉण्डों पर दावा न किया ब्याज	2,01,28	3,90,27
9	मीयादी जमा राशियों पर दावा न किया ब्याज	71	41,96
10	परिपक्व जमा राशियां लेकिन दावा न किया	8,32,11	5,48,20
11	परिपक्व बॉण्ड लेकिन दावा न किया ब्याज	5,82,48	20,06,38
12	आवेदन - राशि प्राप्त परन्तु बॉण्ड का आबंटन लंबित	44	50
13	प्रावधान और आकस्मिक व्यय		
	(क) निवेश खाते के मूल्य में परिशोधन - सरकारी प्रतिभूतियों	30,62,12	0
	(ख) मानक आस्तियों के लिए	673,31,00	594,57,00
	(ग) निवेशों के मूल्य में हास - इक्विटी	3,19,22	3,36,93
	(घ) काउंटरसाइडिलिक्ल प्रोविजनिंग बफर	25,51,00	25,51,00
	(ङ) पुनः संचित ऋणों के ब्याज घटक की छोड़ दी गई राशि (अनुसूची 18 का नोट 29.6 देखें)	51,37,00	0
	(च) अन्य आस्तियों और प्राप्य हेतु प्रावधान	3,72,14	3,72,14
	कुल	6345,16,85	5546,09,80

अनुसूची 10 - रोकड़ और बैंक शेष

		(₹ '000 में)	
क्रम सं.	विवरण	31.03.2012 को	31.03.2011 को
1	हाथ में शेष रोकड़	9	7
2	जमा शेष :		
	(क) भारतीय रिजर्व बैंक	1168,79,91	38,85,26
	(ख) अन्य		
	(i) भारत में अन्य बैंकों में		
	(क) चालू खाते में	379,62,31	801,32,40
	(ख) बैंकों में जमा राशियां	6765,00,00	8002,46,14
	(i) मार्गस्थ प्रेषण	2,54	694,44,37
	(ii) संपादित उधार और ऋणदायी बाध्यता	230,92,53	228,18,56
	(ii) भारत से बाहर	0	0
	कुल	8544,37,38	10765,26,80

अनुसूची 11 - निवेश

(र '000 में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2012 को	31.03.2011 को
1	सरकारी प्रतिभूतियां (क) केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां [अकित मूल्य ₹.2174,08,20,000 (₹ 2599,65,70,000)] [बाजार मूल्य ₹.2105,40,99,310 (₹1971,99,03,930)]	2146,81,84	2548,31,03
	(ख) राजकोष बिल	58,28,37	0
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	0	0
3	निम्नलिखित में इक्विटी शेयर :		
	(क) कृषि विकास वित्त कंपनी लि. [1,000 (1,000) - ₹ 10,000 प्रति शेयर के इक्विटी शेयर]	1,00,00	1,00,00
	(ख) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक [1,60,00,000 (1,60,00,000) - ₹ 10 प्रति शेयर के इक्विटी शेयर]	48,00,00	48,00,00
	(ग) भारतीय कृषि बीमा कंपनी लि. [6,00,00,000 (6,00,00,000) - ₹ 10 प्रति शेयर के इक्विटी शेयर]	60,00,00	60,00,00
	(घ) मल्टी कम्पोडीटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. [15,62,500 (15,62,500) - ₹ 10 प्रति शेयर के इक्विटी शेयर]	1,25,00	1,25,00
	(ङ) नेशनल कम्पोडीटी एण्ड डेरीवेटिव्स एक्सचेंज लि. [58,25,000 (58,25,000) - ₹ 10 प्रति शेयर के इक्विटी शेयर]	16,87,50	16,87,50
	(च) यूनीवर्सल कम्पोडीटी एक्सचेंज लि. (यूसीएक्स) [1,60,00,000 (शून्य) ₹ 10 प्रति शेयर]	16,00,00	0
	(छ) अन्य इक्विटी निवेश		
	(i) कोल इंडिया लि. ₹ 42,60,305		
	(ii) पॉवर ग्रीड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. ₹ 25,73,280		
	(iii) मैगनीस ओर इंडिया लि. ₹ 43,94,625		
	(iv) पंजाब और सिंध बैंक ₹ 9,54,960	1,21,83	1,21,83
4	डिबेंचर और बॉण्ड		
	(i) रासकृपावि बैंक के विशेष विकास डिबेंचर (अनुसूची 18 का नोट आ-16 देखें)	12343,53,09	13461,16,56
	(ii) अपरिवर्तनीय डिबेंचर	375,01,62	225,00,00
5	सब्सिडियरीज और संयुक्त उद्यम में शेयरहोल्डिंग		
	(i) नाबाई वित्तीय सेवा लि., कर्नाटक ₹ 25,96,82,000 [2,59,68,200 (84,00,000) - ₹ 10 प्रति शेयर के इक्विटी शेयर]		
	(ii) एपी-बिजनेस फ़िनांस (आंध्र प्रदेश) लि. ₹ 5,20,00,000 [52,00,000 (52,00,000) - ₹ 10 प्रति शेयर के इक्विटी शेयर]		
	(iii) एपी डेवलेपमेंट फ़िनांस (तमिलनाडु) लि. ₹ 5,20,00,000 [52,00,000 (52,00,000) - ₹ 10 प्रति शेयर के इक्विटी शेयर]	36,36,82	18,80,00
	(iv) नाबाई कन्सल्टेन्सी सर्विसेस प्राइवेट लि. [50,00,000 (50,00,000) - ₹ 10 प्रति शेयर के इक्विटी शेयर]	5,00,00	5,00,00
6	अन्य		
	(i) वाणिज्यिक पत्र [अकित मूल्य ₹.1115,00,00,000 (₹ 1950,50,00,000)]	1036,60,64	1861,99,91
	(ii) जमाराशि सर्टिफ़िकेट [अकित मूल्य ₹ 2125 करोड़ (₹ 700 करोड़)]	2037,93,74	680,42,26
	(iii) लिक्विड म्यूचुअल फंडों के यूनिट	0	390,11,34
	(iv) एसईएफ - इंडिया एपी-बिजनेस फंड	2,07,59	37,50
	(v) एपीआईडीसी - वेचुरीस्ट लाइफ फंड III	5,85,45	4,98,00
	(vi) बीवीएफ (बायो-टेक वेंचर निधि) - एपीआईडीसी - V निवेश [49835.46 (50,000) क्लास E यूनिट प्रति ₹ 1,000]	4,98,35	5,00,00
	(vii) टाटा पूजी नवोन्मेष निधि	13,00,88	0
	कुल	18209,82,72	19329,50,93

अनुसूची 12 - अग्रिम

(रू '000 में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2012 को	31.03.2011 को
पुनर्वित्त ऋण			
क)	उत्पादन और विपणन ऋण	48337,74,51	33884,82,33
ख)	उत्पादन ऋण हेतु परिवर्तन ऋण	128,81,10	193,21,67
ग)	अन्य निवेश ऋण		
1)	मध्यावधि और दीर्घावधि परियोजना ऋण (अनुसूची 18 नोट आ-16 देखें)	30761,75,91	25435,26,23
ii)	अंतरिम वित्त	1,60,00	0
iii)	जिमस बैंक को प्रत्यक्ष वित्तपोषण	910,34,00	0
iv)	आरआईडीएफ वेयरहाउसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर में से ऋण	759,09,58	0
v)	जेएनएन सोलर मिशन	30,32,29	0
सीधे ऋण			
क)	आरआईडीएफ के अंतर्गत ऋण	70860,30,56	66077,96,22
ख)	दीर्घावधि गैर-परियोजना ऋण	140,06,20	167,20,61
ग)	नाबाई आधारभूत सुविधा विकास सहायता (नीडा) के अंतर्गत ऋण	422,90,33	0
घ)	उत्पादन संगठन विकास निधि (पीआईडीएफ) के अंतर्गत ऋण	7,41,32	0
ह)	निम्न में से अन्य ऋण:		
i)	सहकारिता विकास निधि	2,61,43	3,11,68
ii)	सूक्ष्म वित्त विकास और इक्विटी निधि	72,91,49	89,23,20
iii)	वाटरशेड विकास निधि	36,25,01	32,09,56
iv)	जनजाति विकास निधि	7,02,99	3,47,16
v)	केएफएचएयू यूपीएनआरएम	71,22,51	53,11,82
vi)	कृषि नवोन्मेष और संवर्धन निधि	32,39	40,75
vii)	गैर-कृषि क्षेत्र संवर्धनात्मक कार्यक्रम	2,85,94	50,00
viii)	कृषक प्रायोगिकी अंतरण निधि	2,17	0
च)	सह-वित्तपोषण ऋण (प्रावधान को घटाकर)	72,35,50	87,58,72
कुल		152625,95,23	126027,99,95

अनुसूची 13 - अचल आस्तियां

(रू '000 में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2012 को	31.03.2011 को
1 भूमि : पूर्ण स्वामित्ववाली और पट्टाकृत (अनुसूची 18 नोट आ-15 देखें) प्रारंभिक शेष			
	वर्ष के दौरान वृद्धि/समायोजन	148,08,29	146,12,13
	अंतः शेष (लागत पर)	-51,23	1,96,16
	अंतः शेष (लागत पर)	147,57,06	148,08,29
	घटाए : लीज प्रिमिया का परिशोधन	42,04,17	40,59,65
	बही मूल्य	105,52,89	107,48,64
2 परिसर (अनुसूची 18 नोट आ-15 देखें) प्रारंभिक शेष			
	वर्ष के दौरान वृद्धि/समायोजन	263,42,46	259,08,11
	अंतः शेष (लागत पर)	2,41,99	4,34,35
	अंतः शेष (लागत पर)	265,84,45	263,42,46
	घटाए : अब तक मूल्यहास	164,28,77	158,33,58
	बही मूल्य	101,55,68	107,08,88
3 फर्नीचर और फिक्सचर्स प्रारंभिक शेष			
	अंतः शेष	58,54,15	57,24,47
	वर्ष के दौरान वृद्धि/समायोजन	9,24	1,43,23
	अप-जोड़	58,63,39	58,67,70
	घटाए : बिक्री हुई/बढ़ते खाते डाली गई आस्तियों की लागत	33,15	13,56
	अंतः शेष (लागत पर)	58,30,24	58,54,15
	घटाए : अब तक मूल्यहास	50,54,82	55,77,96
	बही मूल्य	1,75,42	2,76,19
4 कंप्यूटर इस्टेलेशन और कार्यालय उपकरण प्रारंभिक शेष			
	वर्ष के दौरान वृद्धि/समायोजन	72,99,45	68,22,68
	अप-जोड़	11,72,44	8,85,36
	अप-जोड़	84,71,89	77,08,04
	घटाए : बिक्री हुई/बढ़ते खाते डाली गई आस्तियों की लागत	2,10,14	4,08,59
	अंतः शेष (लागत पर)	82,61,75	72,99,45
	घटाए : अब तक मूल्यहास	70,07,77	62,68,28
	बही मूल्य	12,53,98	10,31,17
5 वाहन प्रारंभिक शेष			
	वर्ष के दौरान वृद्धि/समायोजन	4,43,30	4,39,48
	अप-जोड़	4,44,55	1,63,09
	अप-जोड़	8,87,85	6,02,57
	घटाए : बिक्री हुई/बढ़ते खाते डाली गई आस्तियों की लागत	2,57,52	1,59,27
	अंतः शेष (लागत पर)	6,30,33	4,43,30
	घटाए : अब तक मूल्यहास	2,62,68	2,59,55
	बही मूल्य	3,67,65	1,83,75
कुल		225,05,62	229,48,63

नोट: पूंजीकरण नीति में परिवर्तन हेतु अनुसूची 18 के अ-12.6 और आ-19 देखें.

अनुसूची 14 - अन्य आस्तियां

(₹ '000 में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2012	31.03.2011
1	उपचित ब्याज	1804,09,10	1815,75,35
2	भूस्वामियों के पास जमा राशि	1,39,26	1,48,04
3	सरकारी विभागों और अन्य संस्थाओं के पास जमा राशि	3,15,19	2,97,86
4	स्टाफ को आवास ऋण	164,74,61	140,22,37
5	स्टाफ को अन्य अग्रिम	77,03,84	65,08,79
6	भूस्वामियों को अग्रिम	3,27	1,03
7	पूँजी निर्माण - कार्य प्रगति (स्टाफ क्वार्टरों और कार्यालय परिसरों की खरीद)	70,75,72	51,48,84
8	विविध अग्रिम	51,49,02	38,58,47
9	अग्रिम कर (आयकर हेतु प्रावधान को छोड़कर)	102,55,89	130,80,93
10	आस्थगित कर आस्तियां (अनुसूची 18 का नोट आ-13 देखें)	71,15,00	233,15,00
11	भारत सरकार अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से वसूली योग्य व्यय	28,75,78	5,35,57
12	प्राप्य डिस्काउंट	94,82,93	35,07,89
	कुल	2469,99,61	2520,00,14

अनुसूची 15 - ब्याज और वित्तीय प्रभार

(₹ '000 में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2012	31.03.2011
1	ब्याज प्रदत्त		
क)	आरआईडीएफ के अंतर्गत जमा राशियां	4078,35,01	3714,32,70
ख)	अल्पावधि जमा राशियों के समक्ष उधार	376,74,20	259,76,37
ग)	मीयादी जमा राशियां	2,68,39	22,78,08
घ)	चाय / कॉफी / रबड़ जमा राशियां	16,84,86	10,86,63
ङ)	सीबीएस जमा राशियां	50,39	0
च)	जमा राशियों पर / उधारियां	0	3
छ)	केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण	7,27,66	10,21,19
ज)	बाण्डों (अनुसूची 18 का नोट आ-5 देखें)	2420,01,48	1680,25,58
झ)	वाणिज्यिक पत्र (अनुसूची 18 का नोट आ-5 देखें)	372,08,50	247,82,46
ञ)	मीयादी मुद्रा उधार	14,74,67	21,06,85
ट)	अल्पावधि जमा राशियों के समक्ष उधार	2,65,85	31,11,00
ठ)	जमा राशि प्रमाणपत्र पर भुगतान किए गए डिस्काउंट की लागत	37,53,31	6,29,72
ड)	भारत में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से कारपोरेट उधार	0	21,35,58
ण)	अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से उधार	20,85,03	22,58,86
त)	वाटरशेड विकास निधि	109,46,03	81,25,55
थ)	सूक्ष्म वित्त विकास और इक्विटी निधि	8,34,03	11,29,46
द)	ग्रामीण नवप्रवर्तन निधि	4,66,84	4,14,13
न)	वित्तीय समावेशन निधि	3,44,96	4,15,86
प)	वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि	52,36	4,34,39
फ)	इंडो जर्मन वाटरशेड विकास कार्यक्रम - आंध्र प्रदेश	25	71
ब)	इंडो जर्मन वाटरशेड विकास कार्यक्रम - राजस्थान	67	1,78
भ)	इंडो जर्मन वाटरशेड विकास कार्यक्रम - गुजरात	2,94	53
म)	केएफडब्ल्यू - यूपीएनआरएम - सहयोगी उपाय	1,00	1,07
य)	केएफडब्ल्यू - नाबाई इंडो जर्मन वाटरशेड विकास कार्यक्रम - चरण III - महाराष्ट्र	4,81	5,80
र)	केएफडब्ल्यू - नाबाई - IX आदिवासी विकास कार्यक्रम	8,72	18,84
ल)	केएफडब्ल्यू - नाबाई - V आदिवासी परियोजना	5,81,92	0
व)	बायदा प्रभार - केएफडब्ल्यू यूपीएनआरएम उधार	6,84	20,74
श)	लाइवलीहुड एडवन्समेंट बिजनेस स्कूल आरएफ परियोजना - सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश	0	2,08
ष)	लाइवलीहुड एडवन्समेंट बिजनेस स्कूल आरएफ परियोजना - रायबरेली, उत्तर प्रदेश	0	5,62
स)	गरीबी उन्मूलन हेतु बहु-गतिविधि मूलक बायफ परियोजना - सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश	3,36	4,14
ह)	गरीबी उन्मूलन हेतु बहु-गतिविधि मूलक बायफ परियोजना - रायबरेली, उत्तर प्रदेश	2,86	11,08
स)	पशु विकास कार्यक्रम (उत्तर प्रदेश और बिहार)	7,86	18,26
2	संपादित उधार और ऋण व्ययों पर डिस्काउंट	40,71,13	26,59,91
3	बाण्डों और प्रतिभूतियों पर डिस्काउंट, दलाली, कमीशन और निर्माण व्यय	6,63,94	5,78,80
4	स्वैप प्रभार	3,72,10	6,93,25
	कुल	7534,01,97	6193,86,85

अनुसूची 16 ए - स्थापना और अन्य व्यय

(₹ '000 में)

क्रम सं.	विवरण	2011-12	2010-11
1	वेतन और भत्ते (अनुसूची 18 का आ-20 देखें)	442,63,36	586,57,40
2	स्टाफ अधिवर्षिता निधियों के लिए प्रावधान/ में अंशदान	345,27,10	327,61,90
3	अन्य अधिलाम एवं भत्ते	27,18,08	22,96,15
4	निदेशकों और समिति के सदस्यों की बैठकों के संबंध में यात्रा और अन्य भत्ते	21,67	13,35
5	निदेशकों और समिति के सदस्यों के शुल्क	1,36	1,08
6	किराया, दरें, बीमा, बिजली आदि	21,81,60	20,82,98
7	यात्रा व्यय	29,03,51	24,49,56
8	मुद्रण और लेखन सामग्री	3,20,71	2,81,21
9	डाक, टेलीग्राम और टेलीफोन	8,73,17	8,48,85
10	मरम्मत	8,51,53	6,55,87
11	लेखापरीक्षकों के शुल्क	9,46	8,06
12	विविध प्रभार	28,55	17,86
13	विविध व्यय	42,25,15	40,77,59
14	विविध आस्तियों पर व्यय	5,84,70	44,37
15	अध्ययन और प्रशिक्षण पर व्यय [क्षेत्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालयों के स्थापना व्ययों से संबंधित ₹ 9,35,82,458 (₹ 7,58,70,397) सहित]	39,24,95	33,46,06
16	निम्नलिखित संवर्द्धनात्मक गतिविधियों पर व्यय: (i) सहकारिता विकास निधि (ii) सूक्ष्म वित्त विकास और इक्विटी निधि (iii) वाटरशेड विकास निधि (iv) कृषि नवप्रवर्तन और संवर्द्धन निधि (v) एनएफएस संवर्द्धनात्मक उपाय/ गतिविधियों हेतु व्यय	5,35,40 10,61,32 0 2,73,85 30,24,32	6,05,32 11,40,75 1,01,14 2,39,20 27,52,58
17	संपत्ति कर	3,81,02	2,28,60
	कुल	1027,10,81	1126,09,88

अनुसूची 16 बी - प्रावधान

(₹ '000 में)

क्रम सं.	विवरण	2011-12	2010-11
	प्रावधान :		
1	सरकारी प्रतिभूतियों का परिशोधन	0	0
2	मानक आस्तियां (अनुसूची 18 का नोट 29.6 देखें)	78,74,00	0
3	अनर्जक आस्तियां	14,80,00	32,86,00
3a	अनर्जक आस्तियां - स्टाफ	7,23	4,00
4	नाबाई - सामान्य एडवाइजस	0	-53,24
5	सरकारी प्रतिभूतियां - निवेशों में मूल्यहास	0	0
6	निवेश खाते के मूल्य में मूल्यहास - इक्विटी	-80,00	-5,08
7	पुनःसंचित खातों के ब्याज घटक में छोड़ी गई राशि	51,37,00	-8,00
8	अन्य आस्तियां / प्राप्य राशियां	0	3,36,66
	कुल	144,18,23	35,60,34

अनुसूची 17 - वचनबद्धताएं और आकस्मिक देयताएं

(₹ '000 में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.12 को	31.03.2011 को
1	निष्पादन के लिए शेष पूंजीगत सविदाओं के कारण वचनबद्धताएं उप जोड़ें	229,32,01 229,32,01	37,81,29 37,81,29
2	आकस्मिक देयताएं		
(i)	ऐसे दावे जिन्हें बैंक ने उधार के रूप में नहीं माना है (अनुसूची 18 का नोट आ-24 देखें)	23,93	0
(ii)	अपील के तहत आयकर मामले उप जोड़ें	0 23,93	0 0
	कुल (अ + आ)	229,55,94	37,81,29

अनुसूची 18

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए महत्वपूर्ण लेखा नीतियां और लेखे के भाग के रूप में नोट

अ. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. लेखे तैयार करने का आधार

1.1 लेखे ऐतिहासिक लागत परंपरा के आधार पर तैयार किए गए हैं और इन्हें तैयार करने में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 और उसके विनियमों में निहित महत्वपूर्ण पहलुओं; इन्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी प्रयोज्य लेखांकन मानकों (एएस) और भारतीय रिजर्व (भारि) बैंक द्वारा निर्धारित विनियामक मानदंडों का पालन किया गया है। उन मामलों को छोड़कर जहाँ अन्यथा उल्लिखित है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड/बैंक) ने निरंतर लेखा नीतियों का पालन किया है और ये नीतियाँ पिछले वर्ष में प्रयुक्त की गई नीतियों के अनुरूप हैं।

1.2 सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा नीतियों (जीएएपी) के अनुसरण में वित्तीय स्टेटमेंट तैयार करने के क्रम में यह अपेक्षित होता है कि प्रबंधन कई ऐसी बातें मान कर चले और कई ऐसे अनुमान लगाए जो बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए निष्कर्षों और कामकाज की स्थिति को प्रभावित करते हैं; इनके कुछ उदाहरण हैं - अचल आस्तियों की अनुमानित उपयोगिता अवधि, कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों के कारण उत्पन्न देयता, संभावित हानियों के लिए प्रावधान, आदि। वास्तविक निष्कर्ष ऐसे अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। ये भिन्नताएँ ऐसे निष्कर्षों के परिणाम के वर्ष में सामने आती हैं।

2. आय और व्यय

2.1 नकदी के आधार पर लेखाबद्ध निम्नलिखित मदों को छोड़कर, आय और व्यय को उभय के आधार पर लेखाबद्ध किया गया है :

- क. भारि बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार पहचानी गई अनर्जक आस्तियों पर ब्याज।
- ख. ऋण देयों की प्राप्ति में विलंब या ऋण की शर्तों का अनुपालन न करने पर, प्रभारित दंडात्मक ब्याज के रूप में आय।
- ग. सूक्ष्म वित्त विकास और इक्विटी निधि, वाटरशेड विकास निधि से दिए गए ऋणों पर सेवा प्रभार।
- घ. किसी एक व्यय शीर्ष के अंतर्गत प्रत्येक लेखा इकाई द्वारा ₹10,000 तक के व्यय।

2.2 बॉण्ड के निर्गम से संबंधित व्ययों को बॉण्ड के निर्गम वर्ष का व्यय माना गया है।

2.3 लाभांश प्राप्ति का अधिकार स्थापित हो जाने पर निवेश पर लाभांश को लेखे में लिया गया है।

3. अचल आस्तियां और मूल्यहास

3.1 अचल आस्तियों का मूल्य, अधिग्रहण की लागत में से संचित मूल्यहास और क्षति के कारण होने वाली हानि, यदि कोई हो, को घटाकर दर्शाया गया है। आस्तियों की लागत में उसके अधिग्रहण और उसे स्थापित

करने से संबंधित कर, शुल्क, भाड़ा और अन्य प्रासंगिक व्यय शामिल हैं। विद्यमान आस्तियों पर बाद में किए गए व्यय को तभी पूंजीकृत किया गया है जब उससे, विद्यमान आस्तियों का भविष्यगत लाभ उनके पूर्व में आकलित कार्यनिष्पादन के स्तर से आगे बढ़ जाता है।

3.2 भूमि में पूर्ण स्वामित्व वाली और पट्टाधारिता वाली भूमि शामिल है।

3.3 परिसर में भूमि का मूल्य शामिल है जहाँ अलग-अलग मूल्य तत्काल उपलब्ध नहीं हैं।

3.4 पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि पर स्थित परिसर पर मूल्यहासित मूल्य के आधार पर 10% वार्षिक की दर से मूल्यहास प्रभारित किया गया है।

3.5 पट्टाधारिता वाली भूमि और उस पर स्थित परिसर पर मूल्यहास की गणना की गई है और मूल्यहासित मूल्य के आधार पर 5% की दर या पट्टाधारिता की शेष अवधि में सीधी रेखा पद्धति के आधार पर प्रीमियम/लागत के परिशोधन से प्राप्त राशि में से जो भी अधिक हो, की दर से प्रभारित की गई है।

3.6 बैंक ने पूंजीकरण नीति को दिनांक 01 अप्रैल 2011 से संशोधित किया है। संशोधित नीति के अनुसार ₹1 लाख और उससे कम मूल्य की अचल परिसंपत्तियों (आसानी से साथ ले जाए जा सकने वाली इलेक्ट्रॉनिक आस्तियां जैसे लैपटॉप, मोबाइल फोन इत्यादि जिनका मूल्य ₹10,000/- से ज्यादा है, उनको छोड़कर) को उनके अधिग्रहण वर्ष में लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। कीमती, परंतु आसानी से साथ ले जाए जा सकने वाली इलेक्ट्रॉनिक आस्तियां जैसे लैपटॉप, मोबाइल फोन जिनकी प्रत्येक की कीमत यदि ₹10,000/- से अधिक है; उन्हें पूंजीकृत किया जाता है। सभी सॉफ्टवेयर जिनका मूल्य एक लाख से अधिक है चाहे व स्वतंत्र रूप से अथवा हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ खरीदे गए हों, उनको पूंजीकृत किया जाता है।

3.7 अन्य अचल आस्तियों पर सीधी रेखा पद्धति के आधार पर प्रबंधन द्वारा आस्तियों की अनुमानित उपयोगिता अवधि पर निम्नलिखित दरों से मूल्यहास प्रभारित किया गया है।

आस्तियों का प्रकार	मूल्यहास की दर 01 अप्रैल 2011 से प्रभावी
फर्नीचर और फिक्सचर	20%
कम्प्यूटर इस्टालेशन	33.33%
कम्प्यूटर इस्टालेशन	20%
वाहन	20%

मूल्यहास पूरे वर्ष के लिए प्रभारित किया गया है, चाहे क्रय किसी भी तारीख को किया गया हो। वर्ष के दौरान बेची गई आस्तियों पर मूल्यहास प्रभारित नहीं किया गया है।

4. अमूर्त आस्तियां और परिशोधन

लेखा मानक 26 'अमूर्त आस्तियां' में विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार, अमूर्त आस्तियों को मान्यता दी गई है/ परिशोधित किया गया है।

5. निवेश

5.1 भारि बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार निवेशों को 'व्यापार के लिए धारित (एचएफटी)', 'बिक्री के लिए (एएफएस)' और 'परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)' श्रेणियों (यहां से आगे 'श्रेणियां' लिखा गया है) में वर्गीकृत किया गया है।

5.2 जो प्रतिभूतियां मुख्यतः क्रय की तारीख से 90 दिनों के भीतर फिर से बेचे जाने के लिए धारित हैं उन्हें 'एचएफटी' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। जिन निवेशों को बैंक परिपक्वता तक रखना चाहता है उन्हें 'एचटीएम' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है और जो प्रतिभूतियां इन दोनों में से किसी श्रेणी में नहीं आती उन्हें 'एएफएस' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।

5.3 'एचटीएम' श्रेणी के निवेशों को लागत पर रखा गया है और यदि निवेश के मूल्य में कोई मूल्यहास/ कमी/ परिशोधन हुआ है तो इस संबंध में किए गए प्रावधानों को चालू देयताओं और प्रावधानों के अंतर्गत शामिल किया गया है।

5.4 'एचटीएम' श्रेणी के अंतर्गत, अस्थायी निवेशों को छोड़कर, सहायक संस्थाओं में किए गए निवेश के मूल्य में कमी होने के संबंध में, जहां भी आवश्यक था, प्रावधान किया गया है।

5.5 'एचटीएम' श्रेणी के अंतर्गत निवेशों की बिक्री पर हुए लाभ को लाभ हानि लेखा में दर्शाया गया है और फिर पूंजी आरक्षित निधि खाते में अंतरित कर दिया गया है। 'एचटीएम' श्रेणी के अंतर्गत निवेशों की बिक्री पर हुई हानि को लाभ हानि लेखा में दर्शाया गया है।

5.6 'एएफएस' और 'एचएफटी' श्रेणियों के अंतर्गत, निवेशों को निर्धारित अंतरालों पर निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न संघ (एफआईएमएमडीए) और भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ (पीडीआई) द्वारा संयुक्त रूप से घोषित दर पर स्क्रिप-वार बाजार के लिए चिह्नित किया गया है। जहां निवेशों के लिए केवल निवल मूल्य वृद्धि, यदि कोई हो तो, उसे एएफएस के रूप में वर्गीकृत किया गया है, वहीं एचएफसी के रूप में निवेशों के लिए मूल्यहास/ मूल्यवृद्धि को माना गया है।

5.7 खजाना बिलों का मूल्यन रखाव लागत पर किया गया है।

5.8 जिन कंपनियों में निवेश किया गया है, यदि उनके अद्यतन लेखा परीक्षित ऑकड़े उपलब्ध हैं तो, उनके कोट न किए गए शेयरों का मूल्य कंपनियों के अलग-अलग शेयरों के मूल्य के आधार पर किया गया है, अन्यथा भारि बैंक के दिशानिर्देश के अनुसार प्रति शेयर ₹1/- मानकर लगाया गया है।

5.9 अधिग्रहण के समय भुगतान किए गए ब्रोकरेज, कमीशन आदि को राजस्व के अंतर्गत प्रभारित किया गया है।

5.10 ऋण निवेश पर विभक्त अवधि के ब्याज को राजस्व मद माना गया है।

5.11 विभिन्न श्रेणियों के बीच प्रतिभूति के अंतरण को, अंतरण की तारीख को अधिग्रहण लागत/ बही मूल्य/ बाजार मूल्य में से जो भी कम हो, हिसाब में लिया गया है और अंतरण के बाद यदि कोई मूल्यहास है तो उसके लिए प्रावधान किया गया है।

6. अग्रिम और उनके लिए प्रावधान

6.1 अग्रिमों का वर्गीकरण भारि बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। आवधिक समीक्षा के आधार पर और भारि बैंक द्वारा प्रावधानन के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुरूप मानक आस्तियों और अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान किया गया है।

6.2 अग्रिमों की पुनः संरचना/ पुनःअनुसूचीकरण के मामले में, पुनः संरचना/ पुनःअनुसूचीकरण के समय, मूल करार के अनुसार भावी ब्याज के वर्तमान मूल्य और संशोधित करार के अनुसार भावी ब्याज के वर्तमान मूल्य के बीच के अंतर के लिए प्रावधान किया गया है।

6.3 अग्रिमों को अनर्जक अग्रिमों के समक्ष किए गए प्रावधानों को घटाकर दिखाया गया है।

7. विदेशी मुद्रा लेन-देन

7.1 विदेशी मुद्रा में लिए गए जिन उधारों के लिए हेजिंग करार किया गया है उन्हें रिपोर्ट करने की प्रत्येक तारीख को बाजार के साथ समायोजित किया गया और इसके परिणामस्वरूप यदि कोई लाभ हुआ तो उसकी उपेक्षा कर दी गई और यदि कोई हानि हुई तो उसके लिए प्रावधान किया गया। रिपोर्ट करने की तारीख को प्रचलित विदेशी मुद्रा विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा में लिए गए उधारों के समक्ष देयता का उल्लेख तुलन पत्र में कॉण्ट्रा प्रविष्टि के रूप में किया गया है।

7.2 मुद्रा स्वैप करार के निरसन या नवीकरण की स्थिति में हुए लाभ को करार के अंतिम निपटान के बाद हिसाब में लिया गया है; लेकिन तुलन पत्र की तारीख की स्थिति के अनुसार ऐसे लेन-देनों पर हुई हानि बाजार दरों पर दी गई है।

8. सेवानिवृत्ति लाभ

8.1 बैंक की भविष्य निधि योजना का प्रबंधन भारि बैंक करता है। इस निधि में वास्तविक आधार पर अंशदान किया जाता है।

8.2 भारि बैंक से स्थानांतरित कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों के मामले में ग्रै च्युटी के लिए बीमांकिक मूल्यन के आधार पर प्रावधान किया गया है। भारि बैंक से स्थानांतरित कर्मचारियों के संबंध में भारि बैंक से प्राप्य ग्रै च्युटी की राशि को नकदी आधार पर लेखाबद्ध किया गया है।

8.3 नियोक्ता के अंशदान (पेंशन निधि के भाग) को भारि बैंक में रखा गया है।

8.4 साधारण छुट्टी के नकदीकरण के लिए बीमांकिक मूल्यन के आधार पर प्रावधान किया गया है।

9. आय पर कर

9.1 आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुरूप परिगणित कर जमाओं और निर्धारणों / अपीलों के संभावित परिणाम के आधार पर चालू अवधि के लिए आय पर कर का निर्धारण किया गया।

9.2 आस्थगित कर की पहचान समयजन्य अंतर यानी वर्ष के लिए कर-योग्य आय और लेखागत आय के बीच के अंतर के आधार पर की गई है और कर की दरों और तुलनपत्र की तारीख की स्थिति के अनुसार अधिनियमित कानूनों या स्थानापन्न रूप से अधिनियमित कानूनों का उपयोग करते हुए उनकी राशि निर्धारित की गई है।

9.3 अनअवशोषित मूल्यह्रास / व्यवसायगत हानियों से संबंधित आस्थगित आस्तियों की पहचान कर उन्हें उस सीमा तक आगे ले जाया गया है, जहां लगभग यह निश्चित हो जाए कि भविष्य में पर्याप्त कर-योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके समक्ष ऐसी आस्थगित आस्तियों की वसूली की जा सकेगी।

9.4 अन्य आस्थगित कर आस्तियों की पहचान कर उन्हें उस सीमा तक आगे ले जाया गया है, जिस सीमा तक तर्कसंगत रूप से पर्याप्ततः यह निश्चित हो जाए कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी, जिसके समक्ष इस प्रकार की आस्थगित कर आस्तियों की वसूली की जा सकेगी।

9.5 संपत्ति कर अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार संपत्ति कर के लिए प्रावधान किया गया है।

10. खंड (सेगमेंट) रिपोर्टिंग

10.1 खंड राजस्व में, खंड से सीधे संबंधित/ खंड को आबंटन योग्य ब्याज और अन्य आय शामिल हैं।

10.2 जो व्यय किसी खंड से सीधे संबंधित हैं/ खंड को आबंटन-योग्य हैं उनके खंड का परिणाम निर्धारित करने के लिए हिसाब में लिया गया है। ऐसे व्यय जिनका संबंध संपूर्ण बैंक से है और जिन्हें किसी खंड को आबंटित नहीं किया जा सकता, उनको 'अन्य आबंटित न किए जा सकने योग्य व्यय' में शामिल किया गया है।

10.3 जो आय संपूर्ण बैंक से संबंधित है और जिसे किसी खंड को आबंटित नहीं किया जा सकता, उसे 'अन्य आबंटित न की जा सकने योग्य बैंक आय' में शामिल किया गया है।

10.4 खंड आस्तियों और देयताओं में संबंधित खंड से सीधे जुड़ी आस्तियां और देयताएं शामिल हैं। आबंटित न की जा सकने योग्य आस्तियों

और देयताओं में संपूर्ण बैंक से संबंधित किसी खंड को आबंटित नहीं की जा सकनेवाली आस्तियां और देयताएं शामिल हैं।

11. आस्तियों की क्षतिग्रस्तता

11.1 प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को आस्तियों की धारिता राशि की क्षतिग्रस्तता के लिए जांच की जाती है।

क) यदि क्षतिग्रस्तताजन्य कोई हानि हुई हो तो, उसके लिए आवश्यक प्रावधान का निर्धारण किया जा सके; अथवा

ख) पिछली अवधि में मान्य की गई क्षतिग्रस्तताजन्य हानि का प्रत्यावर्तन यदि कोई हो तो।

11.2 क्षतिग्रस्तताजन्य हानि तब मानी गई है जब किसी आस्ति की धारिता राशि उससे वसूली योग्य राशि से अधिक हो।

12. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां

12.1 केवल पर्याप्त स्तर के प्राक्कलन का उपयोग कर आँकी गई देयताओं के लिए प्रावधान किया गया है ;

क) किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप बैंक का कोई वर्तमान दायित्व है।

ख) दायित्वों के निपटान हेतु संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना; और

ग) देयता की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

12.2 व्यय के संबंध में जिस संभावित प्रतिपूर्ति के लिए प्रावधान की आवश्यकता है, उसे तभी मान्य किया गया है जब यह लगभग निश्चित हो कि प्रतिपूर्ति प्राप्त हो जाएगी।

12.3 आकस्मिक देयता को निम्न मामलों में प्रकट किया गया :

क) पिछली घटनाओं से उत्पन्न वर्तमान दायित्व, जब इसकी संभावना नहीं हो कि दायित्व को पूरा करने के लिए संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता पड़ेगी।

ख) किसी वर्तमान दायित्व का वास्तविक अनुमान संभव नहीं हो, और

ग) पिछली घटनाओं से उत्पन्न वर्तमान दायित्व से जहां संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता हो।

12.4 आकस्मिक आस्तियों को न तो मान्य किया गया है और न ही उन्हें प्रकट किया गया है।

12.5 प्रत्येक तुलन-पत्र की तिथि पर प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों की समीक्षा की गई है।

12.6 लेखा नीति में परिवर्तन : वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों के पूंजीकरण के मामलों में लेखा नीति में परिवर्तन किया गया है। विस्तृत विवरण इस अनुसूची के भाग ए के पैरा 3.6 तथा 3.7 में दर्शाया गया है।

आ. लेखों के भाग के रूप में टिप्पणियां

1. तावा कमान क्षेत्र विकास परियोजना करार के अनुसार, 'ब्याज अंतराल निधि' का उपयोग कुछ विशेष प्रयोजनों के लिए किया जाना है।

2. स्विस् एजेंसी फॉर डेवलपमेंट को-ऑपरेशन के साथ हुए सहमति ज्ञापन के अनुसार, ग्रामीण नवोन्मेष निधि (आरआईएफ) में से ऋण, सेवा प्रभागों और अन्य प्राप्तियों के लिए किए गए भुगतान को ग्रामीण संवर्द्धन निधि (आरपीएफ) में जमा किया जाएगा।

3. केएफडब्ल्यू के साथ हुए करार के अनुसार, यूपीएनआरएम के अंतर्गत हुई अभिवृद्धि/आय और कुछ व्ययों को निधि में प्रभारित किया गया है। निधि में से मंजूर ऋणों को प्रत्यक्ष ऋणों के साथ समायोजित किया गया है।

4. 'निवेश परियोजनों/जमाराशियों से आय' शीर्ष के तहत आय में छूट और कमीशन को शामिल किया गया है।

5. नाबाई द्वारा उधार की लागत और पुनर्वित्त दर के बीच के अंतर के रूप में भारत सरकार से प्राप्त / प्राप्य होने वाली ₹1475.52 करोड़ (₹989.34 करोड़) की सहायता को ब्याज और वित्तीय प्रभागों से घटा दिया गया है और उसे उपचित ब्याज के रूप में दर्शाया गया है।

6. ब्याज सहायता योजना के अंतर्गत राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मौसमी कृषि परिचालनों के वित्तपोषण के लिए प्रशासनिक प्रभागों के रूप में भारत सरकार से प्राप्त / प्राप्य होने वाली ₹78.49 करोड़ (₹54.49 करोड़) की राशि में अन्य प्राप्तियां शामिल हैं।

7. भारत सरकार ने बैंक को सूचित किया है कि ब्याज सहायता योजना में दीर्घावधि ऋण संरचना द्वारा दिए जाने वाले अल्पावधि ऋणों को शामिल न किया जाए। तदनुसार बैंक ने मई 2012 में केन्द्र सरकार को ₹11.80 करोड़ की राशि लौटा दी थी। चूंकि लेखापरीक्षा करते समय इस राशि को धन-वापसी के रूप में चिह्नित किया गया है, अतः वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए वित्तीय परिणामों को तैयार करते समय इसे पूर्णतः दर्शाया गया है।

8. वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश रासकृग्रावि बैंक द्वारा चुकौती में चूक होने पर प्रभारित ₹4.29 करोड़ की दंड ब्याज राशि को माफ किया गया।

9. सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए निवेशों में व्यवसाय खंडों के लिए क्लियरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. के पास संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों का विवरण निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	अंकित मूल्य	बही मूल्य
व्यवसाय खंड	35.00	34.08
हेतु गिरवी (प्रतिभूतियां)	(55.00)	(54.81)
व्यवसाय घटक हेतु गिरवी (संपार्श्विकृत)	2071.00	2044.06
उधार और ऋण दायित्व	(2257.00)	(2208.63)

10. आरआईएफ, वाटरशेड विकास निधि, केएफडब्ल्यू नाबाई आईजीडब्ल्यूडीपी - (आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान), केएफडब्ल्यू नाबाई IX आदिवासी विकास कार्यक्रम की जिस धनराशि का उपयोग नहीं किया गया, उस पर संबंधित करारों के आधार पर 6.00% (6.00%) की दर से ब्याज की गणना की गई और ब्याज की राशि को संबंधित निधि में जमा किया गया। इसके अलावा, सूक्ष्म वित्त विकास और इक्विटी निधि, पशुधन विकास कार्यक्रम (उत्तर प्रदेश और बिहार), और गरीबी उन्मूलन के लिए बहु उद्देशीय दृष्टिकोण (एमएपीए), एमएपीए-बायफ (सुल्तानपुर और रायबरेली), वित्तीय समावेशन निधि और वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि की जिस राशि का उपयोग नहीं किया गया उस पर 6.57% (8.80%) की वार्षिक दर से ब्याज संबंधित निधियों में जमा किया। संबंधित निधियों के अर्ध-मासिक औसत बकाया के आधार पर उक्त ब्याज की गणना की गई।

11. तुलन पत्र की अनुसूची-14 के अनुसार भारत सरकार/अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से वसूली योग्य ₹28.76 करोड़ की व्यय राशि में विविध निधियों का नाम शेष शामिल है जैसे आईजीडब्ल्यूडीपी महाराष्ट्र (₹7.25 करोड़), आईजीडब्ल्यूडीपी, गुजरात (₹0.88 करोड़), आईजीडब्ल्यूडीपी, राजस्थान (₹2.96 करोड़), आईजीडब्ल्यूडीपी आंध्र प्रदेश (₹5.85 करोड़), आईएफडी प्रियदर्शिनी (₹1.72 करोड़), हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए पुनरुद्धार, सुधार और पुनर्संरचना पैकेज हेतु (₹10.00 करोड़), विविध प्रशिक्षणों के लिए नार्थ ईस्ट काउन्सिल फंड हेतु (₹0.10 करोड़) जो पिछले साल में अनुसूची-4 में अपनी-अपनी निधियों में नाम शेष के रूप में दर्शाया गया था।

12. 31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार, भारि बैंक के पास रखी कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में अंशदान की शेष राशि का पेंशन के लिए प्रावधान किया गया है।

13. वर्ष के दौरान, बैंक ने लेखांकन मानक 22 'आय पर करों का लेखांकन' के अनुसरण में, निवल आस्थगित कर आस्ति के 31 मार्च 2012 और 31 मार्च 2012 की क्रमशः ₹71.15 करोड़ और ₹233.15 करोड़ की स्थिति के अनुसार ₹233.15 करोड़ के बीच के अंतर की राशि ₹162.80 करोड़ को लाभ और हानि खाते में मान्य किया, जिसका विवरण निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)		
क्र. आस्थगित कर आस्तियों सं.	31 मार्च 2012	31 मार्च 2011
1 बहियों में सेवानिवृत्ति लाभों के लिए किया गया प्रावधान जो भुगतान के आधार पर कर के प्रयोजन से अनुमत्य है	49.65	181.18
2 अचल आस्तियों पर मूल्यहास	21.50	21.77
3 सरकारी प्रतिभूतियों का परिशोधन	0.00	30.20
कुल	71.15	233.15

14. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viii) के तहत सृजित विशेष प्रारक्षित निधि के लिए आयकर का प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि बैंक ने इस प्रारक्षित निधि से आहरण न करने का निर्णय लिया है।

15. 'भूमि' और 'परिसर' के अंतर्गत कार्यालय परिसरों और स्टाफ क्वार्टरों के लिए ₹34.77 करोड़ (₹29.88 करोड़) की कुल राशि का भुगतान शामिल है जिनके संबंध में स्वामित्व का हस्तांतरण होना शेष है।

16. भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसरण में, रासकृपावि बैंकों को, इन एजेन्सियों के द्वारा जारी विशेष विकास डिबेंचरों में अंशदान के रूप में इन्हें ऋण प्रदान किए गए जिन्हें निम्नानुसार माना गया :

- क. निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया और डिबेंचर और बांड शीर्ष के तहत अनुसूची-11 में दर्शाया गया।
- ख. इनसे अर्जित ब्याज को 'डीमड अग्रिम' लाभ और हानि खाता में 'ऋणों और अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज' के रूप में दर्शाया गया।
- ग. आईआरएसी मानदंडों, आय पहचान, पूंजी पर्याप्तता और अनुपातों के कम्प्यूटेशन के उद्देश्य से डीमड अग्रिम।
- घ. आबंटन पत्रों/ डिबेंचर रसीदों के मूल्य की जो राशि अभी प्राप्त होनी बाकी है वह वर्ष के अंत में, ₹ शून्य (₹238.15 करोड़) है।

17. दिनांक 02 सितम्बर 2011 से बैंक ने रासकृपावि बैंक को वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है। यह सहायता उनके द्वारा जारी किए गए विशेष विकास डिबेंचर के लिए अंशदान देने के बजाए पुनर्वित्त ऋण के रूप में दी जाएगी।

18. वर्ष 2002-03 के लिए बैंक की कर देयता का आकलन आयकर विभाग के द्वारा ₹373.15 करोड़ किया गया, जिसे बैंक द्वारा उसका पूरा भुगतान कर दिया गया। तथापि बैंक ने वर्ष 2002-03 के लिए नाबाई की कर देयता के विरुद्ध अपील आयकर अपील विभाग में दायर की है।

19. अनुसूची के भाग 'क' के अनुच्छेद 12.6 के अनुसार लेखा नीति में बदलाव के कारण निवल प्रभाव इस प्रकार हैं :

19.1 पूंजीकरण नीति में बदलाव के कारण पड़े राजस्व खाता पर निवल प्रभाव

(₹ करोड़ में)

पूर्व पूंजीगत नीति के अनुसार राजस्व खाते को प्रभारित राशि (कम्प्यूटर संस्थापन एफएण्डएफ और अन्य सीआईआई पर मूल्यहास जिन्हें पूंजीकृत किया गया और सॉफ्टवेयर की लागत)	नई पूंजीगत नीति के अनुसार राजस्व खाते को प्रभारित राशि (कम्प्यूटर संस्थापन एफएण्डएफ और अन्य सीआईआई पर मूल्यहास जिन्हें पूंजीकृत किया गया)	नीति में परिवर्तन की वजह से राजस्व खाते में निवल प्रभाव
कम्प्यूटर	2.92	1.95
एफएण्डएफ	0.93	0.74
अन्य सीआईआई	1.73	1.38
सॉफ्टवेयर	1.87	-3.74
कुल	7.45	0.33

19.2 मूल्यहास दर में परिवर्तन के कारण प्रभाव :

मूल्यहास दर में परिवर्तन के कारण कम्प्यूटर तथा संचार उपकरण एवं विद्युतीकरण के अंतर्गत गत वर्षों (2009-10 तथा 2010-11) के दौरान खरीदी गयी आस्तियों के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में ₹0.22 करोड़ की राशि अवमूल्यन प्रभार के रूप में प्रभारित की गयी है।

20. बकाया वेतन के लिए ₹5.33 करोड़ के अतिरिक्त प्रावधान को घटाने के बाद वर्ष के लिए वेतन और भत्ते हेतु ₹442.63 करोड़ की गणना की।

21. "कर्मचारी लाभ" पर लेखांकन मानक-15 (संशोधित) के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटन निम्नानुसार हैं:

21.1 परिभाषित लाभ योजनाएं

बैंक की कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ योजनाओं में पेंशन, ग्रेच्युटी और छुट्टी नकदीकरण शामिल हैं और ये परिभाषित लाभ योजनाएं हैं। दायित्व के वर्तमान मूल्य का निर्धारण अनुमानित इकाई लागत पद्धति का उपयोग करते हुए बीमांकिक मूल्यन पर आधारित है जिसके अंतर्गत सेवा की प्रत्येक अवधि से कर्मचारी के लाभ की पात्रता में अतिरिक्त इकाई की वृद्धि होती है और अंतिम दायित्व के निर्माण में प्रत्येक इकाई की गणना अलग से की जाती है।

क. परिभाषित लाभ दायित्वों के प्रारंभिक शेष और अंतिम शेष का समाधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	पेंशन	ग्रेच्युटी	छुट्टी नकदीकरण
वर्ष के प्रारंभ में परिभाषित लाभ का वर्तमान मूल्य	1223.03 (958.76)	242.57 (221.20)	144.88 (117.63)
चालू सेवा लागत	33.42 (22.76)	17.53 (16.90)	3.77 (6.54)
ब्याज लागत	100.90 (79.10)	20.01 (18.25)	11.95 (9.70)
बीमांकिक लाभ/हानि	283.32 (207.42)	-8.61 (8.16)	4.42 (17.67)
अदा किए गए लाभ	-83.80 (-45.01)	-31.82 (-21.94)	-11.99 (-6.66)
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ का वर्तमान मूल्य	1556.87 (1223.03)	239.68 (242.57)	153.03 (144.88)

ख. 31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र में दर्शाई गई राशि:

(₹ करोड़ में)

विवरण	पेंशन (अंशतः निधीयन)	ग्रेच्युटी (निधीयन)	छुट्टी नकदीकरण (निधीयन)
वर्ष के प्रारंभ में परिभाषित लाभ का वर्तमान मूल्य	1556.87 (1223.03)	239.68 (242.57)	153.03 (144.88)
वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का सही मूल्य	1311.25 (288.11) @	260.82 (227.85)	137.14 (143.66) \$
वर्ष के अंत में तुलन-पत्र में मान्य दायित्व	245.63 (934.92)	-21.14* (14.72)	15.89 (1.22)

@ पेंशन का विकल्प देने वालों के लिए भारि बैंक के पास उपलब्ध भविष्य निधि में बैंक के अंशदान की राशि ₹363.79 करोड़ (₹288.11 करोड़) शामिल है।

\$ छुट्टी नकदीकरण दायित्व के समक्ष बीमा कंपनियों में निवेश की गई राशि।

* अनुसूची 14 के अंतर्गत अन्य आस्तियों में ऋणात्मक राशि दर्शाई गई।

ग. वर्ष के दौरान लाभ और हानि खाते में मान्य किए गए खर्च :

(₹ करोड़ में)

विवरण	पेंशन	ग्रेच्युटी	छुट्टी नकदीकरण
चालू सेवा लागत	33.42 (22.76)	17.53 (16.90)	3.77 (6.54)
ब्याज लागत	100.90 (79.10)	20.01 (18.25)	11.95 (9.70)
बीमांकिक लाभ/हानि	220.54 (172.83)	-8.65 (8.16)	12.12 (17.67)
योजनागत आस्तियों पर प्रत्याशित लाभ	-37.10 (0.00)	-21.62 (-16.92)	-13.17 (-12.26)
लाभ और हानि विवरण से मान्य किए गए व्यय	317.76 (274.69)	7.27 (26.39)	14.67 (21.65)

घ. बीमांकिक अनुमान :

विवरण	पेंशन	ग्रेच्युटी	छुट्टी नकदीकरण
मृत्यु दर संबंधी तालिका (एलआईसी)	1994-96 (अंतिम)	1994-96 (अंतिम)	1994-96 (अंतिम)
रियायती दर (प्रति वर्ष)	8.75% (8.25%)	8.75% (8.25%)	8.75% (8.25%)
वेतन वृद्धि (प्रति वर्ष)	5.50% (4.00%)	5.50% (7.00%)	5.50% (7.00%)
आहरण दर	1.00% (1.00%)	1.00% (1.00%)	1.00% (1.00%)

21.2 वेतन में वृद्धि की दर का अनुमान स्फीति, वरिष्ठता, प्रोन्नति और रोजगार के बाजार में आपूर्ति तथा माँग सहित अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए बीमांकिक मूल्यन पर आधारित है।

21.3 ऊपर उल्लिखित दायित्वों में सहयोगी संस्थाओं में प्रतिनियुक्त किए गए कर्मचारियों से संबंधित दायित्व शामिल हैं।

21.4 उक्त जानकारी बीमांकिक द्वारा प्रमाणित है और पेंशन का विकल्प देने वाले स्टाफ के संबंध में भविष्य निधि में बैंक के अंशदान के बकाया शेष को ध्यान में रखने के बाद लाभ और हानि खाते में पेंशन हेतु प्रावधान किया गया।

21.5 वर्ष 2011-12 के दौरान छुट्टी नकदीकरण हेतु चिह्नित निवेशों से हुई आय ₹22.78 करोड़ से भी वर्ष 2010-11 और 2011-12 के वित्तीय वर्षों पर समग्र प्रभाव पड़ा।

21.6 परिभाषित अंशदान योजना

बैंक भविष्य निधि में प्रति माह पेंशन का विकल्प देने वाले और पेंशन का विकल्प न देने वाले कर्मचारियों के लिए मूल वेतन की परिभाषित 10% राशि का अंशदान करता है। पेंशन का विकल्प देने वालों के लिए किया गया अंशदान पेंशन योजना की योजनागत आस्तियों का भाग है। वर्ष के दौरान लाभ और हानि खाते में प्रभारित की गई अंशदान की कुल राशि ₹12.68 करोड़ (₹11.87 करोड़) है।

22. 2011-12 के दौरान बैंक ने नाबार्ड पेंशन निधि ट्रस्ट बनाया और 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार बैंक की लेखाबहियों में पेंशन के प्रावधान हेतु रखी गई राशि ₹934.44 करोड़ की इस निधि में अंतरित की गई।

27. म्युच्युअल फंडों में निवेश निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	म्युच्युअल फंड का नाम	31 मार्च 2012 की स्थिति			31 मार्च 2011 की स्थिति		
		यूनिटों की संख्या	बही मूल्य	बाजार मूल्य	यूनिटों की संख्या	बही मूल्य	बाजार मूल्य
1	कोटक महिंद्रा	0	0	0	31178095.5170	50.01	50.01
2	आईसीआईसीआई प्रूडेन्शियल	0	0	0	2069242.3680	30.01	30.01
3	केनरा रोबेको	0	0	0	25172008.7263	30.01	30.01
4	आईडीएफसी	0	0	0	25159975.5110	30.01	30.01
5	यूटीआई- मनी मार्केट	0	0	0	310661.2930	50.01	50.01
6	टाटा	0	0	0	276239.8430	50.01	50.01
7	डीडब्ल्यूएस	0	0	0	2356602.6900	30.01	30.01
8	एसबीआई	0	0	0	19254837.7780	30.01	30.01
9	आईडीबीआई	0	0	0	285224.8670	30.01	30.01
10	पीयउलेस	0	0	0	28065186.0720	30.01	30.01
11	टॉरस	0	0	0	284381.6460	30.01	30.01
	कुल	0	0	0		390.11	390.11

23. बैंक के प्रबंधन के विचार से आस्तियों में कोई महत्वपूर्ण क्षतिग्रस्तता नहीं है। अतः लेखांकन मानक-28 "आस्तियों की क्षतिग्रस्तता" के तहत कोई प्रावधान आवश्यक नहीं है।

24. एस-29 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां' के तहत आवश्यक आकस्मिक देयताओं में हुआ परिवर्तन इस प्रकार है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2010-11
अथ शेष	0.00	3.37
वर्ष के दौरान वृद्धि	0.24	0.00
वर्ष के दौरान कमी	0.00	3.37
इति शेष	0.24	0.00

25. लाभ-हानि खाते में शामिल की गई पूर्व अवधि मदें इस प्रकार हैं :

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	2011-12	2010-11
1	मूल्यहास	0.00	2.895
2	राजस्व व्यय	5.27	0.00
	कुल	5.27	2.895

26. 31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार, बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम 9 प्रतिशत के समक्ष 20.55% (21.76%) था।

(₹ करोड़ में)

28. बैंक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत भुगतान योग्य कोई राशि बकाया नहीं है।

29. भारि बैंक के दिनांक 01 जुलाई 2011 के परिपत्र सं. आरबीआई/ 2011-2012/ 68 डीबीओडी. एफआईडी. एफआईसी. 2/ 01.02.00/ 2011-12 के अनुसार, प्रकट की गई अतिरिक्त सूचनाएं निम्नानुसार हैं:

29.1 पूंजी

(क) जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी का अनुपात (सीआरएआर)

विवरण	31 मार्च	
	2012	2011
सीआरएआर	20.55	21.76
मूल सीआरएआर	19.42	20.43
अनुपूरक सीआरएआर	1.13	1.33

(ख) सबॉर्डिनेटेड ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2012	31 मार्च 2011
टीयर II पूंजी के रूप में उठाए गए और बकाया सबॉर्डिनेटेड ऋण की राशि	शून्य	शून्य

(ग) जोखिम भारित आस्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2012	31 मार्च 2011
तुलनपत्र में शामिल की गई मदे	80736.44	63515.55
तुलनपत्र में शामिल न की गई मदे	19.44	20.30

(घ) तुलन पत्र की तारीख को पूंजी अंशदान की पद्धति

दिनांक 30 मार्च 2012 के भारत सरकार के पत्र सं. एफ नं. 20/16/2010-एसी के माध्यम से नाबार्ड को पूंजी के रूप में ₹1000 करोड़ प्राप्त हुए। इसके परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार नाबार्ड की चुकता पूंजी में भारत सरकार और भारि बैंक का हिस्सा 99.33% : 0.67% हो गया जिसका विवरण निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

अंशदानकर्ता	31 मार्च 2012		31 मार्च 2011	
भारतीय रिजर्व बैंक	20.00	0.67%	20.00	1.00%
भारत सरकार	2,980.00	99.33%	1,980.00	99.00%
कुल	3000.00	100.00%	2,000.00	100.00%

29.2 आस्तियों की गुणवत्ता और ऋण संकेंद्रण

(क) निवल एनपीए स्थिति :

विवरण	31 मार्च 2012	31 मार्च 2011
निवल ऋणों और अग्रिमों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत	0.02249	0.02136

(ख) आस्तियों का वर्गीकरण

(₹ करोड़ में)

वर्गीकरण	2011-12		2010-11	
	राशि	(%)	राशि	(%)
मानक	165174.11	99.945	139459.40	99.950
उप-मानक	22.19	0.013	0.00	0.000
संदिग्ध	68.21	0.041	68.13	0.049
हानि	1.02	0.001	1.02	0.001
कुल	165265.53	100.000	139528.56	100.000

(ग) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान

(₹ करोड़ में)

निम्नलिखित के लिए प्रावधान	2011-12	2010-11
मानक आस्तियां	78.74	0.00
अनर्जक आस्तियां	14.87	32.90
निवेश (निवल)	30.44	1.93
आयकर	455.00	460.00
कुल	579.05	494.83

(घ) निवल अनर्जक आस्तियों में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2010-11
(अ) वर्ष के प्रारंभ में निवल अनर्जक आस्तियां	29.83	32.72
(आ) जोड़े : वर्ष के दौरान वृद्धि	7.32	19.44
(इ) उप-जोड़ (अ + आ)	37.15	52.16
(ई) घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां	0.00	22.33
(उ) वर्ष की समाप्ति पर निवल अनर्जक आस्तियां (इ-ई)	37.15	29.83

नोट : निवल अनर्जक आस्तियों में स्टाफ अग्रिम से संबंधित ₹0.07 करोड़ (₹0.04 करोड़) शामिल हैं।

(ड) पूंजी निधियों और कुल आस्तियों में ऋण एक्सपोजर की प्रतिशतता :

श्रेणी	2011-12		2010-11	
	ऋण एक्सपोजर की प्रतिशतता		ऋण एक्सपोजर की प्रतिशतता	
	पूंजी निधियों में	कुल आस्तियों में	पूंजी निधियों में	कुल आस्तियों में
I सबसे बड़ा एकल उधारकर्ता	91.60	8.35	128.67	11.08
II सबसे बड़ा उधारकर्ता समूह		लागू नहीं		लागू नहीं
III वर्ष के दस सबसे बड़े एकल उधारकर्ता	331.83	30.24	378.64	32.59
IV दस सबसे बड़े उधारकर्ता समूह		लागू नहीं		लागू नहीं

(च) कुल आस्तियों में पांच सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों के ऋण एक्सपोजर की प्रतिशतता : लागू नहीं

29.3 चलनिधि

रुपये में आस्तियों और देयताओं की परिपक्वता का स्वरूप और विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं की परिपक्वता का स्वरूप

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	1 वर्ष से कम या 1 वर्ष	1 वर्ष से अधिक 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक 7 वर्ष तक	7 वर्ष से अधिक	कुल #
1	रुपये में आस्तियां	82177.97 (68088.65)	45084.24 (40360.96)	34177.67 (31910.59)	15242.53 (13478.17)	4660.17 (4410.44)	181342.58 (158248.82)
2	विदेशी मुद्रा आस्तियां	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
	कुल आस्तियां	82177.97 (68088.65)	45084.24 (40360.96)	34177.67 (31910.59)	15242.53 (13478.17)	4660.17 (4410.44)	181342.58 (158248.82)
3	रुपये में देयताएं	29159.71 (36715.00)	57562.03 (39438.72)	32583.53 (29124.49)	25013.99 (18524.70)	36520.54 (33943.27)	180839.80 (157746.17)
4	विदेशी मुद्रा देयताएं	39.88 (39.92)	79.77 (79.75)	79.77 (79.74)	34.78 (64.82)	268.58 (238.42)	502.78 (502.64)
	कुल देयताएं	29199.59 (36754.92)	57641.80 (39518.47)	32663.30 (29204.23)	25048.77 (18589.52)	36789.12 (34181.69)	181342.58 (158248.81)

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार मानक आस्तियों, अनर्जक आस्तियों और निवेश के मूल्य में हुए ह्रास के लिए किए गए कुल प्रावधान ₹ 732.63 करोड़ (₹ 623.45 करोड़) को घटाकर.

29.4 परिचालन परिणाम

विवरण	2011-12	2010-11
(क) औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	6.53	6.22
(ख) औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याजेतर आय	0.07	0.10
(ग) औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ	1.44	1.25
(घ) औसत आस्तियों पर प्रतिफल (%)	0.98	0.88
(ङ) प्रति कर्मचारी निवल लाभ (₹ करोड़ में)	0.36	0.27

29.5 प्रावधानों में परिवर्तन

(क) अनर्जक आस्तियों (ऋण आस्तियों) के लिए प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2010-11
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में शेष	39.39	32.00
जोड़े-वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	14.87	23.73
घटाए: अपलिखित और प्रतिलिखित अतिरिक्त प्रावधान	0.00	16.34
वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर शेष	54.26	39.39

(ख) निवेशों में मूल्यहास हेतु प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2010-11
अ वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में शेष	3.37	1.44
आ जोड़ें		
(i) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	31.74	2.08
(ii) वर्ष के दौरान निवेश उतार-चढ़ाव प्रारंभित खाते से विनियोजन, यदि हो	0.00	0.00
इ उप जोड़ [अ+आ (i)+आ (ii)]	35.11	3.52
ई घटाएँ		
(i) अपलिखित / प्रति लिखित अतिरिक्त प्रावधान	1.30	0.15
(ii) वर्ष के दौरान निवेश उतार-चढ़ाव प्रारंभित निधि में अंतरण, यदि हो	0.00	0.00
उप जोड़ [ई]	1.30	0.15
उ वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर शेष (इ-ई)	33.81	3.37

29.6 पुनःसंरचित खाते

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, ₹788.25 करोड़ की राशि के बकाया वाले पांच ऋण खातों का (मप्ररासकृग्रावि बैंक के बकाया ₹770.60 करोड़ के ऋण सहित) पुनःअनुसूचीकरण किया गया। पांचों ऋण खाते मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं और भारि बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार इन आस्तियों पर 1.6% की दर से अतिरिक्त प्रावधान किया। मप्ररासकृग्रावि बैंक को पुनःसंरचित करने के संबंध में ब्याज घटक छोड़ने के लिए आईआरएसी के मानदंडों के अनुसार 2011-12 के दौरान ₹51.37 करोड़ राशि का प्रावधान किया गया।

29.7 वर्ष के दौरान सेक्योरिटाइजेशन कंपनी / रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेची गई आस्तियां : शून्य (शून्य)

29.8 वायदा दर करार और ब्याज दर स्वैप : शून्य (शून्य)

29.9 ब्याज दर व्युत्पाद : शून्य (शून्य)

29.10 गैर सरकारी ऋण प्रतिभूतियों में निवेश : शून्य (शून्य)

29.11 कॉर्पोरेट ऋण पुनःसंरचना (सीडीआर)

वर्ष के दौरान किसी ऋण खाते को सीडीआर के अंतर्गत पुनःसंरचित नहीं किया गया।

29.12 व्युत्पादों में किए गए निवेश से संबंधित जोखिम के बारे में प्रकटन

बैंक व्युत्पादों का व्यापार नहीं करता। तथापि, बैंक ने केएफडब्ल्यू जर्मनी से पूरी ऋण अवधि के लिए 93.63 मिलियन यूरो के उधार और उस पर लगे ब्याज के लिए हेजिंग की है। विदेशी मुद्रा उधारों की हेजिंग करने के परिणामस्वरूप, उसे स्वैप करार के अनुसार संविदाकृत मूल्य पर दर्शाया गया है। बैंक का विदेशी मुद्रा में कोई ओपन एक्सपोजर नहीं है।

वर्ष के अंत में विनिमय दर के अनुसार हेज संविदा की बकाया मूल राशि ₹632.33 करोड़ रही और लेखा बहियों में बकाया मूल देयता का मूल्य, संविदाकृत मूल्य पर ₹502.77 करोड़ रहा। इस संबंध में राशि के रूप में प्रकटन इस प्रकार है :

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	मुद्रा व्युत्पाद	ब्याज दर व्युत्पाद
1	व्युत्पाद (नोशनल मूल राशि)		
	क) हेजिंग के लिए	632.33 (592.10)	लागू नहीं
	ख) व्यापार के लिए	लागू नहीं	लागू नहीं
2	बाजार समायोजित पोजिशन [1]		
	क) आस्तियां (+)	129.55 (89.45)	लागू नहीं
	ख) देयताएं (-)	(0.00)	लागू नहीं
3	ऋण एक्सपोजर [2]	109.41	लागू नहीं
4	ब्याज दर में एक प्रतिशतता परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100 *पीवी01)		
	क) हेजिंग व्युत्पादों पर	8.70@	लागू नहीं
	ख) व्यापार व्युत्पादों पर	लागू नहीं	लागू नहीं
5	वर्ष के दौरान 100 *पीवी01 का उच्चतम और न्यूनतम स्तर		
	क) हेजिंग पर	लागू नहीं	लागू नहीं
	ख) व्यापार पर	लागू नहीं	लागू नहीं

@ यदि एमआईबीओआर दर 100 बीपीएस के कम होती है तो एमटीएम लाभ ₹8.70 करोड़ कम होगा।

29.13 वर्ष के दौरान एक्सपोजर के ऐसे मामले जब वित्तीय संस्था ने विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाओं का अतिक्रमण किया : शून्य (शून्य)

29.14 संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन

चूँकि बैंक, लेखांकन मानक- 18 'संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन' के अनुसार सरकार द्वारा नियंत्रित उद्यम है इसलिए सरकार नियंत्रित अन्य उद्यमों के साथ इसके लेन-देनों का विवरण नहीं दिया गया है।

संबंधित पक्षों की सूची

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक :

1. श्री उमेश चंद्र सरंगी - पूर्व अध्यक्ष
2. श्री राकेश सिंह - पूर्व अध्यक्ष
3. डॉ. प्रकाश बक्षी - अध्यक्ष
4. डॉ. के. जी. करमाकर - पूर्व प्रबंध निदेशक

(₹ करोड़ में)

पार्टी का नाम	संबंध की प्रकृति	लेन-देन की प्रकृति	वर्ष के दौरान लेन-देन की राशि	बकाया राशि
श्री उमेश चंद्र सरंगी	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक- पूर्व अध्यक्ष	अनुलाभ सहित पारिश्रमिक	0.082	0.00
राकेश सिंह	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक- पूर्व अध्यक्ष	अनुलाभ सहित पारिश्रमिक	0.020	0.00
डॉ. प्रकाश बक्षी	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक- अध्यक्ष	अनुलाभ सहित पारिश्रमिक	0.107	0.00
डॉ. के. जी. करमाकर	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक- पूर्व प्रबंध निदेशक	अनुलाभ सहित पारिश्रमिक	0.119	0.00

संबंधित पक्षों के संदर्भ में वर्ष के दौरान कोई भी राशि अपलिखित / प्रतिलिखित नहीं की गई और न कोई प्रावधान किया गया।

संबंधित पक्षों के साथ संबंध की पहचान प्रबंधन द्वारा की गई है और लेखापरीक्षकों ने उस पर भरोसा किया है।

29.15 निवेशों के संदर्भ में निर्गमकर्ताओं की श्रेणियां

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	निर्गमकर्ता	राशि	निजी पोसमेंट के माध्यम से निवेश	धारित अवश्रेणी निवेश प्रतिभूतियां	धारित अनरेटेड प्रतिभूतियां	अनलिस्टेड प्रतिभूतियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	180.27 (80.34)	154.13 (79.13)	-	80.25 (19.13)	77.88 (79.13)
2	वित्तीय संस्थाएं	123.00 (123.00)	123.00 (123.00)	-	48.00 (0.00)	48.00 (48.00)
3	बैंक	0.09 (0.00)	-	-	0.09 (0.00)	-
4	निजी कॉर्पोरेट	216.00 (150.00)	216.00 (150.00)	-	16.00 (0.00)	16.00 (0.00)
5	सहायक संस्थाएं/ संयुक्त उद्यम	41.37 (23.80)	41.37 (23.80)	-	41.37 (23.80)	41.37 (23.80)
6	म्युचुअल फंड सहित अन्य (प्रावधानों को घटाकर)	3100.47 (2262.47)	25.92 (10.35)	-	25.92 (10.35)	3100.47 (2262.47)
7	मूल्यहास के लिए किया गया प्रावधान	3.19 (3.37)	-	-	0.59 (0.00)	0.59 (3.37)
	कुल	3658.01 (2636.24)	560.42 (386.28)	0.00 (0.00)	211.04 (53.28)	3283.13 (2410.03)

29.16 अनर्जक निवेश : शून्य (शून्य)

29.17 रेपो संबंधी लेन-देन पर प्रकटन : शून्य (शून्य)

29.18 जमाराशियों, अग्रिमों, एक्सपोजर और अनर्जक आस्तियों का संकेंद्रण

(क) जमाराशियों का संकेंद्रण

(₹ करोड़ में)

	2011-12	2010-11
20 सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियाँ	85859.17	73761.25
बैंक की कुल जमाराशियों में जमाराशियों का प्रतिशत	90.00%	89.00%

(ख) अग्रिमों का संकेंद्रण

(₹ करोड़ में)

	2011-12	2010-11
20 सबसे बड़े उधारकर्ताओं की कुल अग्रिम	86213.95	75077.75
बैंक के कुल अग्रिमों से 20 सबसे बड़े उधारकर्ताओं की अग्रिम का प्रतिशत	52.24%	53.81%

(ग) एक्सपोजर का संकेंद्रण

(₹ करोड़ में)

	2011-12	2010-11
20 सबसे बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों की कुल एक्सपोजर	87413.95	75077.75
बैंक के कुल एक्सपोजर में 20 सबसे बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों के एक्सपोजर का प्रतिशत	50.88%	50.32%

(घ) अनर्जक आस्तियों का संकेंद्रण

(₹ करोड़ में)

	2011-12	2010-11
04 सबसे बड़े अनर्जक आस्ति खातों की कुल एक्सपोजर	57.40	50.71

29.19 सेक्टर-वार अनर्जक आस्तियाँ

क्रम	सेक्टर	सेक्टर में कुल अग्रिमों की तुलना में अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत	2011-12	2010-11
1	कृषि और अनुषंगी कार्यकलाप		0.00	0.00
2	उद्योग (सूक्ष्म और लघु, मध्यम और बड़े)		72.35	54.46
3	सेवाएँ		0.00	0.00
4	व्यक्तिगत ऋण-स्टाफ ऋण		0.06	0.02

29.20 सकल अनर्जक आस्तियों में बदलाव

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2010-11
वर्ष विशेष की 01 अप्रैल की स्थिति के अनुसार सकल अनर्जक आस्तियाँ (अथ शेष)	69.19	50.73
जोड़े : वर्ष के दौरान (नई अनर्जक आस्तियाँ)	22.23	25.70
उप जोड़ (अ)	91.42	76.39
घटाएँ :-		
(i) अपग्रेडेशन	0.00	5.40
(ii) वसूलियाँ (अपग्रेडेड खातों से की गई वसूलियों को छोड़कर)	0.00	1.84
(iii) बढ़ते खाते	0.00	0.00
उप जोड़ (आ)	0.00	7.24
अगले वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार सकल अनर्जक आस्तियाँ (इति शेष) (अ-आ)	91.42	69.19

29.21 विदेशी आस्तियाँ, अनर्जक आस्तियाँ और राजस्व : शून्य (शून्य)

29.22 तुलन-पत्र से इतर प्रायोजित एसपीवी (लेखांकन मानदंडों के अनुसार जिनका समायोजन अपेक्षित है) : शून्य (शून्य)

29.23 व्यवसाय घटक के संबंध में सूचना

(क) संक्षिप्त पृष्ठभूमि :

बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक व्यवसाय खंड निम्नवत् हैं :

- i) प्रत्यक्ष वित्तपोषण : ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास हेतु राज्य सरकारों को दिया गया ऋण, सह वित्तपोषण ऋण और

- स्वैच्छक एजेंसियों/गैर-सरकारी संगठनों को विकासात्मक गतिविधियों के लिए दिए गए ऋण इस खंड में शामिल हैं।
- ii) पुनर्वित्त : इसमें राज्य सरकारों, वाणिज्य बैंकों, भूमि विकास बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों इत्यादि को उनके द्वारा अंतिम उधारकर्ताओं को संवितरित ऋणों हेतु प्रदत्त पुनर्वित्त शामिल है।
- iii) ट्रेजरी : इसमें ट्रेजरी बिलों, अल्पावधि जमा राशियों, सरकारी प्रतिभूतियों इत्यादि के अंतर्गत निधियों का निवेश शामिल है।
- iv) अनाबंटित : इस खंड में स्टाफ को दिए गए ऋणों और अन्य विविध प्राप्तियों से आय और बैंक की विकासात्मक भूमिका के लिए किए गए व्यय और सामान्य प्रशासनिक व्ययों को शामिल किया गया है।

(ख) प्राथमिक व्यवसाय घटक के संबंध में सूचना

(₹ करोड़ में)

	प्रत्यक्ष वित्त	पुनर्वित्त	ट्रेजरी	अनाबंटित	जोड़
घटक राजस्व	4,401.32 (4,085.61)	5,198.78 (4,086.49)	1,346.02 (943.24)	32.38 (86.68)	10978.50 (9,202.01)
घटक परिणाम	246.37 (268.69)	1,638.63 (1,567.59)	1302.00 (912.21)	-935.03 (-924.63)	2251.97 (1,823.86)
घटक आस्तियों की कुल आवर्ती राशि	71,728.35 (66,409.32)	94,696.77 (74,643.27)	13,226.02 (15,316.71)	2,424.07 (2,502.96)	1,82,075.21 (1,58,872.26)
घटक देयताओं की कुल आवर्ती राशि अन्य मदें :	76190.61 (68,908.87)	84520.54 (69,320.39)	291.17 (266.47)	21,072.89 (20,376.54)	1,82,075.21 (1,58,872.26)
वर्ष के दौरान घटक आस्तियों के अधिग्रहण की लागत	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	18.16 (18.22)	18.16 (18.22)
परिशोधन और मूल्यहास	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	21.22 (22.58)	21.22 (22.58)
गैर नकदी व्यय	15.13 (32.90)	129.62 (-0.08)	-0.80 (-0.05)	129.34 (100.21)	273.29 (132.98)

(ग) चूंकि बैंक का परिचालन भारत के भीतर ही होता है, इसलिए रिपोर्ट करने योग्य कोई द्वितीयक खंड नहीं है।

30. कॉलम में दर्शाए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं।

31. गत वर्ष के आंकड़ों को जहां कहीं आवश्यक हुआ वहां पुनः समूहित/व्यवस्थित किया गया।

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

पी. पारिख एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन. 107564डब्ल्यू

अशोक राजागिरी
साझेदार
एम सं. 046070
मुंबई
दिनांक : 26 मई 2012

के. एस. पचनाभन
मुख्य महाप्रबंधक
लेखा विभाग
मुंबई : 26 मई 2012

प्रकाश बक्षी
अध्यक्ष

एच आर खान
निदेशक

दीपांकर गुप्ता
निदेशक

एम एल शर्मा
निदेशक

पी सतीश
मुख्य महाप्रबंधक एवं सचिव

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(₹ '000 में)

विवरण	2011-2012	2010-2011
(क) परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह	2251,96,93	1823,86,02
लाभ हानि लेखा के अनुसार कर पूर्व निवल लाभ		
समायोजन:		
मूल्य ह्रास के लिए	21,22,00	22,57,98
प्रावधान और परिशोधन के लिए	-80,00	2,78,34
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	14,87,23	32,90,00
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	78,74,00	0
पुनर्संरचनाकृत ऋणों के लिए ब्याज उत्सर्ग हेतु प्रावधान	51,37,00	-8,00
अचल आस्तियों की बिक्री से लाभ / हानि	12,58	4,64
विभिन्न निधियों में जमा ब्याज (ब्याज अंतराल निधि में जुड़ाव / समायोजन सहित)	139,38,43	118,36,63
अन्य व्यय	0	0
निवेश से आय (डिस्कण्ट से होने वाली आय सहित)	-1346,02,32	-938,79,85
विभिन्न निधियों से व्यय	-3283,28,78	-5492,54,83
परिचालन आस्तियों में परिवर्तन से पूर्व परिचालन लाभ	-2072,42,94	-4430,89,07
निवल परिवर्तन के लिए समायोजन:		
चालू आस्तियाँ	2133,68,93	-373,55,50
चालू देयताएँ	799,07,04	681,46,96
ऋणों और अग्रिमों में वृद्धि (स्टाफ को आवास ऋण और अन्य अग्रिमों सहित)	-25661,77,32	-19035,55,28
परिचालन गतिविधियों से सृजित नकदी	-24801,44,29	-23158,52,90
आयकर का भुगतान	-426,74,97	-539,24,46
परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (अ)	-25228,19,26	-23697,77,35
(ख) निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
निवेश से आय (डिस्कण्ट से होने वाली आय सहित)	1346,02,33	943,23,85
अचल आस्ति में वृद्धि / कमी	-16,91,56	-17,39,41
निवेश में वृद्धि / कमी	2,84,72	-2087,23,63
निवेश गतिविधियों में प्रयोग की गई / से सृजित निवल नकदी (आ)	1331,95,49	-1161,39,19
(ख) निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
प्राप्त अनुदान/ अंशदान	1848,88,70	3925,65,16
बाण्डों से प्राप्त पशि	11795,64,80	6783,83,37
उधार राशियों में वृद्धि / कमी	-3352,80,70	2503,49,41
जमा राशियों में वृद्धि / कमी	12621,07,70	12780,65,51
शेयर पूंजी	1000,00,00	0
वित्तपोषण गतिविधियों से सृजित निवल नकदी (इ)	23912,80,50	25993,63,45
नकदी और नकदी समकक्ष में निवल वृद्धि (अ) + (आ) + (इ)	16,56,73	1134,46,91
वर्ष के प्रारंभ में नकदी और नकदी समकक्ष	1762,80,65	628,33,75
वर्ष की समाप्ति पर नकदी और नकदी समकक्ष	1779,37,38	1762,80,66

1. वर्ष की समाप्ति पर नकदी और नकदी समकक्ष में शामिल है	2011-2012	2010-2011
हाथ में नकदी	9	7
भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष	1168,79,91	38,85,26
भारत में अन्य बैंकों के पास शेष	379,62,31	801,32,40
भारतीय प्रेषण	2,54	694,44,37
अंतर निधि अंतरण	0	0
संपादित उधार और उधार देने की देयताएँ	230,92,53	228,18,56
कुल	1779,37,38	1762,80,66

पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां कहीं आवश्यक हुआ वहां पुनः समूहित / व्यवस्थित किया गया है ताकि वे चालू वर्ष की प्रस्तुति के अनुरूप हों।

पी. पारिख एंड एसोसिएट्स
 सनदी लेखाकार
 एफआरएन. 107564डब्ल्यू

अशोक राजागिरी
 साक्षेदार
 एम सं. 046070
 मुंबई
 दिनांक : 26 मई 2012

प्रकाश बक्षी
 अध्यक्ष

एच आर खान
 निदेशक

दीपांकर गुप्ता
 निदेशक

के. एस. पद्मनाभन
 मुख्य महाप्रबंधक
 लेखा विभाग
 मुंबई : 26 मई 2012

एम एल शर्मा
 निदेशक

पी सतीश
 मुख्य महाप्रबंधक एवं सचिव

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और इसकी सहायक संस्थाओं (नैबकॉन्स, एडीएफटी, एबीएफएल और नैबफिन्स) का समेकित तुलन पत्र लाभ और हानि लेखा और नकदी प्रवाह 2011-2012

पी. पारिख एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

निदेशक मंडल, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

- हमने 31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (बैंक) और उसकी सहायक संस्थाओं के संलग्न तुलन-पत्र और उसके साथ संलग्न उसी तारीख को समाप्त वर्ष के समेकित लाभ और हानि लेखे और नकदी प्रवाह विवरण की जांच की है, ये वित्तीय विवरण बैंक के प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं। हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है।
- हमने अपना लेखापरीक्षा कार्य भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किया है। इन मानकों की अपेक्षा रहती है कि हम लेखापरीक्षा की योजना और कार्य इस प्रकार करें जिसमें समुचित रूप में यह आश्वासन प्राप्त हो जाए कि क्या दिए गए वित्तीय विवरणों को सभी महत्वपूर्ण दृष्टि से तैयार किया गया है और वे, चयनित/ वित्तीय रिपोर्टिंग खाके के अनुरूप हैं और किसी भी महत्वपूर्ण दुष्प्रवृत्ति से मुक्त हैं। प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों और किए गए महत्वपूर्ण आकलनों और साथ ही समग्र रूप से वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी 'लेखापरीक्षा' में शामिल होता है। हमारा विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा से हमारी राय को उचित आधार प्राप्त होता है।
- हमने बैंक की सहायक संस्थाओं के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है। इन सहायक संस्थाओं से संबंधित कुल आस्तियां और राजस्व क्रमशः ₹353.65 करोड़ और ₹46.90 करोड़ हैं। इन दो सहायक संस्थाओं नामतः एग्री. डेवलपमेंट फिनांस (तमिलनाडु) लि. और एग्री बिजनेस फिनांस (एपी) लि. वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की गई है इसलिए उनकी शेष राशियों में किसी प्रकार का समायोजन करने से संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, जिसका निवारण नहीं किया गया है। इन वित्तीय विवरणों को संबंधित सहकारी कंपनियों के प्रबंधन द्वारा प्रमाणित कर हमें प्रस्तुत किया गया है। हमारे विचार से, जहां तक इसका संबंध सहायक संस्थाओं के मामले में समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल राशियों से संबंधित है, वह पूर्णतः इन प्रमाणित विवरणों पर आधारित है।
- हम रिपोर्ट देते हैं कि समेकित वित्तीय विवरणों को इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा जारी लेखांकन मानक (एस) 21 "समेकित वित्तीय विवरणों" की अपेक्षा के अनुरूप और समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल बैंक और उसकी सहायक संस्थाओं के अलग से लेखापरीक्षित/ प्रमाणित वित्तीय विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है।
- हम रिपोर्ट देते हैं कि हमें दी गई जानकारी और व्याख्याओं के आधार पर और बैंक एवं इसकी सहायक संस्थाओं के अलग से लेखापरीक्षित/ प्रमाणित वित्तीय विवरणों के आधार पर तथा उक्त पैरा 3 में हमारी टिप्पणियों की शर्त पर, हमारा मत है कि उक्त समेकित वित्तीय विवरण भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप निम्न की सही और स्पष्ट स्थिति प्रस्तुत करते हैं :
 - समेकित तुलन-पत्र के मामले में 31 मार्च 2012 को बैंक का कार्य व्यापार ;
 - समेकित लाभ और हानि के मामले में उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के परिचालनों के समेकित परिणाम; और
 - समेकित नकदी प्रवाह विवरण के मामले में उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के समेकित नकदी प्रवाह।

स्थान : मुंबई

दिनांक : 26 मई 2012

पी पारिख एंड एसोसिएट्स
की ओर से और उनके लिए
सनदी लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेशन सं. 107564डब्ल्यू

अशोक राजगिरी
साझेदार
सदस्यता सं. : (एफ-046070)

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
समेकित तुलन पत्र - 31 मार्च 2012 की स्थिति

(₹ '000 में)

विवरण	31.03.2012 की स्थिति	31.03.2011 की स्थिति
निधियां और देयताएं		
पूंजी	3000,00,00	2000,00,00
प्रारक्षित निधि और अन्य प्रारक्षित निधियां	13442,36,69	11888,71,64
राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण निधियां	16058,00,00	16045,00,00
अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से प्राप्त अनुदानों से सृजित निधियां	139,20,78	138,89,56
उपहार, अनुदान, दान और उपकृतियां	657,95,94	2601,94,77
अन्य निधियां	4157,17,24	3431,47,40
माइनॉरिटी इंटरेस्ट	32,09,12	21,69,85
जमा राशियां	95397,75,23	82776,67,53
बॉण्ड और डिबेंचर	38582,89,64	26787,24,84
उधार	4328,48,39	7681,29,09
चालू देयताएं और प्रावधान	6349,96,46	5605,55,85
कुल निधियां और देयताएं	182145,89,50	158978,50,53
संपत्ति और आस्तियां		
नकदी और बैंक शेष	8673,66,91	10881,89,37
निवेश	18168,55,91	19305,80,92
अग्रिम	152593,77,37	126031,30,66
अचल आस्तियां	225,83,24	229,99,83
अन्य आस्तियां	2484,06,07	2529,49,75
कुल संपत्ति और आस्तियां	182145,89,50	158978,50,53

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

पी. पारिख एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन. 107564डब्ल्यू

अशोक राजागिरी
साझेदार
एम सं. 046070
मुंबई
दिनांक : 26 मई 2012

प्रकाश बक्षी
अध्यक्ष

एच आर खान
निदेशक

दीपांकर गुप्ता
निदेशक

के. एस. पचनाभन
मुख्य महाप्रबंधक
लेखा विभाग
मुंबई : 26 मई 2012

एम एल शर्मा
निदेशक

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि लेखा

(₹ '000 में)

	2011-12	2010-11
आय :		
ऋणों और अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज	9516,42,24	8170,20,18
निवेश परिचालनों से आय	1354,73,85	946,91,62
प्राप्त डिस्काउंट	0	0
अन्य प्राप्तियाँ	139,32,23	107,08,08
कुल आय	11010,48,33	9224,19,88
व्यय :		
ब्याज और वित्तीय प्रभार	7530,76,44	6194,38,06
स्थापना और अन्य खर्च	1045,79,85	1135,57,54
मूल्यहास	21,34,47	22,67,16
प्रावधान	145,20,03	35,79,92
कुल व्यय	8743,10,79	7388,42,68
आयकर से पूर्व लाभ	2267,37,54	1835,77,20
आयकर के लिए प्रावधान	459,04,55	463,67,98
आस्थगित कर आस्ति समायोजन	161,93,99	84,93,30
कर परचात लाभ	1646,39,00	1287,15,92
सहायक संस्थाओं में लाभ/ हानि का हिस्सा जोकि माइनोरिटी इंटरेस्ट के कारण है	2,13,27	88,93
विनियोजन हेतु उपलब्ध लाभ	1644,25,73	1286,26,99
विनियोजन		
यथोक्त लाभ	1644,25,73	1286,26,99
जोड़े : लाभ और हानि खाते नामे डाले गए व्यय के समस्त विभिन्न निधियों से आहरण	69,30,30	202,67,59
विनियोजन हेतु उपलब्ध कुल लाभ	1713,56,03	1488,94,58
निम्नलिखित में अंतरित किया गया:		
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(I)(viii) के अंतर्गत विशेष प्रारक्षित निधि	310,00,00	360,00,00
राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घवधि परिचालन) निधि	10,00,00	50,00,00
राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण निधि)	1,00,00	10,00,00
सहकारिता विकास निधि	5,35,40	6,05,32
अनुसंधान और विकास निधि	20,65,30	17,67,49
निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि	27,15,42	116,07,65
उत्पादक संगठन विकास निधि	0	50,00,00
ग्रामीण आधारभूत संवर्धन निधि	0	25,00,00
वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि	45,00,00	10,00,00
किसान प्रौद्योगिकी अंतरण निधि	2,73,85	2,34,20
कृषि नवोन्मेष और संवर्धन निधि	44,56,36	33,55,54
एमएफडीईएफ प्रारक्षित निधि	0	0
प्रारक्षित निधि	1247,09,69	808,24,38
कुल	1713,56,03	1488,94,58

समेकित लेखों से संबंधित अतिरिक्त टिप्पणियां

1. समेकन स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्धता करार के अनुसार किया गया है।
2. एग्री डेवलपमेंट फाइनांस (तमिलनाडु) लि. और एग्री बिजनेस फाइनांस (एपी) लि. के वित्तीय विवरण लेखा परीक्षित नहीं हैं।
3. सहायक संस्थाओं के ब्यौरे :

सहायक संस्था का नाम	देश जहां निगमित है	स्वामित्व में हिस्सा
एग्री डेवलपमेंट फाइनांस (तमिलनाडु) लि.	भारत	52.10
एग्री बिजनेस फाइनांस (एपी) लि.	भारत	47.82*
नाबार्ड फाइनेंशियल सर्विसेस लि.	भारत	61.71
नाबार्ड कंसल्टेन्सी सर्विसेस प्रा.लि.	भारत	100

* नाबार्ड, एग्री बिजनेस फाइनांस (आंध्र प्रदेश) लि. के निदेशक बोर्ड पर नियंत्रण रखता है और इसलिए इसे सहायक संस्था माना गया है।

4. “समेकित वित्तीय विवरणी” में लेखांकन मानक - (एस) - 21 के अनुसार कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों के अंतर-समूह शेष राशियों और अंतर-समूह लेन-देनों को पूर्णतः विलोपित करने के बाद व्ययों को जोड़ते हुए इनके वित्तीय विवरणों को समेकित किया गया है।
5. एग्री डेवलपमेंट फाइनांस (तमिलनाडु) लि. और एग्री बिजनेस फाइनांस (आ.प्र.) लि. ने अचल आस्तियों पर कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में निर्धारित दरों पर मूल्यहास का प्रावधान डब्ल्यूडीवी के अनुसार किया है जबकि नाबार्ड फाइनांस सर्विसेस लि. ने अचल आस्तियों पर कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में निर्धारित दरों पर सीधी कटौती प्रणाली (एसएलएम) के अनुसार आनुपातिक आधार पर मूल्यहास का प्रावधान किया है। इस प्रकार नाबार्ड द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में मूल्यहास हेतु अपनाई गई लेखांकन नीति सहायक संस्थाओं द्वारा मूल्यहास के लिए अपनाई गई लेखांकन नीति से भिन्न है। अतः समेकित वित्तीय विवरण में शामिल कुल ₹ 21.34 करोड़ (22.67 करोड़) के मूल्यहास में से 0.13 % (0.14%) राशि कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में निर्धारित दरों पर मूल्यहास मूल्य पद्धति / सीधी कटौती प्रणाली के आधार पर आकलित मूल्यहास है।
6. नैबकॉन्स द्वारा विदेशी नियत कार्यों पर आय की गणना “प्राप्ति” आधार पर की गई है। इस प्रकार प्राप्य शुल्क की राशि को नहीं गिना गया है।
7. समेकित वित्तीय विवरण में एस-17 “सेगमेंट रिपोर्टिंग” के अंतर्गत यथा अपेक्षित प्रकटीकरण निम्नलिखित है :

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष 2011-12 (समेकित)	प्रत्यक्ष वित्त	पुनर्वित्त	कोषागार	अनाबंटित	कुल
राजस्व घटक	4412.77 (4090.85)	5198.78 (4086.49)	1346.02 (943.24)	52.91 (103.63)	11010.48 (9224.20)
घटक परिणाम	252.21 (271.38)	1638.63 (1567.59)	1302.00 (912.21)	-925.46 (-915.41)	2267.38 (1835.77)
घटक आस्तियों की कुल आवर्ती राशि	71768.21 (66434.55)	94696.77 (74643.27)	13226.02 (15316.71)	2454.89 (2583.97)	182145.89 (158978.51)
घटक देयताओं की कुल आवर्ती राशि	76230.47 (68934.10)	84520.54 (69320.39)	291.17 (266.47)	21103.71 (20457.56)	182145.89 (158978.51)
अन्य मदें :					
वर्ष के दौरान घटक आस्तियों के अधिग्रहण की लागत				18.42 (18.54)	18.42 (18.54)
परिशोधन और मूल्यहास	0.08 (0.06)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	21.26 (22.61)	21.34 (22.67)
गैर-नकदी व्यय (उक्त के अलावा)	15.98 (33.10)	129.62 (-0.08)	-0.80 (-0.05)	129.34 (100.21)	274.14 (133.18)

नोट : बैंक और इसकी सहायक संस्थाओं हेतु रिपोर्ट करने योग्य “कोई सेकेंडरी सेगमेंट” नहीं है।

8. जहां भी आवश्यकता पड़ी है, वहां पिछले वर्ष के आंकड़ों को फिर से समूहित/ व्यवस्थित किया गया है।

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

पी. पारिख एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन. 107564डब्ल्यू

अशोक राजागिरी
साझेदार
एम सं. 046070
मुंबई
दिनांक : 26 मई 2012

प्रकाश बक्षी
अध्यक्ष

एच आर खान
निदेशक

दीपांकर गुप्ता
निदेशक

के. एस. पथनाभन
मुख्य महाप्रबंधक
लेखा विभाग
मुंबई : 26 मई 2012

एम एल शर्मा
निदेशक

पी रंजीश
मुख्य महाप्रबंधक एवं सचिव

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(₹ '000 में)

विवरण	2011-12 के दौरान	2010-11 के दौरान
(क) परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर पूर्व निवल लाभ	2266,99,31	1835,77,20
मूल्यह्रास	21,34,47	22,67,16
प्रावधान और परिशोधन	-31,23	2,78,34
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	14,87,45	32,90,00
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	79,53,55	0
पुनर्गठनाकृत ऋणों के लिए ब्याज उत्सर्ग हेतु प्रावधान	51,37,00	-8,00
विभिन्न निधियों में जमा ब्याज	139,38,43	118,36,63
अन्य व्यय	0	0
निवेश से आय	-1346,02,32	-938,79,85
अचल आस्तियों की बिक्री पर लाभ/ हानि	12,58	4,64
विविध निधियों से व्यय	-3283,28,78	-5492,54,83
कार्यशील पूँजी में परिवर्तन से पूर्व परिचालनगत लाभ	-2055,99,56	-4418,88,71
निवल परिवर्तन हेतु निम्नलिखित में समायोजन:		
चालू आस्तियां	2126,04,74	-377,80,87
चालू देयताएं	746,43,46	717,32,21
ऋण और अप्रिमों में वृद्धि/ कमी	-25803,53,80	-19087,50,88
परिचालन गतिविधियों से जुड़ित नकदी	-24987,05,16	-23166,88,25
आयकर का भुगतान	-431,06,93	-541,85,19
परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (अ)	-25418,12,09	-23708,53,44
(ख) निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
निवेश से आय	1346,02,32	943,23,85
अचल आस्तियों में वृद्धि/ कमी	-17,27,32	-17,72,70
निवेशों में वृद्धि/ कमी	2,74,03	2087,33,45
निवेश गतिविधियों में प्रयोग की गई निवल नकदी (आ)	1331,49,03	-1161,82,30
(ग) वित्तपोषित गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
बॉण्डों/शेयरों से प्राप्त राशि	11821,71,62	6793,53,37
उधारों में वृद्धि/ कमी	-3174,99,77	2555,88,70
जमा राशियों में वृद्धि/ कमी	12557,92,51	12762,20,26
प्राप्त अनुदान/ अंशदान	1848,86,90	3925,65,06
प्रदत्त लाभ/अंश	999,30,27	-58,30
वित्तपोषित गतिविधियों से जुटाई गई निवल नकदी	24052,81,52	26036,69,09
नकदी और नकदी समकक्ष में निवल वृद्धि (अ)+(आ)+(इ)	-33,81,54	1166,33,35
अवधि के प्रारंभ में नकदी और नकदी समकक्ष	1815,57,69	649,24,34
वर्ष की समाप्ति पर नकदी और नकदी समकक्ष	1781,76,15	1815,57,69
वर्ष की समाप्ति पर नकदी और नकदी तुल्य राशियों में शामिल हैं		
हाथ में रोकड़े	2011-12 4,04	2010-11 10
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष	1168,79,91	38,85,26
भारत में अन्य बैंकों में शेष	381,97,13	854,09,40
मार्गस्थ प्रेषण	2,54	694,44,37
संपादित/कृत उधार और ऋणदायी बाध्यता	230,92,53	228,18,56
कुल	1781,76,15	1815,57,69

पी. पारिख एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

एफआरएन. 107564डब्ल्यू

अशोक राजागिरी

साझेदार

एम सं. 046070

मुंबई

दिनांक : 26 मई 2012

प्रकाश बक्षी

अध्यक्ष

एच आर खान
निदेशकदीपांकर गुप्ता
निदेशकके. एस. पद्मानाभन
मुख्य महाप्रबंधक
लेखा विभाग
मुंबई : 26 मई 2012एम एल शर्मा
निदेशकपी सतीश
मुख्य महाप्रबंधक एवं सचिव

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

कोलकाता-700012, दिनांक 22 मई 2012

सं. यू.13/12 पीटीएमआर/1/व. रा. चि. आ./11-12--क. रा. बी. निगम की बैठक दिनांक 25.04.1951 में पारित संकल्प के अनुसार निगम की शक्ति क. रा. बी. विनियम (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 105 के अन्तर्गत महानिदेशक में संहित किया गया है तथा मुख्यालय पत्रांक यू. 13/12/13/2005-चित्र 1 पी टी एम आर दिनांक 09.09.2008 के द्वारा महानिदेशक के आदेश से ऐसी शक्तियां एस. एस. एम. सी./एस. एम. सी. को प्रत्यायोजित की गई है। अद्योहस्ताक्षरी ने निर्धारित मानकों के अनुरूप मासिक वेतन पर निम्नलिखित चिकित्सकों को उनके नाम के समक्ष दर्शाए गए तारीख से या जब तक पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी कार्याग्रहण नहीं करते, दोनों में से जो भी पहले हो, निम्नांकित क्षेत्रों के आवंटित केन्द्रों के बीमाकृत व्यक्तियों की चिकित्सा जांच एवं मूल प्रमाण-पत्र के संदिग्ध होने की स्थिति में आगे का प्रमाण-पत्र प्रदान करने के उद्देश्य से चिकित्सा प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया है :--

पी.टी.एम.आर. का नाम	अवधि	केन्द्र का नाम
डॉ. हरेकृष्ण शर्मा	दिनांक 01.01.2012 से दिनांक 31.12.2012 तक या पूर्वकालिक चिकित्सा निर्देशी के पद ग्रहण कराने तक	तिनसुकिया, डिब्रुगढ़, डिगबोई, डूम डूमा, माकुम, मारगरेट्टा, जोईपुर

एस. के. चौधरी
वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त (पू. क्षे.)

**RESERVE BANK OF INDIA
(HUMAN RESOURCE MANAGEMENT DEPARTMENT)**

No. HRMD.CO-249/07-06.01/2012-13—In pursuance of Regulation 18 of the Reserve Bank of India General Regulations, 1949 and in supersession of the Notification No. 1 dated 11th September 1998 published in Government of India Gazette dated February 6, 1999 read with amendment, the Committee of the Central Board of the Bank hereby authorises the incumbents of the undernoted appointments in the Bank to exercise signing powers on behalf of the Bank as shown below :—

I. (i) Principal Chief General Manager, Human Resource Management Department, Chief General Manager-in-Charge, Chief General Manager, General Manager, Deputy General Manager and Assistant General Manager (Administration) in Human Resource Management Department, Department of Expenditure and Budgetary Control, Department of Government and Bank Accounts, Department of External Investment and Operations, Department of Currency Management, Inspection Department, Department of Information Technology, Foreign Exchange Department, Department of Banking Operations and Development, Department of Banking Supervision, Department of Non Banking Supervision, Urban Banks Department, Rural Planning and Credit Department, Secretary's Department, Internal Debt Management Department, Department of Payment and Settlement Systems, Financial Markets Department, Customer Service Department, Department of Communication and Financial Stability Unit in Central Office;

General Manager (Administration) and Assistant General Manager (Administration) in Department of Economic and Policy Research, and Department of Statistics and Information Management in Central Office.

Regional Director, Chief General Manager, General Manager (Officer in-Charge), General Manager (Administration), Deputy General Manager (Administration) and Assistant General Manager (Administration) in any office or branch of the Bank and General Manager, Deputy General Manager and Assistant General Manager (Administration) in Issue Department of any office or branch of the Bank.

To execute lease deeds, transfers and conveyances, charges and other deeds relating to, or affecting rights to or in immovable property, to endorse and transfer promissory notes, stock receipts, stock debentures, shares, securities and documents of title to goods standing in the name of, or held by the Bank, to draw drafts, cheques, to endorse cheques and bills and to draw, accept and endorse bills of exchange and other instruments in the current and authorized business of the Bank and to sign all other accounts, receipts and documents connected with such business and to sign all letters and memoranda emanating from their respective Departments.

(ii) General Manager, Deputy General Manager and Assistant General Manager in any department in any office or branch of the Bank.

To sign receipts and documents in the current and authorized business of the Bank and to sign all letters and memoranda emanating from their respective Departments.

In addition to above :

(iii) Chief General Manager-in-Charge, Chief General Manager, General Manager, Deputy General Manager of Department of Government and Bank Accounts in Central Office are also authorized to :

- a) Sign Agreement with State/Union Territories/Central Government in matters affecting the role of Bank, in relation to these Governments;
- b) Sign Agreement with banks when their services are enlisted as the Bank's agents for conduct of Government work and/or management of Public Debt.

(iv) Chief General Manager, General Manager, Deputy General Manager of Department of Currency Management in Central Office are authorized to sign agreement with banks in connection with opening of currency chests.

II. Principal Adviser or Officer-in-Charge as the case may be and Adviser in Department of Economic and Policy Research in Central Office;

Principal Adviser or Officer-in-Charge as the case may be, Adviser and Director in Department of Statistics and Information Management in Central Office.

Assistant Adviser in Internal Debt Management Department, Director in Financial Institutions Division of Department of Banking Operations and Development and Adviser-in-Charge, Adviser, Director, Deputy General Manager, Assistant General Manager and Assistant Adviser in Monetary Policy Department in Central Office;

Principal Legal Adviser/Legal Adviser-in-Charge, Legal Adviser, Joint Legal Adviser, Deputy Legal Adviser, Assistant Legal Adviser, Deputy General Manager and Assistant General Manager in the Legal Department in Central Office and Deputy Legal Adviser and Assistant Legal Adviser in the Legal Cell in any office or branch of the Bank, Manager (Grade 'B') in the Issue and Banking Departments in any office or branch of the Bank, Treasurer, Cash Department in any office or branch of the Bank, Principal Private Secretary to the Governor in the Secretary's Department in Central Office, Principal, Vice Principal and Assistant General Manager in College of Agricultural Banking, Pune and Reserve Bank Staff College, Chennai.

To execute lease deeds, transfers and conveyances, charges and other deeds relating to, or affecting rights to or in immovable property, to sign receipts and documents connected with the current and authorized business of the Bank and to sign all letters and memoranda emanating from their respective Departments.

III. (i) Assistant Adviser, Assistant General Manager, Manager, Research Officer, and Assistant Manager in Department of Economic and Policy Research and Department of Statistics and Information Management, Assistant Adviser, Assistant General Manager, Manager, Research Officer in Financial Markets Department in Central Office;

Assistant Adviser and Research Officer in Monetary Policy Department and Internal Debt Management Department in Central Office, Legal Officer, Manager and Assistant Manager in Legal Department in Central Office or Legal Officer in any office or branch of the Bank, Private Secretary in grade 'A', 'B' and 'C' in any office or branch of the Bank, Deputy Treasurer and Assistant Treasurer in Cash Department in any office or branch of the Bank, Manager

(Grade 'B') and Assistant Manager (Grade 'A') in any Department in Central Office or any office or branch of the Bank.

To sign receipts in the current and authorized business of the Bank and to sign all letters and memoranda emanating from their respective Departments.

(ii) General Manager, Deputy General Manager and Assistant General Manager in Reserve Bank of India Services Board at Mumbai.

To draw and endorse drafts, cheques, payment orders and to sign receipts and other instruments in the current and authorized business of the Board/Bank and to sign other accounts, receipts, documents and agreements connected with such business and to sign all letters and memoranda emanating from the Board's office.

(iii) Manager and Assistant Manager in Reserve Bank of India Services Board at Mumbai.

To sign receipts in the current and authorised business of the Board and to sign all letters and memoranda emanating from the Board.

(iv) General Manager, Deputy General Manager, Assistant General Manager, Manager and Assistant Manager of Rajbhasha Department in Central Office.

To sign receipts in the current and authorised business of the Bank and to sign all letters and memoranda emanating from the Rajbhasha Department.

In addition to the above :

(v) Assistant General Manager and Manager attached to the Public Debt Office and Deposit Accounts Department in any office or branch of the Bank are also authorized to endorse and transfer promissory notes, stock receipts and stock debentures and to draw drafts, to endorse cheques and bills in the current and authorized business of the Bank and to sign Pay Orders/Payment Orders/Refund Orders.

(vi) Assistant General Manager/Manager attached to Public Accounts Department/ Public Debt Office in any office or branch of the Bank is authorized to sign Treasury Bills if issued in scrip form.

(vii) Assistant Manager attached to the Public Debt Office in any office or branch of the Bank is authorized to sign:

- (i) Government paper issued by the Public Debt Office;
- (ii) Warrants for the payment of interest on Government Securities
- (iii) Letters, advices and receipts emanating from the Public Debt Office.

(viii) Principal Adviser, Adviser or Officer-in-Charge as the case may be in Department of Economic and Policy Research and Department of Statistics and Information Management in Central Office; Adviser-in-Charge, Deputy General Manager and Assistant General Manager in Monetary Policy Department in Central Office, Principal Legal Adviser/Legal Adviser-in-Charge, Deputy General Manager and Assistant General Manager in Legal Department in Central Office; Manager (Grade 'B') in the Issue and Banking Departments in any office or branch of the Bank, Treasurer, Cash Department in any office or branch of the Bank, Principal Private Secretary to the Governor in the Secretary's Department in Central Office, Principal, Vice Principal and Assistant General Manager in College of Agricultural Banking, Pune and Reserve

Bank Staff College, Chennai, Manager and Assistant Manager in any office or branch of the Bank except those attached to the Cash Department of the Bank; and Manager (Administration) and Assistant Manager (Administration) in the Department of Economic and Policy Research and Department of Statistics and Information Management in Central Office are also authorized to draw drafts, cheques, payment orders and to endorse cheques in the current and authorized business of the Bank.

IV (i) Chief General Manager, Chief General Manager/General Manager (Technical), Deputy General Manager(Technical) and Assistant General Manager (Technical) in the Premises Department (in the areas relating to Premises Department, Central Office) and corresponding AGM rank and above officials on the general side attached to/ looking after the interests of Premises/ Estate Department in any office or branch of the Bank where no post of AGM and above in technical cadre is available/filled.

To execute tender documents, lease deeds, transfers and conveyances, mortgage, charges and other deeds relating to or affecting rights to or in immovable property, to endorse and transfer promissory notes, stock receipts, stock debentures, shares, securities and documents of title to goods standing in the name of or held by the Bank and to draw, accept and endorse bills of exchange and other instruments in the current and authorized business of the Bank and to sign all other accounts, receipts and documents connected with such business and to sign all letters and memoranda emanating from the Premises Department.

(ii) Chief General Manager, Chief General Manager/General Manager (Technical), Deputy General Manager(Technical) and Assistant General Manager (Technical) in the Premises Department (in the areas relating to Premises Department, Central Office) and corresponding AGM rank and above officials on the general side attached to/ looking after the interests of Premises/ Estate Department in any office or branch of the Bank where no post of AGM and above in technical cadre is available/filled.

To execute tender documents, lease deeds, transfers and conveyances, mortgage and other deeds relating to or affecting rights to or in immovable property to sign contracts and other documents connected with the current and authorized business of the Bank.

(iii) General Manager (Technical), Deputy General Manager (Technical), Assistant General Manager (Technical), Manager (Technical) and Assistant Manager (Technical) in the Premises Department, Central Office of the Bank and any other office or branch of the Bank:

To sign receipts in the current and authorised business of the Bank and to sign all letters and memoranda emanating from their respective Departments.

(iv) Chief General Manager, General Manager, Deputy General Manager and Assistant General Manager in the Department of Currency Management in Central Office and General Manager, Deputy General Manager attached to the Issue Department in any office or branch of the Bank:

To execute tender documents.

(v) General Manager, Deputy General Manager, Assistant General Manager and Manager (operations) in Department of Information Technology in Central Office:

To execute tender documents and sign Annual Maintenance Agreement.

V. In addition to the power/powers conferred under paragraphs I and II above, the incumbents of the undernoted appointments are also authorized to exercise the following signing powers :

(i) Chief General Manager-in-Charge, Chief General Manager, General Manager, Deputy General Manager and Assistant General Manager in the Foreign Exchange Department in Central Office of the Bank or attached to any other office or branch of the Bank and Regional Directors/General Managers (Officer-in-Charge) of Offices and branches of the Bank who are ex-officio Chief General Managers/General Managers/Deputy General Managers of the Foreign Exchange Department.

Full signing powers in connection with the functions entrusted to or powers conferred on the Bank by or under the provisions of the Foreign Exchange Management Act 1999 (42 of 1999) or any re-enactment thereof and of any rules, regulations, notifications, directions or orders issued in exercise of the powers under the said Act.

(ii) Chief General Manager-in-Charge, Chief General Manager, General Manager, Deputy General Manager and Assistant General Manager in the Department of Banking Supervision in Central office of the Bank or Regional Director/ General Manager-in-Charge attached to any other office or branch of the Bank.

Full signing powers in connection with all matters and proceedings arising out of section 11(3) of Foreign Exchange Management Act 1999 or any re-enactment thereof, with respect to any entity carrying on the business of banking as defined in Banking Regulation Act 1949 and governed by the provisions of parts I to IV of that Act.

(iii) Chief General Manager-in-Charge, Chief General Manager, General Manager, Deputy General Manager, Assistant General Manager in Foreign Exchange Department in Central Office and Regional Director/ General Manager-in-Charge attached to any office or branch of the Bank.

To issue compounding orders under the provision of Rule 4 of Foreign Exchange (Compounding Proceedings) Rules, 2000 dated May 3, 2000, as amended from time to time.

(iv) Manager and Assistant Manager in the Foreign Exchange Department in Central Office and any office or branch of the Bank.

To sign-

- (a) Export Licences
- (b) Forms
- (c) Permits/ Approvals and
- (d) Letters and memoranda emanating from the Foreign Exchange Department

(v) Chief General Manager-in-Charge, Chief General Manager, General Manager, Deputy General Manager, Assistant General Manager and Manager in the Rural Planning and Credit Department in Central Office;

Chief General Manager-in-Charge, Chief General Manager, General Manager, Deputy General Manager, Assistant General Manager and Manager in the Department of Banking Operations and Development, Department of Banking Supervision and Department of Non Banking

Supervision in Central Office and Regional Directors/General Managers(Officers-in-Charge) of Offices and branches of the Bank.

(a) Full signing powers in connection with the functions entrusted to or powers conferred on the Bank by or under the provisions of Sections 17(2)(a), 17(3A), 17(3B), 17(4)(a), 17(4) (c), 17(11A)(b), 18A, 42, 45A to 45N of Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and of any rules, orders or notifications made thereunder and to sign all papers or documents and generally to act on behalf of the Reserve Bank in all matters arising under the said sections.

(b) Full signing powers in connection with the functions entrusted to or powers conferred on the Bank by or under the provisions of Parts I to IV of the Banking Regulations Act 1949 (10 of 1949) and of any rules, orders or notifications made thereunder, to sign complaints under Section 46 of the said Act and to sign all papers or documents and generally to act on behalf of the Reserve Bank in all proceedings in connection with or arising out of such complaints.

(vi) Chief General Manager-in-Charge, Chief General Manager, General Manager, Deputy General Manager, Assistant General Manager and Manager in Department of Payment and Settlement Systems in Central Office and Regional Directors/General Managers (Officers-in-Charge)/General Managers of Offices and branches of the Bank.

Full signing powers in connection with the functions entrusted to or powers conferred on the Bank by or under the provisions of Chapters I to VIII of the Payment and Settlement Systems Act, 2007 (51 of 2007) and of any regulations, orders, directions, guidelines and notifications made thereunder, to sign complaints in respect of offences under the said Act and to sign all papers or documents and generally to act on behalf of the Bank in all proceedings in connection with or arising out of such complaints.

(vii) Chief General Manager-in-Charge, Chief General Manager, General Manager, Deputy General Manager and Assistant General Manager of Department of Banking Operations and Development, Department of Banking Supervision and Rural Planning and Credit Department and Managers of Department of Banking Operations and Development and Department of Banking Supervision in Central Office.

Chief General Manager-in-Charge, Chief General Manager, General Manager, Deputy General Manager and Assistant General Manager of Urban Banks Department in Central Office and any office or branch of the Bank.

To sign letters and communications appointing officers for holding an enquiry and authorizing them to exercise the powers conferred on the Reserve Bank of India under sub-section (3) of section 47A of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949).

(viii) Deputy General Manager, Assistant General Manager and Manager of Department of Banking Operations and Development, Department of Banking Supervision and Rural Planning and Credit Department and Assistant Adviser in Financial Institutions Division of Department of Banking Operations and Development in Central Office.

To sign complaints under Section 46 of Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) to sign all papers or documents in all proceedings in connection with or arising out of such complaints and generally to act on behalf of the Reserve Bank in such proceedings.

(ix) Deputy General Manager, Assistant General Manager and Manager in the Department of Payment and Settlement Systems in Central Office.

To sign complaints under Section 28 of the Payment and Settlement Systems Act, 2007 (51 of 2007), to sign all papers or documents in all proceedings in connection with or arising out of such complaints and generally to act on behalf of the Bank in such proceedings.

(x) Chief General Manager-in-Charge, Chief General Manager, General Manager, Deputy General Manager, Assistant General Manager and Manager in the Department of Banking Operations and Development, Department of Banking Supervision, Rural Planning and Credit Department and Urban Banks Department in Central Office.

To sign the consolidated statement showing the position of the scheduled banks (including Regional Rural Banks, Primary Co-operative Banks and State Co-operatives) referred to in Section 43 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934).

(xi) Chief General Manager-in-Charge, Chief General Manager, General Manager, Deputy General Manager, Assistant General Manager and Manager in the Department of Banking Operations and Development, Department of Banking Supervision, Urban Banks Department and Rural Planning and Credit Department in Central Office.

Chief General Manager-in-Charge, Chief General Manager, General Manager, Deputy General Manager, Assistant General Manager and Manager in the Department of Banking Supervision and Urban Banks Department in Central Office and in offices and branches of the Bank.

To sign letters, communications to banks advising sanction of limits under Sections 17(2)(a), 17(3A), 17(3B), 17(4)(a) and 17(4) (c) of the Reserve Bank of India Act 1934 (2 of 1934), notices demanding penal interest under Section 42(5)(a) *ibid* and collecting/furnishing credit information under Sections 45A to 45F of the Act and other matters incidental thereto.

(xii) Chief General Manager-in-Charge, Chief General Manager, General Manager, Deputy General Manager and Assistant General Manager in the Rural Planning and Credit Department, Central Office

Chief General Manager-in-Charge, Chief General Manager, General Manager, Deputy General Manager and Assistant General Manager in the Urban Banks Department in Central Office and Regional Directors, General Managers (Officers-in-Charge) of offices and branches of the Bank.

Full signing powers in connection with the functions entrusted to or powers conferred on the Bank by or under the provisions of the Banking Regulations Act 1949 (10 of 1949) as applicable to or in relation to Co-operative Societies under Part V of the said Act and of any rules, orders or notifications made thereunder.

To sign complaints under Section 46 of the said Act as applicable to or in relation to co-operative societies under Part V of the said Act and to sign all papers or documents and generally to act on behalf of the Reserve Bank in all proceedings in connection with or arising out of such complaints.

(xiii) Chief General Manager-in-Charge, Chief General Manager, General Manager, Deputy General Manager and Assistant General Manager of the Urban Banks Department in Central Office, Regional Directors, General Managers (Officers-in-Charge) of offices and branches of the Bank.

To sign letters, communications and show cause notices to exercise the powers conferred on the Reserve Bank of India under sub-section (2) of Section 47A of the Banking Regulation Act, 1949.

(xiv) Managers in Rural Planning and Credit Department in Central Office.

Managers in Urban Banks Department in Central Office and offices and branches of the Bank.

To sign complaints under Section 46 of Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) as applicable to or in relation to co-operative societies under Part V of the said Act, to sign all papers or documents in all proceedings in connection with or arising out of such complaints and generally to act on behalf of the Reserve Bank in such proceedings.

(xv) Chief General Manager-in-Charge, Chief General Manager, General Manager, Deputy General Manager and Assistant General Manager in the Rural Planning and Credit Department in Central Office

Chief General Manager-in-Charge, Chief General Manager, General Manager, Deputy General Manager and Assistant General Manager in the Urban Banks Department in Central Office and Regional Directors, General Managers (Officers-in-Charge) of offices and branches of the Bank.

Full signing powers in connection with the functions entrusted to or powers conferred on the Bank by or under the provisions of Sections, 17(2)(a), 17(2)(b), 17(2)(bb), 17(3A), 17(4)(a), 17(4)(c), 17(4)(d), 17(4E), 18 and 17(4AA) read with section 46A as the case may be of the Reserve Bank of India Act 1934 (2 of 1934) and of any rules, orders or notifications made thereunder and to sign all papers or documents and generally to act on behalf of the Reserve Bank in all matters arising under the said sections.

(xvi) General Manager, Deputy General Manager and Assistant General Manager in the Rural Planning and Credit Department in Central Office.

General Manager, Deputy General Manager and Assistant General Manager in the Urban Banks Department in Central Office and offices and branches of the Bank.

To sign letters and communications advising sanction of limits under any of the provisions of Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), notices demanding penal interest under Section 42(5)(a) *ibid* and other matters incidental thereto.

(xvii) Principal Adviser, Officer-in-Charge, Adviser and the Director, Division of International Finance in Department of Economic and Policy Research in Central Office.

Full signing powers in connection with the functions entrusted to or powers conferred on the Bank by or under the provisions of the International Monetary Fund and Bank Act, 1945 and of any orders of requisitions made thereunder ;

To sign complaints under Sections 176 and 177 of the Indian Penal Code in respect of any information required to be furnished under Section 4 of the said Act and to sign all papers or document and generally to act on behalf of the Reserve Bank in all proceedings in connection with or arising of such complaints.

(xviii) Chief General Manager-in-Charge, Chief General Manager, General Manager, Deputy General Manager and Assistant General Manager of the Department of Non-Banking Supervision in Central Office and Regional Directors/General Managers (Officers-in-Charge) at offices and branches of the Bank.

Full signing powers in connection with the functions entrusted to or powers conferred on the Bank by or under the provisions of chapter IIIB of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and under any general or special orders or notifications made or directions given thereunder.

(xix) Chief General Manager-in-Charge, Chief General Manager, General Manager, Deputy General Manager and Assistant General Manager of the Department of Non-Banking Supervision in Central Office and Regional Directors/General Managers (Officers-in-Charge) at offices and branches of the Bank.

To sign complaints under Section 58E of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), to sign all papers or documents in all proceedings in connection with or arising out of such complaints and generally to act on behalf of the Reserve Bank in such proceedings.

(xx) Chief General Manager-in-Charge, Chief General Manager, General Manager, Deputy General Manager, Department of Banking Supervision in Central Office and Regional Directors/General Managers (Officers-in-Charge) of offices and branches of the Bank.

(a) Full signing powers in connection with the functions entrusted to or powers conferred on the Bank by or under the provisions of Section 17(2)(bb), 17 (3B), 17(4)(a),(b) and (c), 17(4A), 17(4B), 17(4BB), 17(4G), 17(4H) and 17(8A) of Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and of any rules, orders, or notifications made thereunder and to sign all papers or documents and generally to act on behalf of the Reserve Bank in all matters arising under the said Sections ;

(b) Full signing powers in connection with the functions entrusted to or powers conferred on the Bank by or under the provisions of the Industrial Finance Corporation Act, 1948 and the State Financial Corporations Act, 1951 and of any rules, orders or notifications made thereunder.

(xxi) Adviser-in-Charge, Adviser, Director, Deputy General Manager, Assistant General Manager of the Monetary Policy Department in Central Office.

Full signing powers in connection with the sanctioning of the refinance and rediscounting limits to scheduled commercial banks and the functions entrusted to or powers conferred on the Bank by or under the provisions of Sections 17(2)(a), 17(3A), 17(3B), 17(4)(a), 17(4)(c) and 17(11A)(b), 42 of Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and any rules, orders or notifications made thereunder and to sign all papers and documents.

(xxii) General Manager, Deputy General Manager and Assistant General Manager in Urban Banks Department in Central Office and offices and branches of the Bank.

To sign letters, notices demanding penal interest under Section 42(5)(a) of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and collecting/ furnishing credit information under sections 45A to 45F of the Act and other matters incidental thereto.

(xxiii) Chief General Manager, General Manager, Director, Deputy General Manager, Assistant Adviser, Manager, Research Officer in Internal Debt Management Department in Central Office.

Full signing powers in connection with functions entrusted to the Bank relating to Internal Debt Management.

(xxiv) Chief General Manager-in-Charge, Chief General Manager, General Manager in Department of Banking Supervision and Department of Non-Banking Supervision in Central Office.

To issue instructions/exercise powers conferred on Reserve Bank of India under Sections 45K, 45L, 45N and other relevant sections of Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934).

(xxv) Chief General Manager, General Manager, Director, Deputy General Manager, Assistant General Manager, Assistant Adviser, Manager, Research Officer in Financial Markets Department in Central Office.

Full signing powers in connection with functions entrusted to the Bank relating to Financial Markets Department.

(xxvi) Chief General Manager, General Manager (Administration), Deputy General Manager, Assistant General Manager, Manager, Assistant Manager in Customer Service Department in Central Office.

To sign all papers or documents and generally to act on behalf of the Reserve Bank in all proceedings in connection with or arising out of complaints.

(xxvii) The Chief General Manager, General Manager, Deputy General Manager, Assistant General Manager and Manager in the Risk Management Department of Central Office and the Regional Director, General Manager-in-Charge, Assistant General Manager and Manager in the Regional Offices and branches of the Bank –

Full signing powers in connection with functions entrusted to the Bank relating to the Risk Management Department.

VI. For the purpose of this notification, expressions used in the singular shall, wherever necessary, include also the plural and vice versa and references to incumbents of any post mentioned above shall be construed also as reference to officials for the time being entrusted with the current duties of such post.

(R. Gandhi)
Executive Director

STATE BANK OF INDIA

Mumbai, the 13th June 2012

A & S No. 1/2012-13—In terms of clause (c), sub-section (1) of Section 25 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act 1959, the State Bank of India hereby nominates Shri Pradip Kumar Sanyal, Dy. General Manager (Associates & Subsidiaries), State Bank of India, A&S Group, Mumbai, as a Director on the Boards of the following Associate Banks with immediate effect vice Shri B. Ramesh Babu :—

- (i) State Bank of Bikaner & Jaipur
- (ii) State Bank of Travancore

PRATIP CHAUDHURI
Chairman

NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

Mumbai-400009, the 23rd July 2012

No. GSR/3/4/45/12—In pursuance of Section 48(5) of the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981 (61 of 1981), the Balance Sheet of the National Bank for Agriculture and Rural Development as at 31 March 2012, the Profit and Loss Account for the year ended 31 March 2012 (April 2011—March 2012) and the Report of the Auditors for the year are published herewith.

P. SATISH

Chief General Manager & Secretary

P. Parikh & Associates

Chartered Accountants

AUDITORS' REPORT

We have audited the attached Balance Sheet of **NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT** (the 'Bank') as at March 31, 2012 and the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement for the year ended on that date annexed thereto in which are incorporated the returns of **11** Regional Offices and **1** Training Centre audited by us. These Offices and Training Centre have been selected in consultation with the Bank in terms of notification no.FNo.1/14/2004-BOA dated January 23, 2012 issued by Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services. Also incorporated in the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement are the returns from **18** Regional Offices and **2** Training Centres which have not been subjected to audit. These unaudited offices account for **26.18%** of advances (includes deemed advances as per Note B-14(c) of Schedule 18), **0.38%** of deposits and term money borrowings, **24.85%** of interest income (includes interest on 'deemed advances' as per Note B-14(b) of Schedule 18) and **0.34%** of interest expenses. These financial statements are the responsibility of the Bank's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management as well as evaluating the overall financial statements presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion. Subject to the limitations of the audit mentioned in paragraph 1 above, we report that:

- a. We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;
- b. In our opinion, the transactions of the Bank which have come to our notice have been within the powers of the Bank;
- c. The returns received from the Regional Offices and Training Centres of the Banks have been found adequate for the purpose of our audit;
- d. The Balance Sheet and Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Schedule 'A' and Schedule 'B' of Chapter IV of the National Bank for Agriculture and Rural Development (Additional) General Regulations, 1984;
- e. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given and as shown by the books of the Bank:
 - i. the Balance Sheet, read with Significant Accounting Policies and notes on accounts contain all necessary particulars and is properly drawn up in conformity with the accounting principles generally accepted in India so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at March 31, 2012; and
 - ii. the Profit and Loss Account, read with Significant Accounting Policies and notes on accounts, shows a true balance of the 'profit' for the year ended on that date and is in conformity with accounting principles generally accepted in India; and
 - iii. the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows of the Bank for the year ended on that date.

Place: Mumbai
Date: May 26, 2012

For and on behalf of
P. Parikh & Associates
Chartered Accountants
Firm Registration No. 107564W

Ashok Rajagiri
Partner,
Membership No.: 046070

**NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
BALANCE SHEET AS ON 31 MARCH 2012**

(₹ in thousands)

Sr. No.	FUNDS AND LIABILITIES	SCHEDULE	As on 31.03.2012	As on 31.03.2011
1	Capital		3000,00,00	2000,00,00
2	Reserve Fund and other Reserves	1	13407,68,56	11862,72,33
3	National Rural Credit Funds	2	16058,00,00	16045,00,00
4	Funds out of grants received from International Agencies	3	139,20,78	138,89,56
5	Gifts, Grants, Donations and Benefactions	4	657,92,20	2601,89,23
6	Other Funds	5	4157,12,25	3431,47,40
7	Deposits	6	95397,75,23	82776,67,53
8	Bonds and Debentures	7	38583,86,29	26788,21,49
9	Borrowings	8	4328,48,40	7681,29,10
10	Current Liabilities and Provisions	9	6345,16,85	5546,09,80
	Total		182075,20,56	158872,26,44
	Forward Foreign Exchange Contracts (Hedging) as per contra		632,33,09	592,09,63

(₹ in thousands)

Sr. No.	PROPERTY AND ASSETS	SCHEDULE	As on 31.03.2012	As on 31.03.2011
1	Cash and Bank Balances	10	8544,37,38	10765,26,79
2	Investments	11	18209,82,72	19329,50,93
3	Advances	12	152625,95,23	126027,99,95
4	Fixed Assets	13	225,05,62	229,48,63
5	Other Assets	14	2469,99,61	2520,00,14
	Total		182075,20,56	158872,26,44
	Forward Foreign Exchange Contracts (Hedging) as per contra		632,33,09	592,09,63
	Commitment and Contingent Liabilities	17		
	Significant Accounting Policies and Notes on Accounts	18		

Schedules referred to above form an integral part of accounts

As per our attached report of even date
P. Parikh & Associates
Chartered Accountants
FRN . 107564W

Ashok Rajagiri
Partner
M No.046070
Mumbai
Date : 26 May 2012

K. S. Padmanabhan
Chief General Manager
Accounts Department
Mumbai : 26 May 2012

Prakash Bakshi
Chairman

H R Khan
Director

Dipankar Gupta
Director

M L Sharma
Director

P. Satish
Chief General Manager & Secretary

**NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2012**

(₹ in thousands)

Sr.No.	INCOME	SCHEDULE	2011-12	2010-11
1	Interest received on Loans and Advances		9511,97,11	8169,13,99
2	Income from Investment Operations / Deposits (Refer Note B-4 of Schedule 18)		1346,02,32	943,23,85
3	Other Receipts (Refer Note B-6 of Schedule 18)		120,50,51	89,63,23
	Total "A"		10978,49,94	9202,01,07

(₹ in thousands)

Sr.No.	EXPENDITURE	SCHEDULE	2011-12	2010-11
1	Interest and Financial Charges (Refer Note B-5 of Schedule 18)	18	7534,01,97	6193,86,85
2	Establishment and Other Expenses	18 A	1027,10,81	1126,09,88
3	Provision	18 B	144,18,23	35,60,34
4	Depreciation		21,22,00	22,57,98
	Total "B"		8726,53,01	7378,15,05
5	Profit before Tax (A - B)		2251,96,93	1823,86,02
6	Provision for:			
	a) Income Tax		455,00,00	460,00,00
	b) Deferred Tax Asset (Refer Note B-13 of Schedule 18)		162,00,00	84,65,00
7	Profit after Tax		1634,96,93	1279,21,02
	Significant Accounting Policies and Notes on Accounts	18		

Schedules referred to above form an integral part of accounts

PROFIT AND LOSS APPROPRIATION ACCOUNT

(₹ in thousands)

Sr.No.	APPROPRIATIONS / WITHDRAWALS	2011-12	2010-11
1	Profit for the year brought down	1634,96,93	1279,21,02
2	Add:		
	Withdrawals from funds against expenditure debited to Profit & Loss A/c		
	a) Co-operative Development Fund (Refer Schedule 1)	5,35,40	6,05,32
	b) Research and Development Fund (Refer Schedule 1)	20,65,30	17,67,49
	c) Watershed Development Fund (Refer Schedule 5)	0	1,01,14
	d) Micro-Finance Development and Equity Fund (Refer Schedule 5)	10,61,32	11,40,75
	e) Investment Fluctuation Reserve (Refer Schedule 1)	29,94,42	2,07,65
	f) Farm Innovation & Promotion Fund	2,73,85	2,39,20
2.1	Withdrawals of Funds which have been closed		
	i) Foreign Currency Risk Fund	0	147,06,04
	ii) Soft Loan Assistance Fund for Margin Money	0	10,00,00
	iii) Agriculture & Rural Enterprise Incubation Fund	0	5,00,00
3	Profit available for Appropriation	1704,27,22	1481,88,61
	Less: Transferred to:		
	a) Special Reserves u/s 36(1) (vii) of IT Act, 1981	310,00,00	380,00,00
	b) National Rural Credit (Long Term Operations) Fund	10,00,00	50,00,00
	c) National Rural Credit (Stabilisation) Fund	1,00,00	10,00,00
	d) Co-operative Development Fund	5,35,40	6,05,32
	e) Research and Development Fund	20,65,30	17,67,49
	f) Investment Fluctuation Reserve (Refer Schedule 1)	27,15,42	116,07,65
	g) Farmers Technology Transfer Fund	44,56,36	33,55,54
	h) Farm Innovation & Promotion Fund (Refer Schedule 1)	2,73,85	2,34,20
	i) Producers' Organizations Development Fund	0	50,00,00
	j) Rural Infrastructure Promotion Fund	0	25,00,00
	k) Financial Inclusion Technology Fund	45,00,00	10,00,00
	l) Reserve Fund	1237,80,89	801,18,41
	Total	1704,27,22	1481,88,61

Refer Schedule 18 for Significant Accounting Policies and Notes on Accounts.

As per our attached report of even date

P. Parikh & Associates

Chartered Accountants

FRN: 107564W

Ashok Rajagiri

Partner

M No. 046070

Mumbai, Date: 26 May 2012

Prakash Bakshi

Chairman

H.R. Khan

Director

Dipankar Gupta

Director

K. S. Padmanabhan

Chief General Manager

Accounts Department

Mumbai, 26 May 2012

M.L. Sharma

Director

P. Satish
Chief General Manager & Secretary

SCHEDULES TO BALANCE SHEET
Schedule 1 - Reserve Fund and Other Reserves

(₹ in thousands)

Sr. No.	Particulars	Opening Balance as on 01.04.2011	Exp./Add./ Adjust. during the year	Transferred From P&L Appropriation	Transferred to P&L Appropriation	Balance as on 31.03.2012
1	Reserve Fund	6703,91,80	0	1237,80,89	0	7941,72,69
2	Research and Development Fund	50,00,00	0	20,65,30	20,65,30	50,00,00
3	Capital Reserve	74,80,53	0	0	0	74,80,53
4	Investment Fluctuation Reserve	259,00,00	0	27,15,42	29,94,42	256,21,00
5	Co-operative Development Fund	125,00,00	0	5,35,40	5,35,40	125,00,00
6	Special Reserves Created & Maintained u/s 36(1)(viii) of Income Tax Act, 1961	4445,00,00	0	310,00,00	0	4755,00,00
7	Producers' Organizations Development Fund	50,00,00	1,64	0	0	49,98,36
8	Rural Infrastructure Promotion Fund	25,00,00	4,01	0	0	24,95,99
9	MFDEF - Reserve Fund	80,00,00	0	0	0	80,00,00
10	Farm Innovation & Promotion Fund	50,00,00	0	2,73,85	2,73,85	50,00,00
	Total	11862,72,33	-5,65	1603,70,86	58,68,97	13407,68,57
	Previous year	10674,59,96	5,00	1378,33,07	190,25,70	11862,72,33

Schedule 2 - National Rural Credit Funds

(₹ in thousands)

Sr. No.	Particulars	Opening Balance as on 01.04.2011	Contribution by RBI	Transferred from P&L Appropriation	Balance as on 31.03.2012
1	National Rural Credit (Long Term Operations) Fund	14468,00,00	1,00,00	10,00,00	14479,00,00
2	National Rural Credit (Stabilisation) Fund	1577,00,00	1,00,00	1,00,00	1579,00,00
	Total	16045,00,00	2,00,00	11,00,00	16058,00,00
	Previous year	15983,00,00	2,00,00	60,00,00	16045,00,00

Schedule 3 - Funds Out of Grants received from International Agencies

(₹ in thousands)

Sr. No.	Particulars	Opening Balance as on 01.04.2011	Grants received/ adjusted during the year	Interest Credited to this fund	Exp./Disb./ Adjust. during the year	Balance as on 31.03.2012
1	National Bank - Swiss Development Coop. Project	55,61,77	0	0	0	55,61,77
2	Rural Innovation Fund (RIF) (Refer Note B-2 & B-10 of Schedule 18)	73,16,38	0	4,66,84	-10,24,81	67,58,41
3	Rural Promotion Fund (Refer Note B-2 & B-10 of Schedule 18)	9,19,49	63,10	5,45	0	9,88,05
4	KfW - NABARD V Fund for Adivasi Programme	91,92	5,23,64	0	3,00	6,12,55
	Total	138,89,56	5,86,74	4,72,29	10,27,81	139,20,78
	Previous year	149,87,64	16,39,37	4,15,31	31,52,76	138,89,56

Schedule 4 - Gifts, Grants, Donations and Benefactions

(₹ in thousands)

Sr. No.	Particulars	Opening Balance as on 01.04.2011	Grant received during the year	Interest Credited to the fund	Adjusted against the expenditure	Balance as on 31.03.2012
A. Grants from International Agencies						
1	KfW - NB - IX Adivasi Development Programme - Maharashtra (Refer Note B-10 of Schedule 18)	78.42	4,41.18	8.72	3,52.00	1,76.33
2	KfW UPNRM - Accompanying Measures	16.88	3,28.48	1.00	3,16.21	30.15
3	KfW NB UPNRM - Financial Contribution	81.00	28.29	0	16.09	93.19
4	KfW UPNRM - Risk Mitigation Fund	11.74	1,24.17	0	0	1,35.91
5	International Fund for Agriculture Development (IFAD) Priyadarshini (Refer Note B-11 of Schedule 18)	4,66.44	0	0	4,66.44	0
6	GIZ - Uttarakhand Regional Economic Development	86.39	0	0	86.39	0
7	KfW NB-Indo German Watershed Development Programme - Phase III - Maharashtra (Refer Note B-10 & B-11 of Schedule 18)	2.32	18,79.53	4.81	18,86.67	0
8	Indo German Watershed Development Programme - Andhra Pradesh (Refer Note B-10 & B-11 of Schedule 18)	73	7,86.68	25	7,87.67	0
9	Indo German Watershed Development Programme - Gujarat (Refer Note B-10 & B-11 of Schedule 18)	15	5,53.18	2.94	5,56.25	0
10	Indo German Watershed Development Programme - Rajasthan (Refer Note B-10 & B-11 of Schedule 18)	0	3,23.66	67	3,24.33	0
11	KfW Umbrella Programme on Natural Resource Management Fund (Refer Note B-3 of Schedule 18)	9,20.51	2,73.36	0	2,16.46	9,77.42
12	NABARD Grant for Fixed Assets under NB-SDC HID Project	6.60	0	0	6.60	0
13	GIZ-NABARD RFP - Financial Component	1.00	0	0	1.00	0
14	NE Council Fund for Miscellaneous Training Programme (Refer Note B-11 of Schedule 18)	1.79	0	0	1.79	0
15	KfW NB SEWA Bank Capitalisation of Rural Financial Institutions (RFIs)	2.66	2,94.83	0	2,97.49	0
16	GIZ Rural Financial Institutions Program (RFIP)	58.00	76.86	0	36.56	98.31
17	GIZ UPNRM Technical Collaboration	39.21	51.40	0	63.50	27.11
18	United Nation Development Programme (UNDP) - NABARD Financial Inclusion Fund	1,09.74	1,56.48	0	46.74	0
B. Government Subsidy Schemes						
1	Capital Investment Subsidy for Cold Storage Projects - NHB	19,18.67	11,35.46	0	26,63.82	3,90.32
2	Capital Subsidy for Cold Storage NHM	9.66	0	0	0	9.66
3	Capital Subsidy for Cold Storage TM North East	4,37.96	1,65.03	0	6,02.99	0
4	Credit Linked Capital Subsidy for Technology Upgradation of SSIs	6.23	4,89.64	0	4,95.87	0
5	Capital Investment Subsidy for Rural Godowns	39,38.94	121,00.00	0	148,68.54	11,70.39
6	Million Shallow Tubewell Programme - Bihar	2,63.15	0	0	2,63.15	0
7	Bihar Ground Water Irrigation Scheme (BIGWIS)	182,89.03	2,39.65	0	34,78.22	150,50.47
8	Cattle Development Prog. - Uttar Pradesh (Refer Note B-10 of Schedule 18)	26.61	0	1.68	26.60	1.69
9	Cattle Development Programme - Bihar (Refer Note B-10 of Schedule 18)	99.46	1,71.40	6.19	99.46	1,77.59
10	National Project on Organic Farming	6.22	1,50.00	0	1,08.52	47.71
11	Integrated Watershed Development Programme - Rashtriya Sam Vikas Yojana	14,22.55	10,58.00	0	17,74.18	7,06.37
12	Centrally Sponsored Scheme on Integrated Development of Small Ruminants and Rabbits	3,44.55	4,00.00	0	7,14.53	30.02

Schedule 4 - Gifts, Grants, Donations and Benefactions

(₹ in thousands)

Sr. No.	Particulars	Opening Balance as on 01-04-2011	Grant received during the year	Interest Credited to the fund	Adjusted against the expenditure	Balance as on 31-03-2012
13	Rain-Water Harvesting Scheme	89.93	-89.93	0	0	0
14	Kutch Drought Proofing Project	39.35	0	0	17.38	21.96
15	Dairy and Poultry Venture Capital Fund	12,27.65	0	0	5,00.36	17,28.00
16	Poultry Venture Capital Fund	5,61.71	0	0	3,79.11	1,82.60
17	Poultry Venture Capital Fund (Subsidy)	0	5,00.00	0	4,14.73	85.27
18	Capital Subsidy for Agriculture Marketing Infrastructure, Grading and Standardisation	20,65.63	149,25.88	0	166,79.31	3,12.19
19	Centrally Sponsored Scheme for establishing Poultry Estate	5,97.03	2,28.12	0	0	8,25.15
20	Livelihood Advancement Business School - Sultanpur, Uttar Pradesh	2.16	48.73	0	50.90	0
21	Livelihood Advancement Business School - Rae - Bareilly, Uttar Pradesh	54.47	0	0	54.47	0
22	Multi Activity Approach for Poverty Alleviation - Sultanpur, Uttar Pradesh (Refer Note B-10 of Schedule 18)	51.14	0	3.36	0	54.49
23	Multi Activity Approach for Poverty Alleviation - BAIF - Rae Bareilly, Uttar Pradesh (Refer Note B-10 of Schedule 18)	1,37.01	0	2.66	1,25.93	13.95
24	CCS - on Pig Development	1.58	6,37.00	0	5,81.75	56.83
25	Dairy Entrepreneurship development Scheme	10,45.52	110,00.00	0	100,75.18	19,70.34
26	CCS - S & R Male Buffalo calves	1,92.00	0	0	1,92.00	0
27	CSS - JNN Solar Mission	31,39.19	29,60.00	0	41,69.88	19,29.30
28	CSS - JNNM - Solar Lighting	0	46,80.00	0	0	46,80.00
29	CSS - on Rural Slaughter Houses	9.92	0	0	0	9.92
30	Capital Subsidy Scheme - Agri Clinics Agri Business Centres	1,59.61	6,00.00	0	5,69.82	1,89.79
31	Artificial Recharge of Groundwater in Hard Rock Area	1256,04.04	0	0	1232,17.58	23,86.46
32	Agriculture Debt Waiver and Debt Relief Scheme (ADWDR) 2008	419,85.25	35,69.00	0	263,64.41	191,89.84
33	Women's Self Help Groups (SHGs) Development Fund	0	100,00.00	0	0	100,00.00
C. Interest Relief / Subvention						
1	Interest Subvention (Sugar Term Loan)	19.64	30,00.00	0	30,08.33	11.31
2	Scheme for providing Financial Assistance to Sugar Undertakings - 2007 (SEFASU - 2007)	134,82.85	0	0	134,37.52	45.33
D. Revival Package of Short Term Cooperative Credit Structure						
1	Cost of Special Audit	10,49.15	0	0	10,49.15	0
2	Recapitalisation Assistance to Credit Cooperative Societies	340,64.24	88.78	0	341,53.03	0
3	Technical Assistance	13,90.73	0	0	13,30.17	60.57
4	Human Resources Development	9,10.27	1,59.00	0	10,68.71	56
5	Implementation Cost	18,82.00	15,21.22	0	34,15.83	-12.62
E. Revival Package for Long Term Co-operative Credit Structure (LTCCS)						
		20,00.00	0	0	0	20,00.00
F. Revival, Reform and Restructuring of Handloom Sector						
1	Implementation Cost (RRR) - Handloom Package	0	5,00.00	0	66.58	4,33.42
2	Expenditure on Loss Assessment (RRR) - Handloom Package	0	5,00.00	0	5.10	4,94.90
Total		2601,89.22	760,55.08	32.48	2704,84.58	657,92.20
Previous year		4706,76.57	2988,77.26	69.91	5094,34.52	2601,89.22

Schedule 5 - Other Funds

(₹ in thousands)

Sr. No.	Particulars	Opening Balance as on 01.04.2011	Additions/Adjustments during the year	Transferred from P & L Appropriation	Interest Credited	Expenditure/Disb during the year	Transferred to P&L Appropriation	Balance as on 31.03.2012
1	Watershed Development Fund	1897,68,75	0	0	109,46,03	201,12,19	0	1806,02,59
2	Micro Finance Development and Equity Fund (Refer Note B-10 of Schedule 18)	139,11,97	0	0	8,34,03	18,07,11	10,61,32	118,77,57
3	Interest Differential Fund- (Forex-Risk)	157,69,73	12,56,28	0	0	0	0	170,26,01
4	Interest Differential Fund- (Jawa)	10,00	0	0	0	0	0	10,00
5	Adivasi Development Fund	5,30,31	32,86	0	0	5	0	5,63,12
6	Tribal Development Fund	1054,50,93	1003,84,89	0	0	157,11,49	0	1901,24,33
7	Financial Inclusion Fund (Refer Note B-10 of Schedule 18)	53,10,64	16,27,02	0	3,44,96	18,89,93	0	53,92,69
8	Financial Inclusion Technology Fund (Refer Note B-10 of Schedule 18)	22,95,08	60,07,76	45,00,00	52,36	128,39,26	0	15,94
9	Farmers Technology Transfer Fund	101,00,00	0	44,56,36	0	44,56,36	0	101,00,00
Total		3431,47,41	1093,08,81	89,56,36	121,77,38	568,16,39	10,61,32	4157,12,25
Previous year		2735,06,35	930,89,89	43,55,54	101,05,25	366,67,55	12,41,88	3431,47,41

Schedule 6 - Deposits

(₹ in thousands)

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2012	As on 31.03.2011
1	Central Government	0	0
2	State Governments	0	0
3	Others		
a)	Tea/Rubber / Coffee Deposits	284,04,01	228,29,61
b)	Term Deposits	7,00,00	48,46,15
c)	Commercial Banks (Deposits under RIDF)	75106,71,22	67877,63,52
d)	Short Term Cooperative Rural Credit Fund	20000,00,00	14622,28,25
Total		95397,75,23	82776,67,53

Schedule 7 - Bonds and Debentures

(₹ in thousands)

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2012	As on 31.03.2011
1	SLI Bonds	0	98,99,70
2	Non Priority Sector Bonds	33577,90,00	21682,50,00
3	Capital Gains Bonds	6,77,20	7,52,70
4	Bhavishya Nirman Bonds	4975,19,52	4975,19,52
5	NABARD Rural Bond	23,99,57	23,99,57
Total		38583,86,29	26788,21,49

Schedule 8 - Borrowings

(₹ in thousands)

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2012	As on 31.03.2011
1	Central Government	84,80,09	123,97,71
2	Jawaharlal Nehru National Solar Mission	32,82,00	0
3	Others :		
	(A) In India		
	(i) Certificate of Deposits	1281,00,69	136,86,14
	(ii) Commercial Paper	2245,26,97	6447,64,81
	(iii) Term Money Borrowings	181,81,00	110,18,00
	(iv) Borrowing against STD	0	360,00,00
	(B) Outside India		
	(i) International Agencies	502,77,65	502,64,44
	Total	4328,48,40	7681,29,10

Schedule 9 - Current Liabilities and Provisions

(₹ in thousands)

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2012	As on 31.03.2011
1	Interest / Discount Accrued	4905,56,26	3527,97,31
2	Sundry Creditors	370,76,97	401,73,28
3	Subsidy Reserve (Co-finance, Cold Storage)	1,15,23	93,89
4	Subsidy Reserve - CSAMI under RIDF	2,27,06	1,45,00
5	Provision for Gratuity (Refer Note B-21 of Schedule 18)	0	17,44,81
6	Provision for Pension (Refer Note B-21 of Schedule 18)	245,62,63	934,44,01
7	Provision for Encashment of Ordinary Leave (Refer Note B-21 of Schedule 18)	15,89,20	5,07,12
8	Unclaimed Interest on Bonds	2,01,28	3,90,27
9	Unclaimed Interest on Term Deposits	71	41,96
10	Term Deposits Matured but not claimed	8,32,11	5,48,20
11	Bonds matured but not claimed	5,82,48	20,06,38
12	Application money received pending allotment of Bonds	44	50
13	Provisions and Contingencies		
	(a) Amortisation in Value of Investment a/c - G Sec.	30,62,12	0
	(b) For Standard Assets	673,31,00	594,57,00
	(c) Depreciation in value of investments - equity	3,19,22	3,36,93
	(d) Countercyclical Provisioning Buffer	25,51,00	25,51,00
	(e) Sacrifice in interest element of restructured loans (Refer Note 29.6 of Schedule 18)	51,37,00	0
	(f) Provision for Other Assets & Receivables	3,72,14	3,72,14
	Total	6345,16,85	5546,09,80

Schedule 10 - Cash and Bank Balances

(₹ in thousands)

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2012	As on 31.03.2011
1	Cash in hand	9	7
2	Balances with :		
	A) Reserve Bank of India	1168,79,91	38,85,26
	B) Others		
	(I) Other Banks in India		
	a) In Current Account	379,62,31	801,32,40
	b) Deposit with Banks	6765,00,00	9002,46,14
	(i) Remittances in Transit	2,54	694,44,37
	(II) Collateralised Borrowing and Lending Obligations	230,92,53	228,18,56
	(II) Outside India	0	0
	Total	8544,37,38	10765,26,80

Schedule 11-Investment

(₹ in thousands)

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2012	As on 31.03.2011
1	Government Securities		
	a) Securities of Central Government	2146,81,84	2548,31,03
	[Face Value ₹2174,08,20,000 (₹2599,65,70,000)]		
	[Market Value ₹2105,40,99,310 (₹1971,99,03,930)]		
	b) Treasury Bills	58,28,37	0
2	Other Approved Securities	0	0
3	Equity Shares In:		
	(a) Agricultural Finance Corporation Ltd.	1,00,00	1,00,00
	[1,000 (1,000) - Equity shares of ₹10,000 each]		
	(b) Small Industries Development Bank of India	48,00,00	48,00,00
	[1,60,00,000 (1,60,00,000) - Equity shares of ₹10 each]		
	(c) Agriculture Insurance Company of India Ltd.	60,00,00	60,00,00
	[6,00,00,000 (6,00,00,000) - Equity shares of ₹10 each]		
	(d) Multi Commodity Exchange of India Ltd.	1,25,00	1,25,00
	[15,62,500 (15,62,500) - Equity shares of ₹10 each]		
	(e) National Commodity and Derivatives Exchange Ltd.	16,87,50	16,87,50
	[56,25,000 (56,25,000) - Equity shares of ₹10 each]		
	(f) Universal Commodity Exchange Ltd. (UCX)	16,00,00	0
	[1,60,00,000 (NIL) Shares of ₹10 each]		
	(g) Other Equity Investments		
	(i) Coal India Ltd. ₹ 42,60,305		
	(ii) Power Grid Corporation of India Ltd. ₹ 25,73,280		
	(iii) Mangnese Ore India Ltd. ₹ 43,94,625		
	(iv) Punjab & Sindh Bank ₹ 9,54,960	1,21,83	1,21,83
4	Debentures and Bonds		
	(i) Special Development Debentures of SOARDBs (Refer Note B-16 of Schedule 18)	12343,53,09	13461,16,56
	(ii) Non Convertible Debentures	375,01,62	225,00,00
5	Shareholding in subsidiaries and Joint Venture		
	(i) NABARD Financial Services Ltd, Karnataka ₹ 25,96,82,000		
	[2,59,68,200 (84,00,000) - Equity shares of ₹10 each]		
	(ii) Agri - Business Finance (Andhra Pradesh) Ltd. ₹ 5,20,00,000		
	[52,00,000 (52,00,000) - Equity shares of ₹10 each]		
	(iii) Agri Development Finance (Tamil Nadu) Ltd. ₹ 5,20,00,000	36,36,82	18,80,00
	[52,00,000 (52,00,000) - Equity shares of ₹10 each]		
	(iv) NABARD Consultancy Services Pvt. Ltd.	5,00,00	5,00,00
	[50,00,000 (50,00,000) - Equity shares of ₹10 each]		
6	Others		
	(i) Commercial Paper		
	[Face Value ₹1115,00,00,000 (₹1950,50,00,000)]	1036,60,64	1861,99,91
	(ii) Certificate of Deposit		
	[Face Value ₹2125 crore (₹700 crore)]	2037,93,74	680,42,26
	(iii) Units of Liquid Mutual Funds	0	390,11,34
	(iv) SEAF - Indian Agri - Business	2,07,59	37,50
	(v) APIDC - Ventureast Life Fund III	5,85,45	4,98,00
	(vi) BVF (Bio-Tech Venture Fund) - APIDC-V Investment	4,98,35	5,00,00
	[49835.46 (50,000) Class A Units of ₹1,000 each]		
	(vii) Tata Capital Innovation Fund	13,00,88	0
	Total	18209,82,72	19329,50,93

Schedule 12 - Advances

(₹ in thousands)

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2012	As on 31.03.2011
Refinance Loans			
a)	Production & Marketing Credit	48337,74,51	33884,82,33
b)	Conversion Loans for Production Credit	128,81,10	193,21,67
c)	Other Investment Credit		
i)	Medium Term and Long Term Project Loans (Refer Note B-18 of Schedule 18)	30761,75,91	25435,26,23
ii)	Interim Finance	1,60,00	0
iii)	Direct refinance to DCCBs	910,34,00	0
iv)	Loans out of RIDF warehousing infrastructure	759,09,58	0
v)	JNN Solar Mission	30,32,29	0
Direct Loans			
a)	Loans under Rural Infrastructure Development Fund	70860,30,56	66677,95,22
b)	Long Term Non-Project Loans	140,06,20	167,20,31
c)	Loans under NABARD Infrastructure Development Assistance (NIDA)	422,90,33	0
d)	Loans under Producers' Organization Development Fund (PODF)	7,41,32	0
e)	Other Loans out of:		
i)	Co-operative Development Fund	2,61,43	3,11,68
ii)	Micro Finance Development Equity Fund	72,91,49	89,23,20
iii)	Watershed Development Fund	36,25,01	32,09,56
iv)	Tribal Development Fund	7,02,99	3,47,16
v)	KW UPNRM Fund	71,22,51	53,11,82
vi)	Farm Innovation & Promotion Fund	32,39	40,75
vii)	NFS Promotional Activities Fund	2,85,94	50,00
viii)	Farmers Technology Transfer Fund	2,17	0
f)	Co-Finance Loans (Net of provision)	72,35,50	67,56,72
Total		152625,95,23	126027,99,95

Schedule 13 - Fixed Assets

(₹ in thousands)

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2012	As on 31.03.2011
1	LAND - Freehold & Leasehold (Refer Note B-15 of Schedule 18)		
	Opening Balance	148,08,29	146,12,13
	Additions/adjustments during the year	-51,23	1,96,18
	Closing Balance (at cost)	147,57,06	148,08,29
	Less: Amortisation of Lease Premia	42,04,17	40,59,65
	Book Value	105,52,89	107,48,64
2	PREMISES (Refer Note B-15 of Schedule 18)		
	Opening Balance	263,42,46	259,08,11
	Additions/adjustments during the year	2,41,99	3,34,65
	Closing Balance (at cost)	265,84,45	263,42,46
	Less: Depreciation to date	164,28,77	156,83,58
	Book Value	101,55,68	107,08,88
3	FURNITURE & FIXTURES		
	Opening Balance	58,54,15	57,24,47
	Additions/adjustments during the year	9,24	1,43,28
	Sub-Total	58,63,39	58,67,70
	Less: Cost of assets sold/written off	33,15	13,56
	Closing Balance (at cost)	58,30,24	58,54,15
	Less: Depreciation to date	56,54,82	55,77,96
	Book Value	1,75,42	2,76,19
4	COMPUTER INSTALLATIONS & OFFICE EQUIPMENTS		
	Opening Balance	72,99,45	68,23,70
	Additions/adjustments during the year	11,72,44	3,13,16
	Sub-Total	84,71,89	71,36,86
	Less: Cost of assets sold/written off	2,10,14	1,66,53
	Closing Balance (at cost)	82,61,75	72,50,45
	Less: Depreciation to date	70,07,77	62,66,28
	Book Value	12,53,98	10,31,17
5	VEHICLES		
	Opening Balance	4,43,30	4,39,48
	Additions/adjustments during the year	4,44,55	1,63,09
	Sub-Total	8,87,85	6,02,57
	Less: Cost of assets sold/written off	2,57,52	1,59,27
	Closing Balance (at cost)	6,30,33	4,43,30
	Less: Depreciation to date	2,62,68	2,59,55
	Book Value	3,67,65	1,83,75
Total		225,05,62	229,48,63

Note: Refer note A-12.6 & B-19 of Schedule 18 for change in capitalization policy.

Schedule 14 - Other Assets

(₹ in thousands)

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2012	As on 31.03.2011
1	Accrued Interest	1804,09,10	1815,75,35
2	Deposits with Landlords	1,39,26	1,48,04
3	Deposits with Government Departments and Other Institutions	3,15,19	2,97,86
4	Housing loan to staff	164,74,61	140,22,37
5	Other Advances to staff	77,03,84	65,08,79
6	Advances to Landlords	3,27	1,03
7	Capital Work in Progress (Purchase of Staff Quarters & Office Premises)	70,75,72	51,48,84
8	Sundry Advances	51,49,02	38,58,47
9	Advance Tax (Net of Provision for Income Tax)	102,55,89	130,80,93
10	Deferred Tax Assets (Refer Note B-13 of Schedule 18)	71,15,00	233,15,00
11	Expenditure recoverable from Government of India/International Agencies	28,75,78	5,35,57
12	Discount Receivable	94,82,93	35,07,89
	Total	2469,99,61	2520,00,14

Schedule 15 - Interest and Financial Charges

(₹ in thousands)

Sr. No.	Particulars	2011-12	2010-11
1	Interest Paid on		
a)	Deposits under RIDF	4078,35,01	3714,32,70
b)	Short Term Cooperative Rural Credit Fund	376,74,20	259,76,37
c)	Term Deposits	2,68,39	22,78,08
d)	Tea / Coffee / Rubber Deposits	16,84,86	10,86,63
e)	CBS Deposits	50,39	0
f)	Deposits / Borrowings	0	3
g)	Loans from Central Government	7,27,66	10,21,19
h)	Bonds (Refer Note B-5 of Schedule 18)	2420,01,48	1680,25,58
i)	Commercial Paper (Refer Note B-5 of Schedule 18)	372,08,50	247,82,46
j)	Term Money Borrowings	14,74,67	21,06,65
k)	Borrowing against ST Deposit	2,65,85	31,11,00
l)	Discount Cost Paid on Certificate of Deposits	37,53,31	6,29,72
m)	Corporate Borrowings from Banks and FIs in India	0	21,35,58
n)	Borrowings from International Agencies	20,85,03	22,58,86
o)	Watershed Development Fund	109,46,03	81,25,55
p)	Micro Finance Development and Equity Fund	8,34,03	11,29,46
q)	Rural Innovation Fund	4,66,84	4,14,13
r)	Financial Inclusion Fund	3,44,96	4,15,86
s)	Financial Inclusion Technology Fund	52,36	4,34,39
t)	Indo German Watershed Development Programme - Andhra Pradesh	25	71
u)	Indo German Watershed Development Programme - Rajasthan	67	1,78
v)	Indo German Watershed Development Programme - Gujarat	2,94	53
w)	KfW-UPNRM - Accompanying measures	1,00	1,07
x)	KfW - NB Indo German Watershed Development Programme - Phase III - Maharashtra	4,81	5,80
y)	KfW - NB - IX Adivasi Development Programme	8,72	18,84
z)	KfW NB V - Adivasi Project	5,81,92	0
aa)	Commitment Charges -KfW-UPNRM Borrowings	6,84	20,74
ab)	Livelihood Advancement Business School RF Project - Sultanpur, Uttar Pradesh	0	2,08
ac)	Livelihood Advancement Business School RF Project - Rae Bareilly, Uttar Pradesh	0	5,62
ad)	Multi Activity Approach for Poverty Alleviation BAIF Project - Sultanpur, Uttar Pradesh	3,36	4,14
ae)	Multi Activity Approach for Poverty Alleviation BAIF Project - Rae Bareilly, Uttar Pradesh	2,86	11,08
af)	Cattle Development Programme (UP & Bihar)	7,86	18,26
2	Discount on Collateralised Borrowing and Lending Obligations	40,71,13	26,59,91
3	Discount Brokerage Commission & Issue exp. on Bonds and Securities	6,63,94	5,78,80
4	Swap Charges	3,72,10	6,93,25
	Total	7534,01,97	6193,86,85

Schedule 16 A - Establishment and Other Expenses

(₹ in thousands)

Sr. No.	Particulars	2011-12	2010-11
1	Salaries and Allowances (Refer Note B-20 of Schedule 18)	442,63,36	586,57,40
2	Contribution to / Provision for Staff Superannuation Funds	345,27,10	327,61,90
3	Other Perquisites & Allowances	27,18,08	22,96,15
4	Travelling & Other allowances in connection with Directors' & Committee Members' Meetings	21,67	13,85
5	Directors' & Committee Members' Fees	1,36	1,08
6	Rent, Rates, Insurance, Lighting, etc.	21,81,60	20,82,98
7	Travelling Expenses	29,03,51	24,49,56
8	Printing & Stationery	3,20,71	2,81,21
9	Postage, Telegrams & Telephones	8,73,17	8,48,85
10	Repairs	8,51,53	6,55,87
11	Auditors' Fees	9,46	8,06
12	Legal Charges	28,55	17,86
13	Miscellaneous Expenses	42,25,15	40,77,59
14	Expenditure on Miscellaneous Assets	5,84,70	44,37
15	Expenditure on Study & Training (Including ₹9,35,82,458 (₹7,58,70,397) pertaining to establishment expenses of Regional Training Colleges]	39,24,95	33,46,06
16	Expenditure on promotional activities under:		
	(i) Cooperative Development Fund	5,35,40	6,05,32
	(ii) Micro Finance Development and Equity Fund	10,61,32	11,40,75
	(iii) Watershed Development Fund	0	1,01,14
	(iv) Farm Innovation and Promotion Fund	2,73,85	2,39,20
	(v) Exp. for NFS Promotional Measures/ Activities	30,24,32	27,52,58
17	Wealth Tax	3,81,02	2,28,60
	Total	1027,10,81	1126,09,88

Schedule 16 B - Provisions

(₹ in thousands)

Sr. No.	Particulars	2011-12	2010-11
	Provisions for :		
1	Amortisation of G. Sec	0	0
2	Standard Assets (Refer Note 29.6 of Schedule 18)	78,74,00	0
3	Non Performing Assets	14,80,00	32,86,00
3a	Non Performing Assets - Staff	7,23	4,00
4	Nabard General Advices	0	-53,24
5	Depreciation in Investments G Sec	0	0
6	Depreciation in Value of Investment Account - Equity	-80,00	-5,08
7	Sacrifice in interest element of restructured Accounts	51,37,00	8,00
8	Other Assets / Receivable	0	3,36,66
	Total	144,18,23	35,60,34

Schedule 17 - Commitments and Contingent Liabilities

(₹ in thousands)

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2012	As on 31.03.2011
1	Commitments on account of capital contracts remaining to be executed	229,32,01	37,81,29
	Sub Total "A"	229,32,01	37,81,29
2	Contingent Liabilities		
(i)	Claims against the Bank not acknowledged as debt (Refer Note B-24 of Schedule 18)	23,93	0
(ii)	Income Tax matters in appeal	0	0
	Sub Total "B"	23,93	0
	Total (A + B)	229,55,94	37,81,29

Schedule 18

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2012

A. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. Basis of Preparation

1.1 The accounts are prepared on the historical cost convention and comply with all material aspects contained in the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981 and Regulations thereof, applicable Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and regulatory norms prescribed by the Reserve Bank of India (RBI). Except otherwise mentioned, the accounting policies have been consistently applied by the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD / the Bank) and are consistent with those used in the previous year.

1.2 Preparation of financial statements as per Generally Accepted Accounting Practices (GAAP) requires the management to make several assumptions and estimates that affect reported results and the reported state of affairs of the Bank; the example of such cases include the estimated life of fixed assets, liability on account of employee retirement benefits, provision for anticipated losses, etc. Actual results could differ from such estimates. Such differences are recognized in the year of outcome of such results.

2. Income and expenditure

2.1 Income and expenditure are accounted on accrual basis, except the following, which are accounted on cash basis:

- a. Interest on non-performing assets identified as per RBI guidelines.
- b. Income by way of penal interest charged due to delayed receipt of loan dues or non-compliance with terms of loan.
- c. Service Charges on loans given out of Micro Finance Development and Equity Fund, Watershed Development Fund.
- d. Expenses not exceeding ₹ 10,000 at each accounting unit, under a single head of expenditure.

2.2 Issue expenses relating to floatation of bonds are recognised as expenditure in the year of issue of Bonds.

2.3 Dividend on investments is accounted for, when the right to receive the dividend is established.

3. Fixed Assets and Depreciation

3.1 Fixed assets are stated at cost of acquisition, less accumulated depreciation and impairment losses, if any. The cost of assets includes taxes, duties, freight and other incidental expenses related to the acquisition and installation of the respective assets. Subsequent expenditure incurred on existing asset is capitalized, only when it increases the future benefit from the existing assets beyond its previously assessed level of performance.

3.2 Land includes free hold and leasehold land.

3.3 Premises include value of land, where segregated values are not readily available.

3.4 Depreciation on premises situated on free hold land is charged at 10% p.a., on written down value basis.

3.5 Depreciation on leasehold land and premises situated thereon is computed and charged at 5% on written down value basis or the amount derived by amortising the premium/cost over the remaining period of lease hold land, on straight-line basis, whichever is higher.

3.6 The Bank has revised the Capitalisation Policy with effect from 01 April 2011. As per the revised policy, Fixed Assets costing ₹ 1 lakh and less (except easily portable electronic assets such as laptops, mobile phones, etc. costing more than ₹ 10,000/-) are charged to the Profit & Loss Account in the year of acquisition. The valuable but easily portable electronic assets such as laptops, mobile phones, etc., shall be capitalised, if individual cost of the items is more than ₹10,000/-. All software costing above ₹ 1 lakh each, whether purchased independently or with hardware and operating system software, is capitalised.

3.7 Depreciation on other fixed assets is charged over the estimated useful life of the assets ascertained by the management at the following rates on Straight Line Method basis:

Type of Assets	Depreciation Rate w.e.f 01 April 2011
Furniture and Fixtures	20%
Computer Installations	33.33%
Office Equipments	20%
Vehicles	20%

Depreciation is charged for the full year, irrespective of the date of purchase of asset. No depreciation is charged on assets sold during the year.

4. Intangible Assets and Amortisation

Intangible assets are recognized /amortised, as per the criteria specified in AS 26 "Intangible Assets".

5. Investments

5.1 In accordance with the RBI guidelines, Investments are classified into "Held for Trading" (HFT), "Available for Sale" (AFS) and "Held to Maturity" (HTM) categories (hereinafter called "categories").

5.2 Securities that are held principally for resale within 90 days from the date of purchase are classified as "HFT". Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as "HTM". Securities which are not to be classified in the above categories are classified as "AFS".

5.3 Investments categorized under "HTM" are carried at cost and provision for depreciation/diminution/amortisation, if any, in value of investments, is included under Current Liabilities and Provisions.

5.4 Provision for diminution, other than temporary, in the value of investments in subsidiaries under the category "HTM" is made, wherever necessary.

5.5 Profit on sale of investment categorized under "HTM" is recognized in Profit & Loss A/c and then transferred to Capital Reserve A/c. Loss on sale of investment categorized under "HTM" is recognized in Profit & Loss A/c.

5.6 Investments under "AFS" and "HFT" are marked to market, scrip-wise, at the rate, declared by Primary Dealers Association of India (PDAI), jointly with Fixed Income Money Market and Derivative Association of India (FIMMDA), at prescribed intervals. While only net depreciation, if any, is provided for investments in the category classified as "AFS", depreciation / appreciation is recognised in the category for investments classified as "HFT".

5.7 Treasury Bills are valued at carrying cost.

5.8 Unquoted Shares are valued at breakup value, if the latest Audited Accounts of the investee companies is available, or at ₹ 1/- per share as per RBI guideline.

5.9 Brokerage, commission, etc. paid at the time of acquisition, are charged to revenue.

5.10 Broken period interest on debt investment is treated as a revenue item.

5.11 Transfer of a security between the categories is accounted for, at lower of the acquisition cost/book value/market value on the date of transfer and depreciation, if any, on such transfer, is fully provided for.

6. Advances and Provisions thereon

6.1 Advances are classified as per RBI guidelines. Provision for standard assets and non-performing assets is made in respect of identified advances, based on a periodic review and in conformity with the provisioning norms prescribed by RBI.

6.2 In case of restructuring/rescheduling of advances, the difference between the present value of future interest as per the original agreement and the present value of future interest as per the revised agreement is provided for.

6.3 Advances are stated net of provisions towards Non-performing Advances.

7. Foreign Currency Transactions

7.1 Foreign currency borrowings are covered by hedging agreements and are marked to market at every reporting date, the resultant gain, if any, is ignored and loss, if any, is provided for. The liability towards foreign currency borrowings at the prevailing exchange rate on the reporting date is mentioned under the Balance sheet, as a contra entry.

7.2 Profit on cancellation of or renewal of currency SWAP agreement, if any, is accounted for, on the final settlement of agreement; however, loss on such transactions is provided at the market rates, as on the date of Balance Sheet.

8. Retirement Benefits

8.1 The Bank has a Provident Fund Scheme managed by RBI. Contribution to the Fund is made on actual basis.

8.2 Provision for gratuity is made based on actuarial valuation, in respect of all employees including employees transferred from RBI. The amount of gratuity due from RBI, in respect of employees transferred from RBI, is accounted on cash basis.

8.3 Employer's contribution to Provident Fund relating to the pension optees (part of Pension Fund) is maintained with RBI.

8.4 Provision for Encashment of Ordinary Leave is made on the basis of actuarial valuation.

9. Taxes on Income

9.1 Tax on income for the current period is determined on the basis of taxable income and tax credits computed, in accordance with the provisions of Income Tax Act, 1961 and based on expected outcome of assessments/appeals.

9.2 Deferred tax is recognized, on timing difference, being the difference between taxable income and accounting income for the year and quantified, using the tax rates and laws that have been enacted or substantively enacted, as on Balance Sheet date.

9.3 Deferred tax assets relating to unabsorbed depreciation/business losses are recognised and carried forward to the extent that there is virtual certainty that sufficient future taxable income will be available against which, such deferred tax assets can be realized.

9.4 Other deferred tax assets are recognised and carried forward to the extent that there is a reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which, such deferred tax assets can be realized.

9.5 Provision for Wealth Tax is made, in accordance with the provisions of Wealth Tax Act, 1956.

10. Segment Reporting

10.1 Segment revenue includes interest and other income directly identifiable with / allocable to the segment.

10.2 Expenses that are directly identifiable with/allocable to segments are considered for determining the segment result. The expenses, which relate to the Bank as a whole and not allocable to segments, are included under "Other Unallocable Expenditure".

10.3 Income, which relates to Bank as a whole and not allocable to segments is included under "Other unallocable bank income".

10.4 Segment assets and liabilities include those directly identifiable with the respective segments. Unallocable assets

and liabilities include those that relate to the Bank as a whole and not allocable to any segment.

11. Impairment of Assets

11.1 As at each Balance Sheet date, the carrying amount of assets is tested for impairment so as to determine:

- a) the provision for impairment loss, if any, required; or
- b) the reversal, if any, required for impairment loss recognized in the previous periods.

11.2 Impairment loss is recognized when the carrying amount of an asset exceeds recoverable amount.

12 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

12.1 Provisions are recognised for liabilities that can be measured only by using substantial degree of estimation if:

- a) the Bank has a present obligation as a result of a past event;
- b) a probable outflow of resources is expected to settle the obligation; and
- c) the amount of the obligation can be reliably estimated.

12.2 Reimbursement, expected in respect of expenditure, which require a provision, is recognised only when it is virtually certain that the reimbursement will be received.

12.3 Contingent liability is disclosed in the case of:

- a) a present obligation arising from past events, when it is not probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation,
- b) a present obligation when no reliable estimate is possible, and
- c) a possible obligation arising from past events where the probability of outflow of resources is not remote.

12.4 Contingent assets are neither recognized, nor disclosed.

12.5 Provisions, contingent liabilities and contingent assets are reviewed at each Balance Sheet date.

12.6 Change in accounting policy: There was a change in accounting policy during the year in case of capitalization of fixed assets. The details are indicated in para 3.6 and 3.7 of part-A of this schedule

B. NOTES FORMING PART OF THE ACCOUNTS

(₹ in crore)

1. In terms of TAWA Command Area Development Project Agreement, the "Interest Differential Fund" is to be utilized for certain specified purposes.

2. In accordance with the Memorandum of Understanding entered into with the Swiss Agency for Development Cooperation, repayment of loan, service charges and other receipts made out of Rural Innovation Fund (RIF) are being credited to the Rural Promotion Fund (RPF).

3. In terms of the agreement with KfW, accretion/income and certain expenditure under UPNRM have been charged to the fund. The loans granted out of the fund have been adjusted with direct loans.

4. Income under the head 'Income from Investment Operations / Deposits' includes 'Discount and Commission'.

5. Subvention received/receivable from GOI amounting to ₹ 1475.52 crore (₹ 989.34 crore), being the difference between the cost of borrowing by NABARD and the refinance rate, has been reduced from interest and financial charges and shown as accrued interest.

6. Other receipts includes ₹ 78.49 crore (₹ 54.49 crore) received/receivable from GoI towards administration charges on providing refinance under interest subvention scheme to SCBs and RRBs, for financing Seasonal Agricultural Operations.

7. Government of India advised the bank that the short term loans extended by the Long Term Co-operative Credit Structure (LTCCS) are not covered under the interest subvention scheme. Accordingly, the bank had refunded a sum of ₹ 11.80 crore to the Central Government in May, 2012. As this amount has been identified for refund at the time of audit, the same has been fully provided for, while accounting the results for the financial year 2011-12.

8. An amount of ₹ 4.29 crore chargeable as penal interest on account of default in repayment by MPSCARDB has been waived during the year.

9. Investments in Government securities include the following securities pledged with Clearing Corporation of India Limited as collateral security for Business segments:

Particulars	Face Value	Book Value
Pledged for Business Segment (Securities)	35.00 (55.00)	34.00 (54.81)
Pledged for Business Segment (Collateralised Borrowing and Lending Obligation)	2071.00 (2257.00)	2044.06 (2208.63)

10. Interest at the rate of 6.00% (6.00%) per annum on unutilised balances of RIF, Watershed Development Fund, KfW NB IGWDP—(Andhra Pradesh, Gujarat, Maharashtra and Rajasthan) and KfW NB IX Adivasi Development Programme has been credited to respective funds based on respective agreements. Further, interest at the rate of 6.57% (8.80%) per annum on unutilised balances of Micro Finance Development and Equity Fund, Cattle Development Programme (Uttar Pradesh & Bihar), and Multi Activity Approach for Poverty Alleviation (MAPA) BAIF—(Sultanpur and Rae Bareilly), Financial Inclusion Fund and Financial Inclusion Technology Fund has been credited to the respective funds. The said interest is calculated based on the mid-month average outstanding of the respective funds.

11. The expenditure recoverable from Government of India / international agencies as per Schedule-14 of balance sheet amounting to ₹ 28.76 crore includes debit balance of various funds viz. IGWDP Maharashtra (₹ 7.25 crore), IGWDP Gujarat (₹ 0.88 crore), IGWDP Rajasthan (₹ 2.96 crore), IGWDP Andhra Pradesh (₹ 5.85 crore), IFAD Priyadarshini (₹ 1.72 crore), Revival Reform Restructuring of Handloom package (₹ 10.00 crore), NE council fund for miscellaneous training (₹ 0.10 crore) which were shown as debit balances in Schedule-4 in the respective funds in the previous year.

12. The Provision for Pension is made after considering the employer's contribution to PF maintained with RBI as per the records available with the Bank as on 31 March 2012.

13. The Bank, during the year, in accordance with AS 22 "Accounting for taxes on Income", recognized in the Profit and Loss account the difference of ₹ 162.00 crore between net deferred tax assets of ₹ 71.15 crore and ₹ 233.15 crore as at 31 March 2012 and 31 March 2011 respectively, as detailed below:

(₹ in crore)

Sr. No.	Deferred Tax Assets	31 March 2012	31 March 2011
1	Provision for Retirement Benefits made in the books but allowable for tax purposes on payment basis	49.65	181.18
2	Depreciation on Fixed Assets	21.50	21.77
3	Amortisation of G.Sec	0.00	30.20
Total		71.15	233.15

14. Provision for Deferred Tax on account of Special Reserve created u/s 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961, is not considered necessary, as the Bank has decided not to withdraw the said reserve.

15. 'Land' and 'Premises' include ₹ 34.77 crore (₹ 29.88 crore) paid towards Office Premises and Staff Quarters for which conveyance is yet to be completed.

16. Pursuant to the directives of RBI, the project loans provided to SCARDBs by way of subscription to the Special Development Debentures (SDDs) floated by these agencies, are treated as under:

- a) classified as Investments and shown in Schedule – 11 under the head 'Debenture and Bonds'.

- b) Interest earned on the same is shown as a part of 'Interest received on Loans and Advances' in the Profit and Loss Account, treating them as 'deemed advances'.
- c) Deemed Advances for the purpose of IRAC norms, capital adequacy and computation of ratios etc.
- d) The value of Allotment Letters / Debenture Scrips, yet to be received, as at the year end, aggregates to NIL (₹ 238.15 crore)

17. The bank with effect from 2 September 2011, has decided to provide financial support to SCARDBs in the form of refinance loans, instead of subscribing to the Special Development Debentures floated by them.

18. The tax liability of the bank for the Assessment Year 2002-03 amounting to ₹ 373.15 crore was assessed by the Income Tax department and fully paid by the bank. However, the bank has filed an appeal against the taxability of NABARD for the AY 2002-03 with Income Tax Appellate Tribunal.

19. The net impact due to change in accounting policy as per para 12.6 of part-A of the schedule was as under:

19.1 Net Effect on Revenue A/c due to change in Capitalisation Policy

(₹ in crore)

	Amount that would have been charged to Revenue A/c as per Previous Capitalisation Policy (Depreciation on items under Computer Installations, F&F & Other CIOE which would have been capitalised, and cost of Software)	Amount taken to Revenue A/c as per New Capitalisation Policy (Cost of items under Computer Installations, F&F & Other CIOE which are charged to Revenue A/c, and Depreciation on Software which is capitalised)	Net Effect in Revenue A/c due to change in Policy
Computer	0.97	2.92	1.95
F&F	0.19	0.93	0.74
Other CIOE	0.35	1.73	1.38
Software	5.61	1.87	-3.74
Total	7.12	7.45	0.33

19.2 Impact due to change in Depreciation rate:

An amount of ₹ 0.22 crore was additionally charged as depreciation in the current year for assets purchased in earlier years (2009-10 and 2010-11) for items under Computer and Communication devices and electrical installations, due to change in Depreciation rate.

20. The salaries and allowances for the year amounting to ₹ 442.63 crore was arrived at after deduction of excess provision of ₹ 5.33 crore towards salary arrears.

21. Disclosure required under AS 15 (Revised) on "Employee Benefits" is as under:

21.1 Defined Benefit Plans

Employees Retirement Benefit plans of the bank include Pension, Gratuity and Leave Encashment, which are defined benefit plans. The present value of obligation is determined based on actuarial valuation using the Projected Unit Credit Method, which recognizes each period of services as giving rise to additional unit of employee benefit entitlement and measures each unit separately to build up the final obligation.

a. Reconciliation of opening and closing balances of defined benefit obligations:

(₹ in crore)

Particulars	Pension		Gratuity		Leave Encashment	
Present value of defined benefit obligation at the beginning of year	1223.03	(958.76)	242.57	(221.20)	144.88	(117.63)
Current Service Cost	33.42	(22.76)	17.53	(16.90)	3.77	(6.54)
Interest Cost	100.90	(79.10)	20.01	(18.25)	11.95	(9.70)
Actuarial gain/ loss	283.32	(207.42)	-8.61	(8.16)	4.42	(17.67)
Benefits paid	-83.80	(-45.01)	-31.82	(-21.94)	-11.99	(-6.66)
Present value of defined benefits obligations at the year end	1556.87	(1223.03)	239.68	(242.57)	153.03	(144.88)

b. Amount recognized in the Balance Sheet as on 31 March 2012:

(₹ in crore)

Particulars	Pension (Partly Funded)		Gratuity (funded)		Leave Encashment (Funded)	
Present value of defined benefits obligations as at the year end	1556.87	(1223.03)	239.68	(242.57)	153.03	(144.88)
Fair value of plan assets as at the year end	1311.25	(288.11) @	260.82	(227.85)	137.14	(143.66) \$
Liability recognized in the Balance sheet as at the year end	245.63	(934.92)	-21.14*	(14.72)	15.89	(1.22)

@ Includes the Bank's contribution of ₹ 363.79 crore (₹ 288.11 crore) towards PF for pension optees available with RBI.

\$ Represents the amount invested with Insurance companies towards the liability for Leave Encashment.

* Negative amount is shown as other assets under Schedule-14

c. Expenses recognized in the Profit and Loss Account during the year:

(₹ in crore)

Particulars	Pension		Gratuity		Leave Encashment	
Current Service Cost	33.42	(22.76)	17.53	(16.90)	3.77	(6.54)
Interest Cost	100.90	(79.10)	20.01	(18.25)	11.95	(9.70)
Net Actuarial gain/ loss	220.54	(172.83)	-8.65	(8.16)	12.12	(17.67)
Expected return on Plan Assets	-37.10	(0.00)	-21.62	(-16.92)	-13.17	(-12.26)
Expense recognized in the statement of Profit & Loss	317.76	(274.69)	7.27	(26.39)	14.67	(21.65)

d. Actuarial assumptions:

Particulars	Pension		Gratuity		Leave Encashment	
Mortality Table (LIC)	1994-96 (Ultimate)		1994-96 (Ultimate)		1994-96 (Ultimate)	
Discount rate (per annum)	8.75% (8.25%)		8.75% (8.25%)		8.75% (8.25%)	
Salary growth (per annum)	5.50% (4.00%)		5.50% (7.00%)		5.50% (4.00%)	
Withdrawal rate	1.00% (1.00%)		1.00% (1.00%)		1.00% (1.00%)	

21.2 The estimates of rate of escalation in salary considered in actuarial valuation, take into account inflation, seniority, promotion and other relevant factors including supply and demand in the employment market.

21.3 The aforesaid liabilities include liabilities of employees deputed to subsidiaries.

21.4 The above information is certified by the actuary and the provision for pension is recognized in the profit and loss account after considering the outstanding balance of the Bank's contribution to the Provident Fund of pension optees.

21.5 The income of ₹ 22.78 crore recognized during the year 2011-12 on investments earmarked towards leave encashment includes the overall impact for the financial years 2010-11 and 2011-12.

21.6 Defined Contribution Plan:

The bank contributes a defined sum of 10% on the basic salary for both pension optees and non pension optees every month towards Provident Fund. The contribution made for the pension optees forms part of the plan assets of pension scheme. The total contribution charged to Profit and Loss account during the year is ₹ 12.68 crore (₹ 11.87 crore)

22. During the year 2011-12 the bank has created NABARD Pension Fund Trust and transferred a sum of ₹ 934.44 crore being the provisions for pension held in the books of the bank as on 31 March 2011 to the Trust.

27. Investments in Mutual Funds are as under:

23. In the opinion of the Bank's management, there is no impairment to assets to which AS 28 – "Impairment of Assets" applies requiring any provision.

24. The movement in Contingent Liability as required in AS 29 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" is as under:

(₹ in crore)

Particulars	2011-12	2010-11
Opening Balance	0.00	3.37
Addition during the year	0.24	0.00
Deletion during the year	0.00	3.37
Closing Balance	0.24	0.00

25. Prior period items included in the Profit and Loss account are as follows:

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	2011-12	2010-11
1	Depreciation	0.00	2.895
2	Revenue Expenditure	5.27	0.00
	Total	5.27	2.895

26. Capital adequacy ratio of the Bank as on 31 March 2012 was 20.55% (21.76%) as against a minimum of 9% as stipulated by RBI.

(₹ in crore)

Sr. No.	Name of the Mutual Fund	As at 31 March 2012			As at 31 March 2011		
		No. of units	Book Value	Market Value	No. of units	Book Value	Market Value
1	Kotak Mahindra	0	0	0	31178095.5170	50.01	50.01
2	ICICI Prudential	0	0	0	2069242.3680	30.01	30.01
3	Canara Robeco	0	0	0	25172008.7263	30.01	30.01
4	IDFC	0	0	0	25159975.5110	30.01	30.01
5	UTI-Money Market	0	0	0	310661.2930	50.01	50.01
6	Tata	0	0	0	276239.8430	50.01	50.01
7	DWS	0	0	0	2356602.6900	30.01	30.01
8	SBI	0	0	0	19254837.7780	30.01	30.01
9	IDBI	0	0	0	285224.8670	30.01	30.01
10	Peerless	0	0	0	28065186.0720	30.01	30.01
11	Taurus	0	0	0	284381.6460	30.01	30.01
	Total	0	0	0		390.11	390.11

28. As per the information available with the Bank, there are no dues payable under Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006.

29. The following additional information is disclosed in terms of RBI circular No.RBI/2011-12/68 DBOD.No.FID.FIC.2/01.02.00/2011-12 dated 01 July 2011.

29.1 Capital

(a) Capital to Risk-weighted Assets Ratio (CRAR)

Particulars	(Percent)	
	31 March 2012	31 March 2011
CRAR	20.55	21.76
Core CRAR	19.42	20.43
Supplementary CRAR	1.13	1.33

(b) Subordinated Debt

(₹ in crore)

Particulars	31 March 2012	31 March 2011
Amount of subordinated debt raised and outstanding as Tier II Capital	Nil	Nil

(c) Risk weighted assets

(₹ in crore)

Particulars	31 March 2012	31 March 2011
On – Balance Sheet Items	80736.44	63515.55
Off – Balance Sheet Items	19.44	20.30

(d) Pattern of Capital contribution as on the date of the Balance Sheet:

NABARD has received an amount of ₹ 1000 crore from Government of India vide their letter no. F.No.20/16/2010-AC dated 30 March 2012 towards Share Capital. Consequent to this the shareholding of Government of India and RBI in the Paid up capital of NABARD as on 31 March 2012 was at 99.33% : 0.67% as per details given below.

(₹ in crore)

Contributor	31 March 2012		31 March 2011	
Reserve Bank of India	20.00	0.67%	20.00	1.00%
Government of India	2,980.00	99.33%	1,980.00	99.00%
Total	3000.00	100.00%	2,000.00	100.00%

29.2 Asset Quality and Credit Concentration

(a) Net NPA position

Particulars	31 March 2012	31 March 2011
Percentage of Net NPAs to Net Loans & Advances	0.02249	0.02136

(b) Asset classification

(₹ in crore)

Classification	2011-12		2010-11	
	Amount	(%)	Amount	(%)
Standard	165174.11	99.945	139459.40	99.950
Sub-standard	22.19	0.013	0.00	0.000
Doubtful	68.21	0.041	68.13	0.049
Loss	1.02	0.001	1.02	0.001
Total	165265.53	100.000	139528.56	100.000

(c) Provisions made during the year

(₹ in crore)

Provisions against	2011-12	2010-11
Standard Assets	78.74	0.00
Non Performing Assets	14.87	32.90
Investments (Net)	30.44	1.93
Income Tax	455.00	460.00
Total	579.05	494.83

(d) Movement in Net NPAs

(₹ in crore)

Particulars	2011-12	2010-11
(A) Net NPAs as at beginning of the year	29.83	32.72
(B) Add: Additions during the year	7.32	19.44
(C) Sub-total (A+B)	37.15	52.16
(D) Less: Reductions during the year	0.00	22.33
(E) Net NPAs as at the end of the year (C-D)	37.15	29.83

Note: Net NPA includes ₹ 0.07 crore (₹ 0.04 crore) relating to staff advances.

(e) Credit exposure as percentage to Capital Funds and as percentage to Total Assets

Category	2011-12		2010-11	
	Credit Exposure as % to		Credit Exposure as % to	
	Capital Funds	Total Assets	Capital Funds	Total Assets
I Largest Single Borrower	91.60	8.35	128.67	11.08
II Largest Borrower Group	Not Applicable		Not Applicable	
III Ten Largest Single Borrowers for the year	331.83	30.24	378.64	32.59
IV Ten Largest Borrower Groups	Not Applicable		Not Applicable	

(f) Credit exposure to the five largest industrial sectors as percentage to total loan assets: Not Applicable

29.3 Liquidity

Maturity pattern of Rupee Assets and Liabilities and Maturity pattern of Foreign Currency Assets and Liabilities

(₹ in crore)

Sr. Item No.	Less than or equal to 1 year	More than 1 year upto 3 years	More than 3 years upto 5 years	More than 5 years upto 7 years	More than 7 years	Total #
1 Rupee Assets	82177.97 (68088.65)	45084.24 (40360.96)	34177.67 (31910.59)	15242.53 (13478.17)	4660.17 (4410.44)	181342.58 (158248.82)
2 Foreign currency assets	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
Total Assets	82177.97 (68088.65)	45084.24 (40360.96)	34177.67 (31910.59)	15242.53 (13478.17)	4660.17 (4410.44)	181342.58 (158248.82)
3 Rupee Liabilities	29159.71 (36716.00)	57562.03 (39438.72)	32583.53 (29124.49)	25013.99 (18524.70)	36520.54 (33943.27)	180839.80 (157746.17)
4 Foreign currency liabilities	39.88 (39.92)	79.77 (79.75)	79.77 (79.74)	34.78 (64.82)	268.58 (238.42)	502.78 (502.64)
Total Liabilities	29199.59 (36754.92)	57641.80 (39518.47)	32663.30 (29204.23)	25048.77 (18589.52)	36789.12 (34181.69)	181342.58 (158248.81)

Net of provision made as per RBI directives on Standard Assets as well as for diminution in value of Investments aggregating to ₹ 732.63 (₹ 623.45 crore)

29.4 Operating results

Particulars	2011-12	2010-11
(a) Interest income as a percentage to average working funds	6.53	6.22
(b) Non interest income as a percentage to average working funds	0.07	0.10
(c) Operating profit as a percentage to average working funds	1.44	1.25
(d) Return on average Assets (%)	0.98	0.88
(e) Net Profit per Employee (Rs. in crore)	0.36	0.27

29.5 Movement in the provisions

(a) Provision for Non Performing Assets (Loan Assets)

(₹ in crore)

Particulars	2011-12	2010-11
Opening balance as at the beginning of financial year	39.39	32.00
Add: Provision made during the year	14.87	23.73
Less: Write off, write back of excess provision	0.00	16.34
Closing balance at the close of financial year	54.26	39.39

(b) Provision for depreciation in investments

(₹ in crore)

Particulars	2011-12	2010-11
A Opening balance as at the beginning of the financial year	3.37	1.44
B Add		
(i) Provisions made during the year	31.74	2.08
(ii) Appropriation, if any, from Investment Fluctuation Reserve Account during the year	0.00	0.00
C Sub-Total [A+B (i)+B (ii)]	35.11	3.52
D Less:		
(i) Write off / Write back of excess provision	1.30	0.15
(ii) Transfer, if any, to Investment Fluctuation Reserve Account	0.00	0.00
Sub Total [D]	1.30	0.15
E Closing balance as at the close of financial year (C-D)	33.81	3.37

29.6 Restructured accounts

During the current financial year, five loan accounts outstanding to the extent of ₹ 788.25 crore (including loans to MPSCARDB-outstanding ₹ 770.60 crore) have been rescheduled. All the said five loans are classified as Standard Asset and an additional provision at the rate of 1.6% has been made on these assets as per RBI guidelines. As per IRAC norms provisions for ₹ 51.37 crore has been made during 2011-12 towards sacrifice in interest element on restructuring of MPSCARDB.

29.7 Assets sold to securitisation company / reconstruction company: NIL (NIL)**29.8 Forward Rate Agreements and Interest Rate Swaps : NIL (NIL)****29.9 Interest Rate Derivatives: NIL (NIL)****29.10 Investments in Non Government Debt Securities: NIL (NIL)****29.11 Corporate Debt Restructuring (CDR)**

There are no loan accounts subjected to Corporate Debt Restructuring during the current year.

29.12 Disclosure on risk exposure in Derivatives

The Bank does not trade in derivatives. However, it has hedged its liability towards borrowings from KfW Germany to the extent of 93.63 million Euro and interest thereon for the entire loan period. Consequent upon hedging of foreign currency borrowings the same is shown at contracted value as per the Swap agreement. The Bank does not have any open exposure in foreign currency.

The value of outstanding principal amount of hedge contract at the year-end exchange rate stood at ₹ 632.33 crore and the value of outstanding principal liability in the books of account stood at contracted value i.e. ₹ 502.77 crore. The quantitative disclosure in this regard is as under:

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	Currency Derivatives	Interest Rate Derivatives
1	Derivatives (Notional Principal amount)		
A)	For Hedging	632.33 (592.10)	NA
B)	For Trading	NA	NA
2	Marked to Market Positions [1]		
a)	Asset (+)	129.55 (89.45)	NA
b)	Liability (-)	(0.00)	NA
3	Credit Exposure [2]	109.41	NA
4	Likely Impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)		
a)	on hedging derivatives	8.70@	NA
b)	on trading derivatives	NA	NA
5	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year		
a)	on hedging	NA	NA
b)	on trading	NA	NA

@ If MIBOR rate decrease by 100 bps across tenure MTM gain would be reduced by ₹8.70 crore

29.13 Exposures where the FI had exceeded prudential exposure limits during the year: NIL (NIL)

29.14 Related Party Transactions

As the Bank is state controlled enterprise within the meaning of AS-18 "Related Party Transactions", the details of the transactions with other state controlled enterprises are not given.

List of Related Parties:

Key Management Personnel:

1. Shri U. C. Sarangi - Ex-Chairman
2. Shri Rakesh Singh - Ex-Chairman
3. Dr. Prakash Bakshi - Chairman
4. Dr. K G Karmakar - Ex-Managing Director

(₹ in crore)

Name of the Party	Nature of Relationship	Nature of Transaction	Amount of transaction during the year	Outstanding
Shri U. C. Sarangi	Key Management Personnel- Ex-Chairman	Remuneration including perquisites	0.082	0.00
Shri Rakesh Singh	Key Management Personnel- Ex-Chairman	Remuneration including perquisites	0.020	0.00
Dr. Prakash Bakshi	Key Management Personnel-Chairman	Remuneration including perquisites	0.107	0.00
Dr. K G Karmakar	Key Management Personnel- Ex-Managing Director	Remuneration including perquisites	0.119	0.00

No amounts, in respect of the related parties have been written off/back, or provided for during the year.

Related party relationships have been identified by the management and relied upon by the auditors.

29.15 Issuer categories in respect of investments made

(₹ in crore)

Sr No.	Issuer	Amount	Investment made through private placement	Below investment grade Securities held	Unrated Securities held	Unlisted Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PSUs	180.27 (80.34)	154.13 (79.13)	-	80.25 (19.13)	77.88 (79.13)
2	FIs	123.00 (123.00)	123.00 (123.00)	-	48.00 (0.00)	48.00 (48.00)
3	Banks	0.09 (0.00)	-	-	0.09 (0.00)	-
4	Private Corporate	216.00 (150.00)	216.00 (150.00)	-	16.00 (0.00)	16.00 (0.00)
5	Subsidiaries/Joint ventures	41.37 (23.80)	41.37 (23.80)	-	41.37 (23.80)	41.37 (23.80)
6	Others (Net of Provision) including Mutual Funds	3100.47 (2262.47)	25.92 (10.35)	-	25.92 (10.35)	3100.47 (2262.47)
7	Provision held towards depreciation	3.19 (3.37)	-	-	0.59 (0.00)	0.59 (3.37)
Total		3658.01 (2636.24)	560.42 (386.28)	0.00 (0.00)	211.04 (53.28)	3283.13 (2410.03)

29.16 Non performing investments: NIL (NIL)**29.17 Disclosure on Repo transactions: NIL (NIL)****29.18 Concentration of Deposits, Advances, Exposure and NPAs****(a) Concentration of Deposits**

(₹ in Crore)

	2011-12	2010-11
Total Deposits of twenty largest depositors	85859.17	73761.25
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank	90.00%	89.00%

(b) Concentration of Advances

(₹ in Crore)

	2011-12	2010-11
Total Advances to twenty largest borrowers	86213.95	75077.75
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	52.24%	53.81%

(c) Concentration of Exposure

(₹ in Crore)

	2011-12	2010-11
Total Exposure to twenty largest borrowers/ customers	87413.95	75077.75
Percentage of Exposure to twenty largest borrowers/customers to Total Exposure of the bank on borrowers/customers	50.88%	50.32%

(d) Concentration of NPAs

(₹ in Crore)

	2011-12	2010-11
Total Exposure to Top four NPA accounts	57.40	50.71

29.19 Sector-wise NPAs

Sr. No	Sector	Percentage of NPAs to Total Advances in that sector	
		2011-12	2010-11
1	Agriculture and allied activities	0.00	0.00
2	Industry (Micro & Small, Medium and Large)	72.85	54.46
3	Services	0.00	0.00
4	Personal Loans-Staff Loans	0.06	0.02

29.20 Movement of Gross NPAs

(₹ in Crore)

Particulars	2011-12	2010-11
Gross NPAs as on 1st April of particular year (Opening Balance)	69.19	50.73
Additions (Fresh NPAs) during the year	22.23	25.40
Sub-total (A)	91.42	76.39
Less:-		
(i) Upgradations	0.00	25.40
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	0.00	1.84
(iii) Write-offs	0.00	9.00
Sub-total (B)	0.00	7.24
Gross NPAs as on 31st March of following year (closing balance) (A-B)	91.42	69.19

29.21 Overseas Assets, NPAs and Revenue: NIL (NIL)**29.22 Off-balance sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms): NIL (NIL)****29.23 Information on Business Segment****(a) Brief Background**

The Bank has recognized Primary segments as under:

- i) **Direct Finance:** Includes Loans given to state governments for rural infrastructure development, co-finance loans and loans given to voluntary agencies/

non-governmental organisations for developmental activities.

- ii) **Refinance:** Includes Loans and Advances given to State Governments, Commercial Banks, Land Development Banks, State Coop. Banks, Regional Rural Banks etc. as refinance against the loans disbursed by them to the ultimate borrowers.

- iii) **Treasury:** Includes investment of funds in treasury bills, short-term deposits, government securities, etc.

- iv) **Unallocated:** Includes income from staff loans and other miscellaneous receipts and expenditure incurred for the developmental role of the bank and common administrative expenses.

(b) **Information on Primary Business Segment**

(₹ in crore)

	Direct Finance	Refinance	Treasury	Unallocated	Total
Segment Revenue	4,401.32 (4,085.61)	5,198.78 (4,086.49)	1,346.02 (943.24)	32.38 (86.68)	10978.50 (9,202.01)
Segment Results	246.37 (268.69)	1,638.63 (1,567.59)	1302.00 (912.21)	-935.03 (-924.63)	2251.97 (1,823.86)
Total carrying amount of Segment Assets	71,728.35 (66,409.32)	94,696.77 (74,643.27)	13,226.02 (15,316.71)	2,424.07 (2,502.96)	1,82,075.21 (1,58,872.26)
Total carrying amount of Segment Liabilities	76190.61 (68,908.87)	84520.54 (69,320.39)	291.17 (266.47)	21,072.89 (20,376.54)	1,82,075.21 (1,58,872.26)
Other Items:					
Cost to acquire Segment Assets during the year	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	18.16 (18.22)	18.16 (18.22)
Amortization & Depreciation	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	21.22 (22.58)	21.22 (22.58)
Non-Cash Expenses	15.13 (32.90)	129.62 (-0.08)	-0.80 (-0.05)	129.34 (100.21)	273.29 (132.98)

- (c) Since the operations of the Bank are confined to India only there is no reportable secondary segment.

30. Figures in brackets pertain to previous year.

31. Previous year's figures have been regrouped / rearranged wherever necessary.

As per our attached report of even date
P. Parikh & Associates
Chartered Accountants
FRN : 107564W

Ashok Rajagiri
Partner
M No.046070
Mumbai
Date : 26 May 2012

K. S. Padmanabhan
Chief General Manager
Accounts Department
Mumbai : 26 May 2012

Prakash Bakshi
Chairman

H R Khan
Director

Dipankar Gupta
Director

M L Sharma
Director


P. Satish
Chief General Manager & Secretary

National Bank for Agriculture and Rural Development
Cash Flow for the year ended 31 March 2012

(₹ in thousands)

Particulars	2011-2012	2010-2011
(a) Cash flow from Operating activities	2251,96,93	1823,86,02
Net Profit as per Profit and Loss a/c before tax		
Adjustment for:		
Depreciation	21,22,00	22,57,98
Provisions and Amortisations	-80,00	2,78,34
Provision for Non performing Assets	14,87,23	32,90,00
Provision for Standard Assets	78,74,00	0
Provision for sacrifice in interest element of Restructured Loan	51,37,00	-8,00
Profit / Loss on sale of Fixed Assets	12,58	4,64
Interest credited to various Funds		
(including addition/adjustment made to Interest Differential Fund)	139,38,43	118,36,63
Other Expenses	0	0
Income from Investment (including Discount Income)	-1346,02,32	-938,79,85
Expenditure from Various Funds	-3283,28,78	-5492,54,83
Operating profit before changes in operating assets	-2072,42,94	-4430,89,07
Adjustment for net change in:		
Current Assets	2133,68,93	-373,55,50
Current Liabilities	799,07,04	681,46,96
Increase in Loans and Advances		
(Including Housing Loan & Other Advances to Staff)	-25661,77,32	-19035,55,28
Cash generated from operating activities	-24801,44,29	23158,52,90
Payment of Income Tax	-426,74,97	539,24,46
Net cash flow from operating activities (A)	-25228,19,26	-23697,77,35
(b) Cash flow from investing activities	1346,02,33	-1943,28,85
Income from Investment (including Discount Income)		
Increase / Decrease in Fixed Asset	-16,91,56	17,39,41
Increase / Decrease in Investment	2,84,72	2087,23,63
Net cash used / generated from investing activities (B)	1331,95,49	-1161,39,19
(c) Cash flow from financing activities	1848,88,70	3925,65,16
Grants / contributions received		
Proceeds of Bonds	11795,64,80	6783,88,37
Increase / Decrease in Borrowings	-3352,80,70	2503,49,41
Increase / Decrease in Deposits	12621,07,70	12780,65,51
Share capital	1000,00,00	0
Net cash raised from financing activities (C)	23912,80,50	25993,63,45
Net increase in cash and cash equivalent (A) + (B) + (C)	16,56,73	4134,48,91
Cash and cash equivalent at the beginning of the year	1762,80,65	628,33,76
Cash and cash equivalent at the end of the year	1779,37,38	1762,80,66

1. Cash and cash equivalent at the end of the year includes:	2011-2012	2010-2011
Cash in hand	9	38,85,26
Balance with Reserve Bank of India	1168,79,91	801,32,40
Balances with other Banks in India	379,62,31	694,44,37
Remittances in Transit	2,54	0
Inter fund transfer	0	0
Collateralised Borrowing and Lending Obligations	230,92,53	228,48,56
Total	1779,37,38	1762,80,66

Previous year's figures have been regrouped/ rearranged to confirm to the current year's presentation, wherever necessary.

As per our attached report of even date

P. Parikh & Associates
Chartered Accountants
FRN : 107564W

Ashok Rajagiri
Partner
M No.046070
Mumbai
Date : 26 May 2012

Prakash Bakshi
Chairman

H R Khan
Director

Dipankar Gupta
Director

K. S. Padmanabhan
Chief General Manager
Accounts Department
Mumbai : 26 May 2012

M L Sharma
Director


P. Satish
Chief General Manager & Secretary

Consolidated Balance Sheet Profit and Loss Account & Cash Flow of NABARD & its Subsidiaries (NABCONS, ADFT, ABFL, NABFINS) 2011-2012

P. Parikh & Associates

Chartered Accountants

Auditors' Report on Consolidated Financial Statements

To the Board of Directors

NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

1. We have examined the attached Consolidated Balance Sheet of **NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT** (the 'Bank') and its Subsidiaries as at March 31, 2012, the Consolidated Profit & Loss Account and the Consolidated Cash Flow Statement for the year ended on that date annexed thereto. These financial statements are the responsibility of the Bank's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.
2. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are prepared, in all material respects, in accordance with an identified financial reporting framework and are free of material misstatement. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management as well as evaluating overall financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis of our opinion.
3. We did not carry out the audit of financial statements of subsidiaries of the Bank. The total Assets and total Revenues in respect of these subsidiaries are ₹ 353.65 crore and ₹ 46.90 crore respectively. The financial statements in respect of two subsidiaries viz., Agri Development Finance (Tamil Nadu) Ltd. and NABARD Financial Services Ltd., being unaudited, any adjustments to their balances could have consequential effects on the attached Consolidated Financial Statements, the impact of which is not ascertained. These financial statements have been certified by the managements of the respective subsidiary companies and have been furnished to us. In our opinion, in so far as it relates to the amounts included in respect of the Subsidiaries in Consolidated Financial Statements is based solely on such management certified financial statements.
4. We report that the Consolidated Financial Statements have been prepared by the Bank in accordance with the requirements of Accounting Standard (AS) 21 "Consolidated Financial Statements" issued by the Institute of Chartered Accountants of India and on the basis of the separate audited/certified financial statements of the Bank and its Subsidiaries included in the consolidated financial statements.
5. We report that on the basis of the information and explanations given and on the consideration given of separate audited/certified financial statements of the Bank and its Subsidiaries and subject to our comment in Para 3 above, we are of the opinion that the said consolidated financial statements give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India.
 - i. in the case of the Consolidated Balance Sheet, of the state of affairs of the Bank as at March 31, 2012;
 - ii. in the case of the Consolidated Profit and Loss Account of the consolidated results of operations of the Bank for the year ended on that date; and
 - iii. in the case of the Consolidated Cash Flow Statement, of the consolidated cash flows of the Bank for the year ended on that date.

Place: Mumbai

Date: May 26, 2012

For and on behalf of
P. Parikh & Associates
Chartered Accountants
Firm Registration No. 107564W

Ashok Rajagiri
Partner,
Membership No.: 046070

**National Bank for Agriculture and Rural Development
Consolidated Balance Sheet as on 31 March 2012**

(₹ in thousands)

Particulars	As on 31.03.2012	As on 31.03.2011
FUNDS AND LIABILITIES		
Capital	3000,00,00	2000,00,00
Reserve Fund and Other Reserves	13442,36,69	11888,71,64
National Rural Credit Funds	16058,00,00	16045,00,00
Funds Out of Grants received from International Agencies	139,20,78	138,29,56
Gifts, Grants, Donations and Benefactions	657,95,94	2601,94,77
Other Funds	4157,17,24	3431,47,40
Minority Interest	32,09,12	21,69,85
Deposits	95397,75,23	82776,67,53
Bonds and Debentures	38582,89,64	26787,24,84
Borrowings	4328,48,39	7681,29,09
Current Liabilities and Provisions	6349,96,46	5605,55,85
TOTAL FUNDS AND LIABILITIES	182145,89,50	158978,50,53
PROPERTY AND ASSETS		
Cash and Bank Balances	8673,66,91	10881,89,87
Investments	18168,55,91	10305,81,92
Advances	152593,77,37	126031,10,66
Fixed Assets	225,83,24	229,99,83
Other Assets	2484,06,07	2529,49,75
TOTAL PROPERTY AND ASSETS	182145,89,50	158978,50,53

As per our attached report of even date
P. Parikh & Associates
Chartered Accountants
FRN . 107564W

Ashok Rajagiri
Partner
M No.046070
Mumbai
Date : 26 May 2012

K. S. Padmanabhan
Chief General Manager
Accounts Department
Mumbai : 26 May 2012

Prakash Bakshi
Chairman

H R Khan
Director

Dipankar Gupta
Director

M L Sharma
Director


P. Satish
Chief General Manager & Secretary

National Bank for Agriculture and Rural Development
Consolidated Profit and Loss Account for the year ended 31 March 2012

(₹ in thousands)

	2011-12	2010-11
Income:		
Interest Received on Loans and Advances	9516,42,24	8170,20,18
Income from investment operations	1354,73,85	946,91,62
Discount Received	0	0
Other Receipts	139,32,23	107,08,08
TOTAL INCOME	11010,48,33	9224,19,88
Expenditure:		
Interest and Financial Charges	7530,76,44	6194,38,06
Establishment and other expenses	1045,79,85	1135,57,54
Depreciation	21,34,47	22,67,16
Provisions	145,20,03	35,79,92
TOTAL EXPENDITURE	8743,10,79	7388,42,68
Profit before Income Tax	2267,37,54	1835,77,20
Provision for Income Tax	459,04,55	463,67,98
Deferred Tax Asset Adjustment	161,93,99	84,93,30
Profit after Tax	1646,39,00	1287,15,92
Share of Profit / Loss in Subsidiaries attributable to Minority Interest	2,13,27	88,93
Profit available for Appropriation	1644,25,73	1286,26,99
Appropriations:		
Profit as above	1644,25,73	1286,26,99
Add: Withdrawals from various funds against expenditure debited to Profit & Loss Account	69,30,30	202,67,59
Total Profit Available for Appropriation	1713,56,03	1488,94,58
Transferred to:		
Special Reserve u/s 36(l)(viii) of the Income Tax Act, 1961	310,00,00	360,00,00
National Rural Credit (Long Term Operations) Fund	10,00,00	50,00,00
National Rural Credit (Stabilisation) Fund	1,00,00	10,00,00
Co-operative Development Fund	5,35,40	6,05,32
Research & Development Fund	20,65,30	17,67,49
Investment Fluctuation Reserve	27,15,42	116,07,65
Producers' Organization Development Fund	0	50,00,00
Rural Infrastructure Promotion Fund	0	25,00,00
Financial Inclusion Technology Fund	45,00,00	10,00,00
Farmers Technology Transfer Fund	2,73,85	2,34,20
Farm Innovation and Promotion Fund	44,56,36	33,55,54
MFDEF Reserve Fund	0	0
Reserve Fund	1247,09,69	808,24,38
Total	1713,56,03	1488,94,58

Additional Notes to Consolidated Accounts

- Consolidation has been done pursuant to the listing agreement with stock exchange.
- Financial statement in respect of Agri Development Finance (Tamilnadu) Ltd. and NABARD Financial Services Ltd. are unaudited.
- Details of the subsidiaries:

Name of the Subsidiary	Country of Incorporation	Proportion of Ownership
Agri Development Finance (Tamilnadu) Ltd.	India	52.10
Agri Business Finance (AP) Ltd.	India	47.82*
NABARD Financial Services Limited	India	61.71
NABARD Consultancy Pvt. Ltd.	India	100

*NABARD controls the Board of Directors of Agri Business Finance (AP) Ltd. and hence considered as a subsidiary.

- The financial statements of the company and its subsidiary companies are combined on a line to line basis by adding together expenses after fully eliminating intra-group balances and intra-group transactions in accordance with Accounting Standard – (AS) – 21 – “Consolidated Financial Statement”.
- Depreciation on fixed asset is provided on Written Down Value Method (WDV), at the rates specified in Schedule XIV to the Companies Act, 1956 by Agri Development Finance (Tamilnadu) Ltd and Agri Business Finance (AP) Ltd., whereas NABARD Financial Services provided Straight Line Method (SLM) at the rates specified in Schedule XIV to the Companies Act, 1956 on prorata basis. Thus the Accounting Policy followed by subsidiaries for depreciation are different from the Accounting Policy for depreciation followed by NABARD in the preparation of Consolidated Financial Statements. Thus out of the total depreciation of Rs. 21.34crore (22.67 crore) included in the Consolidated Financial Statement, 0.13 % (0.14%) of that amount is determined based on depreciation provided by following WDV / SLM at the rates as specified in Schedule XIV to the Companies Act, 1956.
- Income on foreign assignments by NABCONS is accounted on “receipt” basis. The amount of such fees receivable is not material.
- Disclosures as required under AS-17 “Segment Reporting” in consolidated financial statements are as under:

(₹ in crore)

Financial Year 2011-12 (Consolidated)	Direct Finance	Refinance	Treasury	Unallocated	Total
Segment Revenue	4412.77 (4090.85)	5198.78 (4086.49)	1346.02 (943.24)	52.91 (103.63)	11010.48 (9224.20)
Segment Results	252.21 (271.38)	1638.63 (1567.59)	1302.00 (912.21)	-925.46 (-915.41)	2267.38 (1835.77)
Total carrying amount of Segment Assets	74768.21 (66434.55)	94696.77 (74643.27)	13226.02 (15316.71)	2454.89 (2583.97)	182145.89 (158978.51)
Total carrying amount of Segment Liabilities	76230.47 (68934.10)	84520.54 (69320.39)	291.17 (266.47)	21103.71 (20457.56)	182145.89 (158978.51)
Other items:					
Cost to acquire Segment Assets during the year				18.42 (18.54)	18.42 (18.54)
Amortization & Depreciation	0.08 (0.06)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	21.26 (22.61)	21.34 (22.67)
Non Cash Expenses (other than above)	15.98 (33.10)	129.62 (-0.08)	-0.80 (-0.05)	129.34 (100.21)	274.14 (133.18)

Note: There are no reportable secondary segments for the bank and its subsidiaries

8. Previous Year figures have been regrouped / rearranged wherever necessary

As per our attached report of even date

P. Parikh & Associates
Chartered Accountants
FRN : 107564W

Ashok Rajagiri
Partner
M No.046070
Mumbai
Date : 26 May 2012

Prakash Bakshi
Chairman

H R Khan
Director

Dipankar Gupta
Director

M L Sharma
Director

K. S. Padmanabhan
Chief General Manager
Accounts Department Mumbai
Mumbai : 26 May 2012


P. Satish
Chief General Manager & Secretary

National Bank for Agriculture and Rural Development
Consolidated Cash Flow Statement for the year ended 31 March 2012

(₹ in thousands)

Particulars	During 2011-12	During 2010-11
(a) Cash flow from Operating Activities		
Net profit as per P & L a/c before tax	2266,99,31	1835,77,20
Depreciation	21,34,47	22,87,16
Provisions and Amortisations	-31,23	2,78,34
Provision for Non performing Assets	14,87,45	32,90,00
Provision for Standard Assets	79,53,55	0
Provision for Sacrifice in interest element of restructured loan	51,37,00	-8,00
Interest credited to various funds	139,38,43	118,36,63
Other expenses	0	0
Income from Investment	-1346,02,32	-939,79,85
Profit / Loss on sale of Fixed Asset	12,58	4,64
Expenditure from various funds	-3283,28,78	-5492,54,83
Operating profit before working capital changes	-2055,99,56	-4418,88,71
Adjustment for net change in:		
Current Assets	2126,04,74	-377,80,87
Current liabilities	746,43,46	717,32,21
Increase/Decrease in Loans and Advances	-25803,53,80	-19087,50,88
Cash generated from operating activities	-24987,05,16	-23166,88,25
Payment towards Income tax	-431,06,93	-541,65,19
Net cash flow from operating activities (A)	-25418,12,09	-23708,53,44
(b) Cash flow from Investing Activities		
Income from Investment	1346,02,32	943,23,85
Increase / Decrease of Fixed Assets	-17,27,32	-17,72,70
Increase / Decrease in Investments	2,74,03	2087,33,45
Net cash used in Investing activities (B)	1331,49,03	-1161,82,30
(c) Cash flow from Financing Activities		
Proceeds of Bonds / Shares	11821,71,62	6793,53,37
Increase / Decrease in Borrowings	-3174,99,77	2555,88,70
Increase / Decrease in Deposits	12557,92,51	12762,20,26
Grants / contributions received	1848,86,90	3925,65,06
Dividend paid	999,30,27	-58,30
Net cash raised from financing activities (C)	24052,81,52	26036,69,09
Net increase in cash and cash equivalent (A) + (B) + (C)	-33,81,54	1166,33,35
Cash and cash equivalent at the beginning of the period	1815,57,69	649,24,34
Cash and cash equivalent at the end of the period	1781,76,15	1815,57,69
Cash and cash equivalent at the end of the period includes:	2011-12	2010-11
Cash in hand	4,04	10
Balance with Reserve Bank of India	1168,79,91	38,85,26
Balances with other Banks in India	381,97,13	654,09,40
Remittances in Transit	2,54	694,44,87
Collateralised Borrowing and Lending Obligations	230,92,53	228,18,56
Total	1781,76,15	1815,57,69

As per our attached report of even date

P. Parikh & Associates
Chartered Accountants
FRN : 107564W

Ashok Rajagiri
Partner
M No.046070
Mumbai
Date : 26 May 2012

Prakash Bakshi
Chairman

H R Khan
Director

Dipankar Gupta
Director

K. S. Padmanabhan
Chief General Manager
Accounts Department
Mumbai : 26 May 2012

M L Sharma
Director

P. Satish
Chief General Manager & Secretary

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

Kolkata-700012, the 22nd May 2012

No. U.13/12/PTMR(1)/SSMC/2008—In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.04.1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under Regulation 105 of ESI (General) Regulation, 1950 and such power further delegated to SSMC/SMC vide D.G.'s order vide Hqrs. Office Letter No. U/13/12/13/2005-Med.I/PTMR dated 09.09.08 the undersigned hereby authorize the following doctor to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. the date given below for one year or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for centre as stated below to the areas as allocated for the purpose of medical examination of the IPs and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificate is in doubt :—s

Name of the PTMR	Period	Name of the Centre
Dr. Harekrishna Sarma	01.01.2012 to 31.12.2012	Tinsukia, Dibrugarh, Digboi, Doom Dooma, Makum, Margareta, Joipur

S. K. CHOUDHURY
SSMC (EZ)

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2012
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2012